



शेठ नगीनभाइ मंडुभाइ जैन साहित्योद्यारे ग्रन्थांक० ३.

श्रिमद् विजयदानसूरीश्वर विरचित

## विविध प्रश्नोत्तर

प्रकाशक

शेठ नगीनभाइ मंडुभाइ जै. सा. फंड माटे

ज्ञाश्चंद नगीनभाइ कवेरी.

गोपीपुरा—छुरत.

सर्व हक्क स्वाधीन.

श्री वीरघासन प्रिन्टींग प्रेसमां छा. रतीछाळ केवळलाळे छाप्यु  
ठे. हानापटेरुनी पोळ,—अमदावाद.

वीराव. २४५३.

विक्रम १९८३.

इ. स. १९२७.

मत १०००.

आद्यपि १ ली.

मूल्य ०-१२-०.

## अर्पण पत्रिका



शासन सौभाग्य विच्छेद, सद्गुरु रसक अनाचार्य श्रीमद् विजयकमल सूरीचरजी महाराज साहेबजी परम पवित्र सेवायां.

निर्ग्रथ क्षिरोमणि,


निर्मळ दीर्घ चारित्र्य पर्यायी आप आ सुखने पावन करी रहा हता. नाचनो संभव क्षोपवी गुण सरिताओना, आप, वास्तवी गवायेळा धरिपदापिष्टीव रत्नाकर हता. अर्पणत् सर्वत्र सिध्यात् अंशकारुण्ये, अंश कृपान्तर अन्म आधिक्य क्यळने विकसित करनां अने कुमति पुवढोने मगाठनाच आपनु मयाच संपन्न चरित्र तो वचनावीत हत. स्वर्गत भातः सरणीय परम शुच न्यायांभौनिधि पांचाल देशोद्धारक श्रीमद् विजयानंद सूरीचरजी महाराजानी सुविशुद्ध पाटे आप, आपना प्रसूत योग्य गुणासुरागामी सेवायेळा सकळ संघ समुदायना अग्रगण्य पुढोना अत्यंत आग्रही अभिविक्त करायेळ. एकज पुवचसिह हतां. जगजना एकांन उपकार माटे प्रवा- हित थयेळा आपना निरादर बीकन आमळ अमाच आ-जति अरप अर्च्य छे. तो पण ते, आपना चरण कमळ सन्मूल आपना आद्य प्रहमरचा आ लघु सुस्तक रुपे समर्पण करीने अमो कृतार्थ शक्य छीच.

ली.

प्रकाशकतो.

न्यायाम्बोनिधि जैनाचार्य श्री १००८ श्रीमद् विजयानन्दसूरीश्वर पट्टमभाषक-

Shrimad Vijayakamalsooresvarji Maharaj.



“जैनाचार्य श्री १००८ श्रीमद् विजयकमलसूरीश्वरजी महाराज.”

“जैनाचार्य श्री १००८ श्रीमद् विजयकमलसूरीश्वरजी महाराज।”

❀ कर्म विक्रम स-१९०८, सरसा (पंजाब) ❀

दृढक ठीला वि-स-१९२९, जीरा (पंजाब)

मथेरी ठीला वि-स-१९३२, अमदावाद (गुजरात)



आचार्य पद वि-स-१९५७, पाटण (गुजरात)

स्वर्गवास वि-स-१९८३ कल्याणपुर (सुरत)

श्री-००५ श्री चर्क, अमदावाद



॥ नमः श्रीमहावीर्याय परमात्मने ॥

॥ नमः श्रीमद्भिनयकमलधरीचरचरणपङ्कजेभ्यः ॥

## प्रस्ताविका.

भारममां श्रीमदहत् परमात्मनि नमस्कारः करीने श्री. पुस्तक अने तेना रचनार संबधी हुंके हकीकतारुख करवां अमीने परमानिद प्राय छे.

विविध भक्तोचरमां बांचकांने अस्तिधारणे किं ओपनारी आं प्रिये एदंली वधीं सुमय अने सुख छे के तेन भाटे प्रस्तावना लखवानां प्रयास हस्त कर्मण भाटे आरतो भवना जेवो लागे छे. तथापि अय तरफ बाचकाना यथाव आमहाच तेयज आदर उत्पन्न करवा भाटे तेनी तथा तेना रचनार प्रदावनी जे वास्तविक विशेषताया रहेलां छे तेनी यत्कि चित् स्थाळ दर्शक सपाद्वात् करवानां आवश्यकताना हुंदिमाना जरूर स्विकार करणेन.

जैन गूरुन साहित्या आज अनेक ग्रंथोनी जायावलां हांदिमाचर वाय छे. जेमीं प्रश्नो-त्तर पद्धति ए रचावलां बुदा बुदा ग्रन्थां पुण स्थान रहेंछे छे. बांचनाराजाने विषयना सहैलाइयी बाच करवावा भांदि मस्त. तरा पद्धति जेन लखमा धना हुनी अने जापिती छे. ए मनारम्य शास्त्राव शोलाया आ प्रथमा पुथायला भक्तातरा आजवी लममग बार वर्ष पूरे आ वारशासन भासकमा मगठ बना हवा. तन एक स्वाया अय तराके प्रकाशनी लावनाहुं अर्थान जे आंकरां व छे ते तेनाभा रहैला नवांचता. रसोरेकता अने आं जांचने पनेत अनैक उर्धवाभा भननाइ विवेचनी सप्रमाण बाचकाने आधारी छे. बाचक जेन जेन आं प्रथमा पानाभां उंकी उतरवां जेन तेम तेम तेने स्पष्ट भास यता जता के तेना हुकां रुदंभा पम ओभेलां हांदिमाणानां ते अतुंयमं ज्ञाने तराणांने तेयन विवेचताना आदर करवा हुंदिछे. वाची रजु करवाभा आठरा छे.

आं अथवा जैनजिविनीं धर्मान आंइइक विवेदां चरवांवां अनेक होव एवो सहैज ज छे. किंतु एमां आवतां सिद्धांत विवेक, धर्मांतर् विषयक, भाषांत विषयक अने कित्तु शास्त्र विषयक बुदा बुदा भक्तातरां अचरि आवां अनां अनेय विवेचाना बांचकांने पारचय करावक, एट उन नाइ पम भजनवाची अपना बाचकना अथवा कट शी एकर बलत जे नहि ह्छवानाया स्खलनाया बना पावती, अनै नइरा नइरा हांदि, धमाइइ विगरे जैनधर्मो अस्ति आंइइक बावदाया जे गंवार बुला बना पावता ते तयाय आ अथवा बांचनावा दूर थइ इरुके एया जराव अंका नवी.

શ્રીમદ્ વિજયદાન સૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રી ઓઝિનામયના મહાન્ જ્ઞાતા અને પ્રતાપી પુસ્તક છે. ધ્યોતિષ્ જેવા અતિશય કટીન અને હામગ મુહાઈ મયેલા વિષયમાં પણ તેઓ-ઓનો નિર્મલ્લ જુહિનું કેટું સામ્રાજ્ય પ્રવૈષે છે તે જનવાને મુવિદિત છે. આ સિવાય વહોદરા રાજ્યના નરેશ્ શ્રીમંત્ સયાલીરાવ ગાયકવાડ સરકારે સ્વાસ નિર્મળગ કરીને ગ્રંથકાર આચાર્યશ્રી પાસે કરાવેલાં રામ પ્રતિબોધક વ્યાખ્યાનો ઘણાં જ મનનીય છે; એ વ્યાખ્યાનો શ્રીમંત સરકારે પોતાના તરફથી વહાર પ્રદાન્યા છે અને તે રાજ્યના પુસ્તક પ્રકાશન સ્વાતામાંથી આજે પણ મલી શરૂ તેમ છે. આ આદ્યમાં આચાર્યશ્રીએ કેટલોક મુષારો વધારો કર્યો છે. ને કેટલાક જાણવાજોગ નવા પ્રશ્નોત્તરોનો વધારો પણ કર્યો છે.

અને આ ફંદનો ટુંક-રૂવિહાસ રહુ કરવો યોગ્ય પારીએ છીએ. મહુમ ધર્માત્મા શેટ નગીનમાઈ મંજુમાઈ જ્ઞવેરીએ પોતાનો પાછલ રૂ. ૨૫૦૦૦ ) અંકે પચીસ હજારની રકમ કાઢી જૈન ધર્મના પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કરવા માટે એક ફંદ સ્થાપવા પોતાના પુત્રો તથા ધંધુઓને જળાધ્યું હતું તેમાં તેઓશ્રીના વઢીક પુત્ર મહુમ શેટ મોવીચંદ નગીનમાઈ જ્ઞવેરીએ રૂ ૫૦૦૦ ) અંકે પાંચ હજારની રકમ આપી છે તે હમેરતાં આ ફંદ કુછે સપીઆ ૩૦૦૦૦ ) ગ્રાંસ હજારનું થયું છે. તેનો મુલ્ય હેતુ જૈન-શ્વેતામ્બર મૂર્તિ પૂજક સાહિત્યના માત્રીન તથા અર્થાવીન ગ્રંથો મુલ્યત્વે શુજરાતી તથા હિંદિ ભાષામાં પ્રસિદ્ધ કરી સસ્તાં કીંમતે વેચવાં.

પ્રતિ અમારે નમ્રપણે જળાધ્યું જોણે કે શાસ્ત્ર વિકલ્પ કપોલ કલ્પિત વાંતોના પ્રવા-રને દૂર કરવા માટે આ ગ્રંથ આલ ક્રિમતાં અને જરૂરી છેલાઓ રહું હંચી જૈનસમાજ-હંસલીર ન્યાય પ્રમાણે તેના હજ્જાત હામ છે અને હાપાદોષવાં અથવા તેવાજ કોઈ અમ્ય પ્રમાદ દોષથી ગ્રંથ પ્રકાશનમાં જો કંઈ મુલ્ય વેસાંય તોં વરગુજર કરશે.

આ સ્થલે પરમ પૂજ્ય આગમોદ્ધારક સાક્ષર શિરોમળી આચાર્ય શ્રીમદ્ સાગરાનંદ સૂરીશ્વરજીના આમાર માનતાં અમોને અતઃત્ત હર્ષે પ્રાય છે. તેઓશ્રીનો સક્ષાહર્ષીજ આ ફંદ સ્થાપવામાં આધ્યું છે. અને મહુમ શેટ નગીનમાઈ મંજુમાઈનો તેઓશ્રી તરફ સંપૂર્ણ પૂજ્યમાવ હોવાથી તેઓશ્રીના હપવેશનું જ આ પરિણામ છે.

છી૦

પ્રકાશકો.






“कैलासोदरसत्कीर्तिं, शीतांशुज्ज्वलसंयमम् । वन्दे श्रीवीरविजयो-पाध्यायं मुनिपुङ्गवम् ॥१॥”

सद्वर्माद्वारक-न्यायाभोनिधि-श्री १००८ श्रीमद् विजयानन्दसूरीश्वर-शिष्यरत्न-



“सद्वर्माद्वारक-न्यायाभोनिधि-श्री १००८ श्रीमद् विजयानन्दसूरीश्वर-शिष्यरत्न-”



“Upadhyaji Shree Virvijayaji Maharaj.”



“उपाध्यायजी श्री १००८ श्रीमद् वीरविजयजी महाराज ।”

कल्प दि-१-१९०७ पडवा (भावनगर)

दीर्घा दि-५-१९३५ अवाळ (पनाव)



उपाध्याय पद १९५७ पाटण (गुजरात)

मरणदिनाम- १९७५ घमाळ (गुजरात)

“प्रकाशक-वार्ध सुमेरमलनी भूराणाजी-कलकत्ता”

उपाध्याय-श्रीमद्-वीरविजयमुनिपुङ्गव-

-गुणस्तुत्यष्टकम् ।

“ शार्दूल विक्रीडितम् । ”

-सिद्धश्रीततिनोपज्ञावनगरं सौराष्ट्रदेशेऽन्विते,  
ग्रामे श्रीपद्मवाजिघां च दधति ध्वान्तहिदे देहिनाम् ।  
यो जन्माऽश्रयताऽष्टखांकाधरणीसंस्थे शुभे वत्सरे,  
भक्त्या तं प्रणमामि वीरविजयोपाध्यायमंहोजिदे ॥ १ ॥

-मत्वा सामजकर्णचञ्चलतरं यः श्रीचरं देहिना-  
मायुष्यं करसम्पुटस्थजलवन्नित्यं विज्ञान्य क्षयि ।  
क्षेत्रे संयममक्षवह्निवचूवर्षे शुभे वैक्रमे,  
भक्त्या तं प्रणमामि वीरविजयोपाध्यायमंहोजिदे ॥ २ ॥

-जैनेन्द्रश्रुतसागरं सुगहनं सर्वबोधपाथोजृतं,  
रङ्गमङ्गतरङ्गसङ्गतमरं नैर्मह्यकार्यङ्गिनाम् ।  
गन्तुं सौख्यनिकेतनं शिवपुरं यो बुद्धिनावाऽतरत्,  
भक्त्या तं प्रणमामि वीरविजयोपाध्यायमंहोजिदे ॥ ३ ॥

-वीणाकोकिलकम्बुशब्दनिकरं वाणी यदीयाऽमखा,  
माधुर्येण जिगाय चाऽम्बुदञ्जवं घोषेण गर्जारवम् ।  
गन्धर्वा स्त्रिदिवोकसक्ष सरसं गानेन षट्जादिषु,  
भक्त्या तं प्रणमामि वीरविजयोपाध्यायमंहोजिदे ॥ ४ ॥

—कुर्वन्नुग्रविहारमङ्गिनिवहं गोभिः प्रबोधं नयन्,  
पीयूषांशुरिषं प्रतापंजवनं यो निष्कलंङ्क्युतिः ।

संप्राप्तः पदवीं मुनीषुनवमूर्ध्वं च संकृऽऽप्यहात्,  
जक्त्वा तं प्रणमामि वीरविजयोपाध्यायमंहोजिदे ॥ ५ ॥

—दुष्कमेन्धनसञ्चये श्रितत्रति प्लोषं यदीयक्रम-  
सङ्गफिष्वखनेन कश्चनजनो मूकोऽपि वक्ताऽजवत् ।

सङ्गाश्चर्यकरं च संयमरतं सङ्गानलीलाग्रहं,  
जक्त्वा तं प्रणमामि वीरविजयोपाध्यायमंहोजिदे ॥ ६ ॥

—यः पीयूषकिरागिरा विशदया सङ्गं सदाऽप्रीणयत्,  
कुन्देन्दुज्ज्वलयाऽखिलं क्षितितलं कीर्त्या चकारोज्ज्वलम् ।

अन्तर्वैरिगणं जिगाय बलिनं वैराग्यलङ्घनेन च,  
जक्त्वा तं प्रणमामि वीरविजयोपाध्यायमंहोजिदे ॥ ७ ॥

—प्राणिदामणकर्म धर्मितिलको यः कर्ममर्मह्रिदे,  
सानन्दं विरचय्य चाणमुनिनन्देन्दुप्रमे वत्सरे ।

कृत्वाऽऽयुःस्थितिपूर्णातां सुमनसाऽगादेवज्जयं शुभं,  
जक्त्वा तं प्रणमामि वीरविजयोपाध्यायमंहोजिदे ॥ ८ ॥

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

“ श्रीमदमरविजय-क्रमान्त्रोरुहषट्पदः ।

पतञ्जकेऽष्टकं जक्त्वा, चतुरविजयो मुनिः ॥ ९ ॥ ”



उपाध्यायी श्री १००८ श्रीमद् वीरविजयनी महाराजना विष्णुरत्न-अने  
 जैनाचार्य श्री १००८ श्रीमद् विजयदानसूरीश्वरजी महाराजना प्रथम पदक-



Acharya Shrimad Vijaydan Sooraswari Maharaj

“आचार्य श्री १००८ श्रीमद् विजयदानसूरीश्वरजी महाराज।”

कल्प वि-७-१९०५ श्रीकृष्णाय (काठियावाड)  
 श्रीका वि-५-१९४६ शेषाय (काठियावाड)



शशि-सनातनम्-१९९९, सनात (दुल्हात)  
 आचार्य पद-१९८१, कशी (दुल्हात)

“प्रकाशक-बापू सुनेयलकी दरानानी-कलकत्ता।”

१-००० श्री १००० अक्षरावाक्य

आचार्य श्रीमद् विजयदानसूरीश्वर-

गुणस्तुत्यष्टकम् ।

“ शार्वूलविक्रीडितम् । ”

शुभे वेदकराङ्गभूपरिमिते वर्षे जनिं वैक्रमे,  
शुभे कार्तिकमासि योऽहनि चतुर्दश्यां प्रशस्तैर्ग्रहेः ।

जन्म्यान्जोरुहजासनैकतराणिर्गोत्रिर्जनान् बोधयन्,  
सूरिवो वितनोतु दानविजयः श्रेयांसि भूयांसि सः ॥ १ ॥

षड्वेदाङ्गधराप्रमे च शरदि स्फुर्जच्छिद्युक्ताशयो,  
मार्गे मासि शुभे दशे च धवले सत्यञ्चमीवासरे ।

दीक्षां यः समवाप वीरविजयोपाध्यायपादान्तिके,  
सूरिवो वितनोतु दानविजयः श्रेयांसि भूयांसि सः ॥ २ ॥

वासकैपमिषेण वीरविजयोपाध्यायपादा मुदा,  
योग्यत्वं विविज्राव्य सौवसुगुणान्-दीक्षाक्षणे सं-ददुः ।

जक्त्या जन्मजनस्तुतांशियुगलः शुक्लाशयो निर्मदः,  
सूरिवो वितनोतु दानविजयः श्रेयांसि भूयांसि सः ॥ ३ ॥

सन्निक्षेपनयप्रमाणरुचिराञ्जैनागमान् वेद यः,  
कर्मग्रन्थमुखेषु च प्रकरणग्रन्थेषु योऽकुषधीः ।

स्फुर्जन्ज्योतिषशास्त्रतत्त्वविदुरो दृक्को मुहूर्त्तादिषु,  
सूरिवो वितनोतु दानविजयः श्रेयांसि भूयांसि सः ॥ ४ ॥

(८)

सम्प्रापन्नयनर्तुनन्दवसुधा वर्षे च मार्गार्जुने,  
मौनैकादशिवासरे गण्डिपदं तत्रैव मासे तथा ।  
सत्यह्यासपदं विश्वरूपधिषणो यः पौर्णमासीदिने,  
सूरिवो वितनोतु दानविजयः श्रेयांसि भूयांसि सः ॥ ५ ॥

टीकाचूर्यवचूरिजाप्यरुचिरेच्यश्चोञ्जवृत्त्याऽनघः,  
श्रीजैनागमसंहतिप्रकरणग्रन्थेभ्य आदाय यः ।  
अल्पज्ञाऽङ्गिगणप्रबोधनकृते प्रश्नोत्तराण्याखिखत,  
सूरिवो वितनोतु दानविजयः श्रेयांसि भूयांसि सः ॥ ६ ॥

चन्द्राष्टातिघृतिप्रमे च कमलाचार्येण ढायापुरे,  
शुक्ले यो मृगशीर्षमासि मतिमान् सत्यश्चमीवासरे ।  
लेत्रे सूरिपदं यशस्ततिच्रुताशामण्डलः सदृगुष्ठी,  
सूरिवो वितनोतु दानविजयः श्रेयांसि भूयांसि सः ॥ ७ ॥

श्रीद्वयं हृदि यस्य नैव पदवीजाजोऽपि विद्यावतो,  
नानाचेदतपःकृतोऽपि न मनाक् क्रोधावकाशः क्वचित् ।  
विद्वद्भिष्यगणस्तुतांहियुगलस्याहं कृतिर्नेदयते,  
सूरिवो वितनोतु दानविजयः श्रेयांसि भूयांसि सः ॥ ८ ॥

॥ नमः श्रीमद्भिजयानंदसूरीश्वरचरणपंकजेभ्यः ॥

## विषयानुक्रमणिका.

प्रश्नः	पत्रांक.
१ जवनपतिथी अधिक ऋद्धिवाला कोइ व्यंतर होय ?	१
२ ईशानइंद्रनुं वाहन तथा शस्त्र शुं ?	२
३ श्रीस्थुलिजद्रस्वामिनुं नाम केटला काल रहेशे ?	२
४ श्रीसिद्धजगवान्मां अनंत चतुष्क कथुं ?	२
५ श्रीसुनक्षत्र अने श्रीसर्वानुभूति कया देवलोकमां गया ?	२
६ देवताठं कइ जाषा बोले ?	३
७ जवनपतिमां नीकळीने श्रीतीर्थकर थाय ?	४
८ व्यवहारी अने अव्यवहारी कोने कहेवा ?	४
९ देवोने निद्रा होय ?	५
१० अनंतानुबंधी कषायनो जघन्य उदय काल केटलो ?	५
११ कोरहु मग सचित्त के अचित्त ?	६
१२ नारहीठं कोइ वखत परमाधार्मिकना सामा थाय ?	६
१३ जृजकदेवो कइ निकायना तथा तेमनी स्थिति केटली ?	७
१४ साधु साध्वीनी वकी दीक्षासां दिग्बंधनसां केटला नामो आपवा ?	७
१५ सिद्ध जगवान्मां प्राण केटला ?	८
१६ जातिस्पृतिज्ञानवान् केटला जनो देखे ?	८
१७ शुक्लपाक्षिक अने कृष्णपाक्षिक जीवोनुं स्वरूप ?	९
१८ औषध जेषज शब्दनो अर्थ ?	१०
१९ मनःपर्यायज्ञान कोने थाय ?	१०



- ३० मनःपर्यायज्ञानीने अवधिज्ञान अवश्य होय ? १०
- ३१ परमावधिज्ञान थया पढी केटखा काले केवल ज्ञान थाय ? ११
- ३२ पौषधना पकासणामां छीलु शाक कल्पे ? ११
- ३३ कोळीआना तेलथी तळेसी वस्तु कनाइविगयमां गणाय ? १२
- ३४ श्री आचार्यमहाराजा गौचरी जाय ? १२
- ३५ स्थानार्द्धि निद्रानुं वर्त्तमान कालमां केटलुं वळ ? १३
- ३६ उपशम अने क्षयोपशम सम्यक्त्वमां जिनता शी ? १४
- ३७ श्रीमहावीरपरमात्माए केवल ज्ञान पाम्या पढी तप केटलो कथो ? १५
- ३८ विजयादि अनुत्तरमां गयेल उत्तम जीवो व्यंतरादि देवोमां तथा नरक अने तीर्थचादि गतिमां जाय ? १७
- ३९ परमाणु अने प्रदेशमां जेद शो ? १७
- ४० सर्व केवलज्ञानी केवळी समुद्रघात करे ? १८
- ४१ कल्पवृक्षादिक अर्थिजनोना मथोरथ देवताळनी सहायधी पूरे के स्वयं ? १८
- ४२ संख्या प्रतिक्रमणमां प्रत्याख्यान मुहपत्तिनी प्रतिस्तेखना स्वमासमण दर्ई आदेश मागीने करवी के केम ? १९
- ४३ साधुर्तने निथजातिमां गौचरी जावा कल्पे ? १९
- ४४ दायिकसम्यक्त्ववान् श्रीश्रेणिकमहाराजादि अनंतानुबंधी कषायना उदय विना नरकमां केवी रीते गया ? २०
- ४५ उपधाननी क्रिया कोण करावी शके ? २१
- ४६ श्रीविजय शेट अने विजया शेठाणी जेवा वीजा आवक आविकार्त थयेल ते ? २२
- ४७ पक्खी पक्षिकण्णामां ठीक वयांधी कयां सुधी वर्जवी ? २३

- ३ए धनुषादिकना जीवने जेम पापनी क्रिया लाजे तेम  
पातरादिकना जीवने पुण्यबंध थाय ? ३३
- ४० श्रीसुधर्मास्वामी आदि पर्युषणमां शुं वांचता ह्शे ? ३४
- ४१ श्रीसुधर्मास्वामी आदि पर्युषणमां शुं वांचता ह्शे ? ३५
- ४२ श्रीहरिचन्द्रसुरीश्वरजी कथा ? ३५
- ४३ श्रीगौतमस्वामिजीने श्रीमहावीरस्वाजीनी साथे  
संबंध पाळलना कथा जवथी ? ३५
- ४४ कई गतिमांथी आवेला चक्रवर्ती थाय ? ३६
- ४५ श्रीमहावीरस्वामिजी मनुष्यना जवमांथी आवीने  
बावीसमा जवमां चक्रवर्ती थया ? ३६
- ४६ संध्यांतुं प्रतिक्रमण कर्या पळी आवक देराशर दर्शन  
करवा जई शके ? ३६
- ४७ पौरुषी आदि तिविहार थाय ? ३७
- ४८ खर्जूरी अथवा मुंजनी पुंजणीथी साधु प्रमार्जन करे ? ३७
- ४९ पुष्यनक्षत्रंतुं बलवान्पणुं ? ३७
- ५० दीक्षा अवसरे मूळ नाम बदली बीजुं नाम राखी शक्याय ? ३७
- ५१ उपधानमां चोमासीनी असजाय गणाय ? ३७
- ५२ श्रीतीर्थकर नाम कर्मनो हेतु कथुं सम्यक्त्व ? ३७
- ५३ वर्तमान काळमां जरतदेत्रना मनुष्यने ह्यायिक  
सम्यक्त्व उत्पन्न थाय ? ३७
- ५४ तळेखी पूरी आदिमां केटली विगय ? ३३
- ५५ श्रीअतिमुक्त कुमारे केटला वर्षेनी वयमां दीक्षा लीधी ? ३३
- ५६ जावतीर्थ कोने कहीये ? ३३
- ५७ अभिने विषे उंदरो उत्पन्न थाय ? ३३
- ५८ रात्रिय विजळीनी उजेही लागे ? ३३

५७ मिथ्यात्वने गुणस्थानक कहेवानो हेतु ?	३४
५८ स्तवन चैत्यवन्दन अने स्तुतिमां जेद शो ?	३४
६० सर्व वायुकायने वैक्रिय लब्धि होय ?	३५
६१ जगत जरेलुं वल्ल साधु साध्वीने कल्पे ?	३५
६२ सास्वादन सम्यग्दृष्टि लब्धि अपर्याप्तमां उत्पन्न थाय ?	३६
६३ राष्ट्रिय रूना पुंभकां कानमां साधुलये अवश्य राखवा ?	३६
५४ अंबरु तापसी शुं तीर्थकर थशे ?	३७
६५ सिद्ध शिखा अने अलोकनी वचमां अंतर केटलुं ?	३७
६६ नरकमां बादराशिकाय ठे ? नथी तो नारकीलं शायी दाजा ?	३७
६७ ज्ञाननी वृद्धि करनारा नक्षत्रो कया कयां ?	३७
६८ श्रीआद्रकुमारनी स्त्रीप क्षामाटे रेंटीलं कांत्यो ?	३७
६९ मूळाना पत्र आदि ज्ञस्य के अज्ञस्य ?	४०
७० रंगीत पात्रो तरुके केटला काल सुकवाय ?	४०
७१ मैथुन सेवनमां केटला जीवोनो नाश थाय ?	४१
७२ स्वप्रजावथी प्रशामित वैरादि एवा श्रीमहावीर स्वानिजीनी विद्यमानपणामां उज्जितादिकनी विरुंबना केम थइ ?	४१
७३ संविग्रपादिक शिष्य करे ?	४३
७४ अणादिकनी ज्ञाजी साथे विदल थाय ?	४६
७५ बावळीया तथा कुमटीया साथे विदल थाय ?	४६
७६ चक्रवर्ती फरीने चक्रवर्ती थाय तो केटला काळे ?	४७
७७ उपशम सम्यक्त्वनो उत्कृष्ट काल केटलो ?	४७
७८ जघन्यथी केटला आयुष्यवाळो मनुष्य नरकमां जाय ?	४७
७९ पांच सम्यक्त्वमां पौद्गलिक केटलां ?	४७
८० सात विकथाळं कइ ?	४९

- ८१ शीलवन्त पुरुषोप स्त्रीनुं आसन अने शीलवती स्त्रीप पुरुषनुं  
आसन केटला काळ त्यागनुं ? ५०
- ८२ परमाधार्मिकनी करेली वेदना केटली नरकमां होय ? ५०
- ८३ काची केरी तथा काचां चीजनां आदिना कटका वेधनी  
पढी फासु थाय ? ५१
- ८४ चण्डविहारमां अनाहार वस्तु कल्पे ? ५१
- ८५ सांप्रतकाळमां केटला निर्भियो लाजे ? ५३
- ८६ घोयेलां वस्त्रो साधु साध्वीठं तन्के सुकवे ? ५४
- ८७ गाममां एक रात्रि नगरमां पांच रात्रि वसवानो कल्प कोनो ? ५४
- ८८ साधु साध्वीठं नदी उतरी ईरियावही करे ? ५५
- ८९ श्रीतीर्थकर महाराजना जन्म पढी तेमनी माताने बीजा  
पुत्रनो जन्म थाय ? ५५
- ९० आवक आविकाने चरवळो राखवानुं कया शास्त्रमां ठे ? ५५
- ९१ श्रीविहरमानजिनेश्वरोना लंडन कया ? ५६
- ९२ प्रथम पौरुषीमां लावेल आहार केटला काळ कल्पे ? ५७
- ९३ श्रीजिममंदिरमां दर्शन करतां आवके पाठनी उतारवी ? ५८
- ९४ श्रीस्थंजनपार्श्वनाथजीनी मूर्ति कोणे चरावी ? ५८
- ९५ श्रीधन्नाशाळीजडजी कइ गतिमां गया ? ६०
- ९६ प्रमादी साधु आवश्यकनो त्याग करी ध्यान करी शके ? ६१
- ९७ रात्रिभोजनमां अधिक दोष शा आवारे ? ६१
- ९८ चारणमुनिठं रात्रिप गमनागमन करे ? ६२
- ९९ अचिन्तरज उद्गावणीनो कायोत्सर्ग क्यारे करवो ? ६३
- १०० लुला आंधळा आदिने दीक्षा देवाय ? ६४
- १०१ वकडंबरादिना फळो शा कारणथी अन्नइय ? ६४

- १०२ इन्द्रस केटसा काल कल्पे ? ६५
- १०३ श्रीअजितशान्तिस्तोत्रना कर्त्ता श्रीनंदीषणमुनि क्यारे थया ? ६५
- १०४ काची ठासनी साथे विदळनी जेम अन्य कइ वस्तु अजस्य ? ६६
- १०५ साधुर्लष धर्मानुष्ठान कइ दिशामां मुख राखीने करवुं ? ६६
- १०६ श्रीजिनेश्वर जगवान्ना ललाटमां सुवर्णादिकना तिलक  
चदाववानी प्रवृत्ति केटसा काखनी ठे ? ६७
- १०७ साध्वीजी पुरुषोनी सत्रामां श्रीकल्पसूत्र वांची शके ? ६७
- १०८ अपुनर्वधक अने सकुतबंधकमां जेद शो ? ७१
- १०९ अग्रती आवकोने प्रतिक्रमण शानुं ? ७२
- ११० श्रीजकामरस्तोत्रनां काव्यो केटसां ? ७३
- १११ नवकारमंत्र चौदपूर्वनो सार कया ग्रंथमां ठे ?
- ११२ श्रीतीर्थनो व्यवच्छेद कया कया श्रीतीर्थकरोना आंत-  
रामां थयो ठे ? ७४
- ११३ पांचमा आरामां गामो इमसान समान कया सूत्रमां ठे ? ७५
- ११४ नवीन प्रसुत गाय जेंस आदिनुं दुध केटसा दिवसे कल्पे ? ७६
- ११५ साधु साध्वीने गौचरी आलोववानी विधि ? ७७
- ११६ गोळ खांर साकर आदिथी, फासु थयेळ पाणीनो  
काळ केटसो ? ७७
- ११७ श्रीजिनेश्वरनी दृष्टि हारना कया जागमां राखनी ? ७९
- ११८ श्रीमेघकुमारनी माता धारणीने केटसा पुत्र ? ८०
- ११९ अचव्यने कइ कइ वस्तुनी प्राप्ति न थाय ८०
- १२० मोटा रोगो कया ? ८२
- १२१ नवे वासुदेवोनुं शारीरिक बळ सरखुं होय ? ८२
- १२२ श्रीशांतिनाथस्वामिनी माताय केटसां स्वप्नो जोयां ? ८३

- १२३ उपवासमा पाणहार नवकारसी थाय ? ७४
- १२४ श्रीब्राह्मीसुंदरीजी कुंवारीज के परपेली ? ७४
- १२५ मनुष्य लोकनी बहार कई कई वस्तु नथी ? ७४
- १२६ ध्वादशांगीना प्रणेता श्रीगौतमस्वामिजी प्रश्नो पुढे  
एमां हेतु ? ८५
- १२७ 'ऊंकारावसारा' थी त्रय पदो सर्वे जेगा मर्लाने शा  
कारणथी बोखे ?
- १२८ श्रीकृष्ण महाराजाना जवो केटला ? ७७
- १२९ देवताज अवधिज्ञानथी कर्म पुद्गलने देखे ? ७७
- १३० लोच कया कया नक्षत्रोमां अइ शके ? ९१
- १३१ साधुज कया नक्षत्रमां स्वर्गवास थयेल होय तो  
पुतलां करवां ? ९१
- १३२ श्रीतीर्थकर विना अन्य मनुष्य अवधिज्ञान सहित  
गर्जावासमां आवे ? ९३
- १३३ अवधिज्ञानथी मनःपर्याय ज्ञानने जुडु मानवानो हेतु शो ? ९४
- १३४ देवो मांसादि पदार्थोतुं नक्षत्र करे ? ९५
- १३५ श्रीजिनेश्वरनी पूजामां केशर शास्त्रोक्त ठे ? ९५
- १३६ यक्ष्यक्षिणीनी पूजा मानता करवाथी मिथ्यास्व लागे ? १०१
- १३७ श्रीजिनेश्वरदेवनी नवांग पूजानुं वर्णन ? १०३
- १३८ श्रीजिनमंदिरनी ध्वजानी ढाया केटला काल त्यागवी ? १०४
- १३९ वर्धमान तपनी उंलीनी श्रायंविषमां ढासनो पदार्थ कब्ये ? १०४
- १४० पंचमीनो तप करनारने चाडवा शुदी ५ मे उपवासज  
करवो पके के ? तथा ते तिथिष लीलुं शाक कब्ये ? १०५

- १४१ अक्षरनो अनंतमो जाग सर्व जीवने लघानो सदा  
होय तेनो अर्थ ? १०७
- १४२ ज्वज्जार्दंरुत्तु प्रमाण ? १०९
- १४३ नरकाना जीवो शा शा कारणे सातावेदनीयनो अतुजव करे ? १११
- १४४ गजारवनो शब्द शार्थी उत्पन्न अय ते ?
- १४५ क्लृप्तुंजानी भाजीना शाकनो बीजा कया शाकनी साथे  
मेलाप करवार्थी सूक्ष्म जीवोनी उत्पत्ति थाय ? ११३
- १४६ अलोकमां जीव अजीवना केटसा चेद ? ११४
- १४७ लोकांतिक देवोना जव ? ११४
- १४८ परमाणु पुद्गलना वर्णं गंध रस स्पर्शनो परावर्त्तन थाय ? ११५
- १४९ श्रीमहावीर स्वामिजीना ७३ वर्षना आयुष्यनी गणना ? ११५
- १५० श्रीमान् अजयदेवसूरीश्वरजी कया गह्वमां थया ? ११६
- १५१ श्रीशत्रुंजय उपर जेवो तेवो संयमी पण वंदनिकनो अर्थ ? ११७
- १५२ स्थापनाचार्य केटसा लंका होय तो कियानी शुद्धि थाय ? ११७
- १५३ श्रीमरुदेवा मासाने चौद स्वप्नोना अर्थ कोणे कह्यो ? ११७
- १५४ दिगंबरना मंदिरोमां वंदन पूजन थाय ? ११८
- १५५ चौदश आदि रिक्तातिथिमां प्रतिष्ठा थाय ? ११९
- १५६ पाक्षिक प्रतिक्रमणमां कयां सुधी ठीक आवे तो फरीधी  
करवुं अने फरीधी न थाय तो शुं करवुं ? १२१
- १५७ कामल उपर ७४ नो आंक करवानो हेतु ? १२३
- १५८ साधुलेने कारणे दिवस सुबानी आझा ? १२४
- १५९ देवताळं जवधारणीय शरीरची अर्धी आवे ? १२४
- १६० कृणाखाना नाशक कुरुट उरुकुरुट मुनिळं कइ गतिमां गया ? १२६
- १६१ समवसरणमां अल्पशुद्धिवाळाळं महर्द्धिकोने  
नमस्कार करे ? १२८

१६२ श्रीअजितनाथस्वामिना पिता कद् गतिमां गया ?	१३०
१६३ चहुहीनने केवल ज्ञान थाय ?	१३९
१६४ नारकी अवधिज्ञानथी पाठला जवना दुष्कृतने जाणे ?	१४०
१६५ पर्युषण पर्वना विना श्रीकल्पसूत्र सजामां वंचाय ?	१४१
१६६ ब्रह्मचर्यथी रहित साधुने वंदन थाय ?	१४२
१६७ पूजामां केवां अने केटलां वस्त्रो वापरवां ?	१४३
१६८ वृहत् टीपणी ग्रंथ प्रमाणिक ठे के ? तेना आधारे केट- लाक श्रीशत्रुंजयमहात्म्यने अप्रमाणिक कहे ठे ?	१४४
१६९ श्रीमहावीरस्वामिजीना तीर्थमां कोणे कोणे तीर्थकर नाम कर्म बांध्युं ?	१४५
१७० पौरुषी आदि त्रिविहार करे तेणे प्रत्याख्यान केटली वखत पारवुं तथा रात्रिए त्रिविहार करे तेणे पारवुं के केमं ?	१४६
१७१ जगतमां अंधकार केटलां कारणाथी थाय ?	१४६
१७२ सौधर्मांदि इंद्रोना लोकपालनां नामो ?	१४७
१७३ कुत्रिकापण पांचमा आरामां क्यां सुधी हती ?	१४८
१७४ जीव गर्जावासमां उत्कृष्टो केटला काल रहे ?	१५०
१७५ रत्नकंबलनो स्वजाव केवो होय ?	१५०
१७६ चाथाआरामां पुस्तको हतां ?	१५१
१७७ साधुं एकला विहार करी शके ?	१५२
१७८ देवो अथवा विद्याधरो कोने कोने संहरण न करी शके ?	१५४
१७९ कोणिकनी मदतमां सौधर्म इंद्र तथा चमरेंद्र शा कारणाथी आख्या ?	१५४
१८० तामळी तापसे क्या जवमां सम्यक्त्व प्राप्त कर्युं ?	१५५



- १८१ श्रीचेला महाराजा अने कूर्णिकना संधामर्मा केटला  
मनुष्योनो नाश थयो ? १५५
- १८२ तंडुलमल्लुं आयुष्य केटलुं अने मरीने कइ गतिमां जाय ? १५६
- १८३ भावकनी प्रतिभावहन धर्म विच्छेद ठे ? १५७
- १८४ आचारांग आदि सूत्रोनां उपांगो ? १५७
- १८५ अन्नद्वय अन्नतकाय प्रासुक बीजा घरे तैयार मले  
तो भावकने कल्पे ? १६०
- १८६ युगखिक मनुष्यना शरीरनो संस्कार कोण करे ? १६०
- १८७ ज्ञारंरूपकी केवा होथ ? १६१
- १८८ कुसुमिण्डुसुमिणनो कायोत्सर्ग केटलो करवो ? १६२
- १८९ चक्रवर्ती तिमिला गुफाने उषाके ल्यारे तेनो चोदो  
वारयोजन पाठो फरे ए दंतकथा सत्य ठे ? १६३
- १९० खांय क्यांथी क्यां सुधी अन्नद्वय ? १६५
- १९१ श्रीप्रजवस्वामिनी श्रीजंबूस्वामिनी साथे दीक्षामां विरोध ? १६५
- १९२ नरकगतिमां केटला रोगो होथ ? १६६
- १९३ उंटकी तथा घेटीनुं दुष अन्नद्वय ? १६७
- १९४ श्रीदेवाधिदेवनी पहेला पहोरमां तथा चोषा पहे-  
रमां देहाना ? १६७
- १९५ प्राची तीर्थकरना जीवो नरकमां केवो आहार करे ? १७०
- १९६ श्रीसिद्धसेन दिवाकर क्या गच्छमां थया ? १७०
- १९७ श्रीआचार्यमहाराज जिनालयमां दर्शन करवा आबे  
त्यारे भावको उजा थाय ? १७१
- १९८ साब्जीजीने मनःपर्याय ज्ञान थाय ? १७३

- १९९ धर्मध्यानना ध्याता कोण होइ शके ? १९४
- २०० दीक्षानी उपधितुं स्वर्च केटखुं ? १९४
- २०१ कुत्रिकापणनो अर्थ शो ? १९५
- २०२ देवोना नाटकनो काल केटखो ? १९६
- २०३ श्रीचेरामहाराजने केटखी पुत्रीलं तथा तेनो विवाह  
कोणे कर्यो ? १९६
- २०४ कया कया गुणस्थानमां कालधर्म पामे तथा केटखा गुण-  
स्थानक परचवमां साथे जाय ? १९७
- २०५ श्रीकेवलज्ञानीने ध्यान अथवा आवस्यकादिक होय ? १९९
- २०६ स्थापनाचार्य पासे देवबंदन थाय ते स्थापना कोनी ? १७०
- २०७ शाश्वती प्रतिमाठनी उंचाह केटखी ? १७१
- २०८ वासुदेवो उपाके ठे ते शिखानुं नाम कोटीशिखा शा  
कारणधी ? १७२
- २०९ जवनपतिना जवनो रत्नप्रदाना कया स्थानमां ? १७६
- २१० अजीर्ण केटखा प्रकारनुं ? १७७
- २११ चक्रवर्त्ती आदि महात्माठना पथ अस्थी देवलोकरमां  
देवो पूजे ठे ? १७७
- २१२ कया कया सूत्रो पांचमा आराना अंत सुधी रहेशे ? १७७
- २१३ आवती चोवीशीना प्रथम तीर्थकर श्रीपद्मनाजना माता  
पिताना नाम ? १७७
- २१४ श्रीतीर्थकर महाराजाळं वार्षिक दान प्रातःकालधी  
कयां सुधी आपे ? १७९
- २१५ सामायिक पौषमां आचूषण पहेरवां कस्ये ? १७९

३१६ श्रवभिज्ञानी महात्मा परमाणुने देखे ?	१९७.
३१७ आँकार शब्दनो अर्थ ?	१९८.
३१८ ठठा आरामां चरतक्षेत्रना मनुष्यने सम्यक्त्व थाय ?	१९९.
३१९ अलक्षमां जीव होय ?	१९९.
३२० श्रीआवश्यकसूत्रना रचनार कोण ?	१९९.
३२१ नवकारवाळीना एकसोने आठ मणकानो शो हेतु ?	१९९.
३२२ तरपणी आदिनो दोरो कया शास्त्रमां ठे.	२००
३२३ रुद्रो केटला थया तथा कोना कोना शासनमां थया ?	२००
३२४ श्रीमहावीर परमात्मानां विद्यमानतामां कुत्रिकापणो कयां कयां हती ?	२०१
३२५ बार चक्रवर्ती नव वासुदेव प्रतिवासुदेव अने वलदेवां कोना कोना शासनमां थया ? अने तेठं कइ गतिमां गया ?	२०४
३२६ श्रीमहानिशीयना योगवहन करेख साधु सुयगमांग- आदि सूत्रोना योग करावी शके ?	२०६.
३२७ कोइ साध्वी वैश्याने त्यां रहेख ठे ?	२०७.
३२८ देवबंदनमां साध्वीठं सूत्र जणो ते भावकोने कल्पे ?	२०८.
३२९ आर्यबीजमां धुण कल्पे ?	२०९
३३० जन्ममरणतुं सूतक केटलुं.	२१०.
३३१ महावीदेइ क्षेत्रमां आर्यदेश केटला ?	२१४.
३३२ श्रीपुंकरिक स्वामी पाते नमुस्थुणं कहेवाय ?	२१४
३३३ श्रीमुनिसुव्रतस्वामिना तथा श्रीचंद्रप्रजुजीना जव केटला ?	२१५
३३४ श्रीओषिकमहाराजा पहेळां श्री जिनमंदिर अने जिन मूर्तिठं हती ?	२१५.

- २३५। समवसरणमां प्रणवाजुः मूर्ति स्थापन करवानुं कथा-  
सूत्रमां ठे ? २१८
- २३६। मूर्तिनेः लेप करवानो पाठ कथा सूत्रमां ठे ? २१९
- २३७। बलिकर्म शब्दनोऽर्थः ? २२०
- २३८। श्रीजिनप्रतिमा जिन सारखी कथा सूत्रमां ठे ? २२०
- २३९। श्रीशत्रुंजय, गिरिनर, आबु, तारंगा, अष्टापद अने  
समेत शिखर मानवानुं कथा सूत्रमां ठे ? २२०
- २४०। अर्द्धीशीपमां शाश्वती वस्तु केटखी ? २२२
- २४१। श्रीशत्रुंजय शाश्वतो ठे ते विवेना पाठो ? २२२
- २४२। संज्यानोः पौषध कीधः पठी पाणी पीषोय ? २२३
- २४३। उपधान वाहीने वाचना नवकारपूर्वक आपधी के केम ? २२४
- २४४। उपधानदिर्नी नंदीमां नंदीसूत्र संजळाय ? २२४
- २४५। माळा पहेरंतरने पवेयणुं करावाय ? २२५
- २४६। उपधान वाचना आवक अविरोड बेसीने लेवे के-  
उचा रहीं लेवे ? २२५
- २४७। उपधाननी माळारोपणी नंदी बोमासामां थाय ? २२६
- २४८। उपधानमां तपने दिवसे पंचमी रोहिणी आवे तो तेज-  
तपणी सरे केजूदो करवो पके ? २२६
- २४९। सामार्थिकमां सामार्थिक लेवे तथा पौषधमां पौषध लेवे  
तो केटखा आदेश मागवा ? २२८
- २५०। पौषधमां मात्रु करीने गमणागमणे केहेत्रा जोश्य ? २२९
- २५१। उपधाननों तपपूर्ण तथा पठी अंदर रही पवेयणुं करे  
तेने दिवस पके तो दिवसनी बुद्धि थाय के नहि ? २२९

- २५२ सामायिक पौषधमां वासदेपादिकथी ज्ञाननी पूजां धाय ? २३९
- २५३ पौषधमां उपवास करेख अथवा धार्यविल आदि करेख  
आविकाने संख्यानी पक्षिहणमां कंइ जिज्ञता खरी ? २३०
- २५४ रोहिणीव्रतवाळाने उक्तीय उपधानमां उठे दिवस  
रोहिणी आवे तो शुं करे ? २३१
- २५५ सरस्वती देवीतुं वर्ण आदि स्वरूप केवुं ठे ? २३२
- २५६ षोडश विधादेवीनां वाहन आदितुं वर्णन केवुं ठे ? २३३
- २५७ पौषधमां प्रतिलेखना करी काजो परिठवी श्रियावही  
करी गमणागमणे करवा जोइय ? २३४
- २५८ जन्माजिषेकमां एक क्रोन अने साठ लाख कळ-  
शानोःहीसाब ? २३६
- २५९ चैत्र आसोनी अस्वाध्यायमां करेखो तप वीशस्थानक  
तपमां रोहिणीतपमां के-आलोयणमां गणाय ? २३९
- २६० ऋतुनी अस्वाध्यायना दिवसमां आविकाय करेखो  
तप आलोयणमां, रोहिणी, ज्ञानपंचमी, मौनपकादशी  
अने विशस्थानक आदि तपुमां गणाय ? २४०
- २६१ इंद्रजुं पाखक विमात सचित्त होय के अचित्त होय ? २४१
- २६२ पाखकादि दश विमान करनार देवोनां नाम ? २४१
- २६३ पाखकादि विमानोनी लंबाइ, पडोळाइ अने उंचाइ  
तथा महेंद्रज्वजानी उंचाइ ? २४२
- २६४ चउदपूर्वी कार्तिक भेडी सोधर्मइंद्र केम थया ? २४३
- २६५ नवकारमंत्रनी उंलीना केटखा उपवास तथा केटखुं गरणुं ? २४४





श्री सागरानन्दगुरुपदेशाद्, यो जैन साहित्य विकासनाय ।  
तदीयकोशोऽर्पितवान् धनंस्त्वं, सोऽयं मुषीः भेष्टि नगानचन्द्रः ॥१॥



शेठ नगिनबाप भंछुबाप अवेरी सुरत

जन्म विक्रम १६१४  
वेश्याप कृष्ण ३

२१३ वास विक्रम १६७७  
कार्तिक शुक्ल १०

Lakshmi Art, Bombay, 8.



11





शेठ नगीनचाइ मंजुचाई जैन साहित्योद्धार-ग्रंथांके.

## विविध-प्रश्नोत्तर ।



रचयिता.

आचार्य श्रीमद् विजयदान सूरीश्वरजी ।



पूज्यपादप्रातःस्मरणोयसकलशास्त्रपारदश्चाचार्यमहाराज-

श्रीमद्विजयदानसूरीश्वरविरचित.

## विविध-प्रश्नोत्तर.

मंगलाचरणाम्.

युगादौ धर्मदातारं, त्रातारं दुर्गदुर्गतेः ।  
श्रीनाभेर्यं महादेवं, वंदे त्रैलोक्यशङ्करम् ॥ १ ॥  
शान्तिं शान्तिकरः शान्तिः, दिशतु वः सदा विभुः ।  
कपोतरक्षकः श्रीमान्, पदवीड्यधारकः ॥ २ ॥  
जय जीवव्यथाछेत्तः ! कन्दर्पतृणपावक ! ।  
यदुकुलनभश्चन्द्र ! वाञ्छितकल्पपादप ! ॥ ३ ॥  
अज्ञानध्वान्तमार्तण्ड ! जगत्पूज्यशिरोमणे ! ।  
पार्ष्वनाथ ! नमस्तुभ्य-मन्तरङ्गारिनाशक ! ॥ ४ ॥  
मोहसुभटजेतारं, भैत्तारं कर्मसूभृताम् ।  
अक्षयसौख्यदातारं, प्रासानन्तचतुष्टयम् ॥ ५ ॥  
सर्वज्ञं श्रीमहाधीरं, जंतुजाताभयप्रदम् ।  
योजनगामिनीवाचं, त्रिदशेश्वरपूजितम् ॥ ६ ॥  
विविधानि नमस्कृत्य, कुर्वे प्रश्नोत्तराण्यहम् ।  
शास्त्रानुसारतः सम्यक्, भव्यानां ज्ञानहेतवे ॥ ७ ॥

प्र०-१-जवनपतिदेवोथी अधिकऋद्धिवाळा कोइ व्यंतरदेवो होय ?

उ०-श्री जगवतीसूत्रना पहेला शतकना बीजा उद्देशानी टीकासां  
टीकाकार श्री अजयदेव सूरीश्वरजी महाराजे कहुं ठेके-

“ संति व्यन्तरेभ्यः सकलशादल्पर्द्धयो भवनपतयः केचन ”

सारांशः-कोइक जवनपतिना देवताओ व्यंतरदेवो थको पण अ-  
ल्पऋद्धिवाळा होय ठे.

( २ ) पूज्य-आचार्य-श्रीमद्विजयदानश्रीश्वर-विरचित-

प्र०-१-सौधर्म इन्द्रनुं वाहन श्रौरावण हस्ति तथा वज्र शस्त्र हाथमां ठे, एम श्रीकल्पसूत्रमां कहेल ठे, तो ईशानइन्द्रनुं पण तेज समजनुं के बीजुं ?

उ०-श्री जगवती सूत्रना त्रीजा शतकना प्रथमोदेशामां कहेख ठे के:-

“ ईसाणे देविदे देवराया सूलपाणी विसभवाहणे ” ॥

सारांश:-ईशानइन्द्रनुं वाहन वृषज तथा शूत्र शस्त्र हाथमां ठे.

प्र०-३-श्रीस्थुलिपिन्द्रस्वामीनुं नामस्मरण केटसा काल सुधी रहेशे ?

उ०-चोराशी चोवीशी रहेशे. उपदेशतरंगिणोमां कथुं ठे के:-

“स्थूलभद्रनामस्मरणं चतुरशीतिजिनचतुर्विंशतिकां यावद् भविष्यति”

सारांश:-श्रीस्थुलिपिन्द्रस्वामीनुं नामस्मरण चोराशी (७४) चोवीशी सुधी रहेशे.

प्र०-४-श्रीसिद्धजगवानमां अनंतचतुष्क कथुं ?

उ०-ज्ञान, दर्शन, वीर्य अने सुख. श्री योगशास्त्रमां कलिकालसर्वज्ञ जगवान् श्री हेमचंद्रसूरीश्वरजी महाराज फरमावे ठे के:-

“ श्रुक्ता एफस्वभावाः स्थुः, जन्मादिक्लेशवर्जिताः ।

अनंतदर्शनज्ञान-धीर्यानिंदमयाश्च ते ॥ १ ॥ ”

सारांश:-जन्म आदि क्लेशथी रहित मुक्त आत्माओ एक स्वजा-ववाळ होय ठे. ते आत्माओ अनंतदर्शन, अनंतज्ञान, अनंतवीर्य अने अनंतसुखमय होय ठे.

प्र०-५-गोशाळाए मुकेली तेजोलेइयाथी जस्मीचूत थयेला ओसु-नक्षत्र अने श्रीसर्वानुमूति नामना मुनिवरो कया देवलोकमां गया ?

उ०-श्रीसुनक्षत्रमुनि आठमा देवलोकमां अने ओसर्वानुमूति धारमा देवलोकमां गया ठे. उपदेशमाळानो टोकामां कथुं ठे के:-

“सुनक्षत्रसाधुर्गोशाळकार्यैषं वदति-मो। स्वधर्माचार्यं किं निन्दसि स

एव त्वं गोशालक इति श्रुत्वा क्रोधवशातस्तेन तेजोलेइयाया ज्वालितः समाधिना मृत्वाऽष्टमस्वर्गे देवत्वेनोत्पन्नः एतद्वचसरे द्वितीयः सर्वानुभूतिनामापि सर्वजीवान् क्षामयित्वा अनशनाराधनां कृत्वा समागत्य गोशालकसन्मुखं वदतिस्म दुष्टेन सोऽपि ज्वालितो मृत्वा द्वादशे स्वर्गे सद्युत्पन्नः।”

सारांशः—श्रीसुनक्षत्रमहर्षिण गोशालाने कहुं के तुं गोशालोज ठे. पोताना धर्माचार्यनी निंदा केम करे ठे ? आ सांचळी क्रोधथी गोशालाए तेजोलेइया मुकी, तेथी वळी समाधि पूर्वक मरी श्रीसुनक्षत्रमुनि आठमा देवलोकमां गया. आ अवसरे सर्व जीवोने खमावी अनशनद्वारा आराधना करी त्यां आवी श्रीसर्वानुभूति मुनिण गोशालाने कहुं के—हे दुष्ट गोशाला ! स्वधर्माचार्यने केम निंदा ठे. आ सांचळी क्रोधांध गोशाले तेजो लेइया मुकी तेथी दग्ध थई श्रीसर्वानुभूतिमुनि बारमा देवलोकमां गया.

प्र०—देवताओठ जाषामांथी कइ भाषा बोले अने तेनो अर्थ शो?

उ०—कंडक प्राकृत अने कंडक मागधी बने मिश्रित (अर्द्ध मागधी) जाषा देवताओ बोले. श्रीजगवतीसूत्रना पांचमा शतकना चोया उद्देशामां स्पष्टतया उल्लेख ठे केः—

“ देवा णं भंते ! कयराए भासाए भासंति कयरा वा भासा भासिज्जमाणी विसिस्सई ! गोयमा ? देवाणं अद्धमागहाए भासाए भासंति सावि य णं अद्धमागहा भासिज्जमाणी विसिस्सई । ”

व्याख्या—‘ विसिस्सइ ’ ति विशिष्यते विशिष्टा भवतीत्यर्थः । ‘अद्धमागह’ ति भाषा किल षट्विधा भवति यदाह—

‘ प्राकृतसंस्कृतमागध-पिशाचभाषा च सूरसेनी च ।

षष्टोऽत्र मूरिभेदो, देशविशेषादपद्रंशः ॥ १ ॥ ’

तत्र मागध आषालक्षणं किञ्चित्किञ्चिच्च प्राकृतभाषालक्षणं यस्यामस्ति सार्द्धं मागध्या इति व्युत्पत्त्याऽर्द्धमागधीति । ”

सारांशः—देवताओ अर्द्धमागधी जाषा बोले. प्राकृत, संस्कृत, मागधी,

पिशाची, सूरसेनी अने अपत्रंश आ ठ प्रकारनी जाषा ठे. तेमांथी कश्क मागधी जाषानुं लक्षण अने कश्क प्राकृत जाषानुं लक्षण जेमां होय तेने अर्द्धमागधी कहेवाय.

प्र०-४-भुवनपतिमांथी आषीने तीर्थकर थाय ?

उ०-जवनपतिमांथी नीकळीने कोश्क तीर्थकर थाय. श्रीप्रज्ञापना सूत्रना ३० मा पदनी वृत्तिमां कहेलुं ठे के:-

“ वसुदेवचरित्रे पुनः नागकुमारेभ्योऽप्युद्धृतोऽनन्तरमैरषतक्षेत्रेऽस्या-  
भैषावसर्पिण्यां चतुर्विंशतितमस्तीर्थकर उपदर्शितः तदत्र तत्त्वं केवलिनो  
विदन्ति ”

सारांशः-शैरषतक्षेत्रमां आ चोवीशोमां थयेला चोवीशमा तीर्थकर नागकुमारमांथी नीकळीने थया ठे. तथा श्रीसेनप्रश्नना बीजा उल्लासमां कहेल ठे के:-

“ भाषिद्वितीयतृतीयतीर्थकृतोरुदायिसुपार्श्वजोवयोरन्तरकालस्याल्प-  
त्वाद्भैमानिकदेवगतिर्न संगच्छते, नरकगतिरपि तथाविषयोर्न संगच्छते,  
न च भवनपत्यादिगतिः तत आगतानां तीर्थकरत्वप्राप्तिनिषेधात् का  
गतिरिति प्रश्नोऽत्रोत्तरं अनयोर्गतिः शास्त्रे श्रुता नास्ति परं भवनपतिगतिः  
संभाव्यते यतो वसुदेवर्षिर्बौ भवनपतेरागतस्य तीर्थकरत्वं प्रतिपादितम-  
स्ति तत्त्वं तत्त्वविद्वेषमिति ॥ ११ ॥

सारांशः-आवती चोवीशोमां बीजा तथा त्रीजा तीर्थकर देवो श्री जगवान् महावीरस्वामीना काका दुपार्श्वनो जीव तथा श्री श्रेणोक-  
महाराजाना पौत्र पौषधमां काळधर्म प्राप्त थया ते उदायि राजानो जीव, आ बनेनी नरकगतिनो तो संजव नथी अने वैमानिक देवोनो जघन्यमां जघन्य पत्योपमथी ओठी स्थिति नथी, तेमज आंतह ओळुं होवाथी जवनपतिमांथी नीकळी थया संजव ठे.

प्र०-८-व्यवहारी जीवा अने अव्यवहारी जीवो कोने कहेवा ?

उ०-पंचदश कथामां कहेल ठे के:-

“ सर्वे जीवा व्यवहार्यव्यवहारितया द्विधा सूक्ष्मा निगोदा एवान्वा-  
स्तेभ्यो अन्ये व्यवहारिणः ॥ २७१ ॥”

सारांश:-अनादि सूक्ष्म निगोद अव्यवहारी, वाको सर्व व्यवहारी  
तथा श्री पन्नवणाना अठारमा पदनी टीकामां कहेल ठे के:-

“ ये निगोदावस्थात उद्धृत्य पृथ्वीकायादिभेदेषु वर्तन्ते ते लोकेषु दृष्टि-  
पथमागताः सन्तः पृथिवीकायिकादिव्यवहारमनुपतन्तीति व्यवहारिका  
उच्यन्ते, ते च यद्यपि भूयो निगोदावस्थामुपयान्ति तथापि ते सांख्यव्यवहारिका  
एव, संख्यव्यवहारे पतितत्वात् ये पुनरनादिकालादारभ्य निगोदावस्थामुपगता  
एवावतिष्ठन्ते ते व्यवहारपथातीतत्वादसांख्यव्यवहारिकाः । ”

सारांश:-अनादी निगोदमांथी नीकळी पृथिवीकायादिकमां आवी  
ते फरीथी निगोदमां जाय तो पण व्यवहार करेलो होवाथी ते संख्य-  
वहारीक जाणवा. जे अनादि काळथी सूक्ष्म निगोदथी नीकळयाज  
नथी ते अव्यवहारी जाणवा.

प्र०-ए-देवोने निद्रा होय ?

उ०-देवोने निद्रा न होय. श्रीरायपसेणोनी टीकामां कहुं ठे के:-

“ सूर्याभविमानवासिनो देवा देव्यश्च यथासुखमासते शेरते दीर्घकाय-  
प्रसारणेन नतु निद्रां कुर्वन्ति तेषां देवयोनिक्त्वेन निद्राया अभावात् । ”

सारांश:-सूर्याभविमानवासी देवदेवीओ यथासुख वेसेडे, काया  
प्रसारी शय्यामां जागता सुवे ठे, कारण के देवोने निद्रा न होय.

प्र०-१०-अनंतानुबंधीकपायनो जघन्य उदय केटला काखनो ?

उ०-अनंतानुबंधी कपायनो जघन्य उदय अंतरमुहूर्त्तनो. श्री  
योगशास्त्रमां श्री हेमचंद्रसूरीश्वरजी महाराजाए कहेल ठे के:-

“ प्रसन्नचन्द्रादेः क्षणमात्रस्थितीनामपि कषायाणामनन्तानुबन्धित्व-  
मन्यथा नरकयोग्यकर्मोपार्जनाभावात् । ”



सारांशः-नरकगतियोग्य कर्म उपार्जन करावनार अनंतानुबंधी कषायनो जघन्य उदय अन्तर्मुहूर्त्त प्रमाण श्रीप्रसन्नचंद्रादिनी मा-  
फक जाणवो.

प्र०-११-कोरकु मग आदि सचित् ठे के अचित् ?

उ०-कोरकु मग आदि अचित् ठे. श्री ओघनिर्युक्तिनी टीकामां  
टीकाकार महर्षिण कहेल ठे के:-

“अचित्तानामपि कदाचित्केषांश्चिद्धनस्पतीनामविनष्टा योनिः स्याद्  
शुद्धिसुदुग्गादीनां तथाहि शुद्धिं शुष्का सती जलसेकात्तादात्स्थं भजन्तो  
दृश्यते, एवं ककटुकसुदुग्गादिष्वपि, भतो योनिरक्षणार्थमचेतनयतनापि  
न्यायवत्येवेति ।”

सारांशः-गळो आदि कोइक अचित् वनस्पतिश्रोनी पण योनि  
सचित् होय ठे. जेम सुकी गळो कोरकु मग आदि पाणोना सिंच-  
चनयी पाठा सचित् थाय ठे. तेथी तेनी योनिना रक्षण माटे यतना  
करवी योग्य ठे. आरूविधिमां कहुं ठे के:-

“ककटुकसुदुग्ग हरितकीकुलिकादिरचेनोऽप्यवनिष्टयोनिरक्षणार्थं निः-  
शुक्ततादिपरिहारार्थं च दन्तादिभिर्न भज्यते ।”

सारांशः-कोरकु मग तथा हरफना उळीया आदिने अचित् कहेल  
ठे. पण तेनी आखी योनिना रक्षण माटे तथा निःशुक्तताना परिहारार्थे  
ते दांनथी जांगवा नहीं पण आखा गळो जवा.

प्र०-१२-नरकनी अंदर नारकी जीवोने परमाधार्मिक कदर्यना करे  
ठे पण नारकीओ कोइपण वखत परमाधार्मिकना सामा थाय खरा के ?

उ०-श्रीपन्नवणा सूत्रना बावीशमा पदनो टीकामां कहेल ठे के:-

“भवन्वास्यादयो देवाः तृतीयां पृथिवीं याचद् गता गमिष्यन्ति च  
किमर्थं गता गमिष्यन्तीति चेदुच्यते-पूर्वसांगतिकस्य त्रेदनाद्युपशमयितुं  
पूर्ववैरेणो वेदनाद्युदीरयितुं तत्र गच्छन्ति, तदानोममन्तकालादेतदपि भ-

वति तद्गताः सन्तो नारकैर्बध्यन्ते इति, आह च मूलटीकाकारोऽपि तत्र गता नारकैर्बध्यन्ते इत्यप्यनन्तकाले एव कथंचित्सम्भवमात्रमिति ।”

सारांशः—अहिं जेम फेदखानामां केदीओने जेलरो मारे कुटे ठे अने कोइ वखत केदीओ पण एकसंप करी सामा थाय ठे, तेस नारकीओ पण कदाचित् परमाधार्मिकने बांधे, परन्तु ए आश्चर्यचूत बनाव अनन्ताकाले संजवे.

प्र०—१३—जृञ्जकदेवो कश्च निकायना तथा तेमनी स्थिति केटली ?

उ०—जृञ्जक देवो व्यंतर निकायना अने पद्योपमनी स्थितिवाळा जाणवा. श्रीजगवती सूत्रना चौदमा शतकना आठमा उद्देशामां कहुं ठे केः—

“ जृभगार्ण देवाणं भंते ! केवतिर्य कालं ठिती पन्नता ? गोयमा । एगं पलिभोवमं ठिती पन्नता । ” व्याख्या—“ जृभमन्ते—विजृभमन्ते स्वच्छन्द-चारितया चेष्टन्ते ये ते जृभमकाः तिर्यग्लोकवासिनो ध्यन्तरदेवाः । ”

सारांशः—स्वठंदपणे क्रिमा करे ते जृञ्जकदेवो व्यंतरनिकायना अने तेमनी स्थिति एक पद्योपमनी ठे.

प्र०—१४—साधु साध्वीनी वनीदीक्षामां दिग्बंधनमां श्रावकश्राविकानुं नाम आपवानुं कहेल ठे ?

उ०—साधु साध्वीनी वनी दीक्षा वखते दीग्बंधनमां श्रावक श्राविकानुं नाम आपवानुं कोइ ग्रंथमां नथी. माटे श्रावक श्राविकानुं नाम आपवुं योग्य लागतुं नथी. श्री आचारांग सूत्रना प्रथम अध्ययनना सातमा उद्देशानी टीकामां कहेल ठे केः—

“ गणस्तव कोटीका स्थानियं कुलं वैराख्या शाखा भद्रुकाभिधान आचार्य उपाध्यायश्च साध्व्या प्रवर्तिनी तृतीयोद्देशव्या ”

सारांशः—साधुनी वनीदीक्षामां दिग्बंधनमां तारो कोटीक गह्व, स्थानिय कुळ, वैरी शाखा, अमुक आचार्य अने अमुक उपाध्याय ए वे

नाम अने साध्वीनी बनीदोहामां आचार्य, उपाध्याय अने प्रवर्तिनी  
आ व्रण नामो आपवां. तथा-

आचार्येणात्मनो वामपार्श्वे स्थापितस्य व्रतारोपणरूपोपस्थापना यथा-  
विधि विवेया ततो दिग् निबध्यते द्विविधा त्रिविधा वा तत्र साधोर्द्विविधा  
तद्यथा आचार्यस्योपाध्यायस्य च, व्रतिन्यास्त्रिविधा तद्यथा आचार्यस्योपा-  
ध्यायस्य प्रवतिन्याश्च ॥ ”

सारांशः-श्रीआचार्य महाराजे पोतानी काबी वाजु राखी शिष्यने  
व्रतारोपण रूप उपस्थापना करवी.तेमां दिग्बंधनमां साधुने आचार्य अने  
उपाध्याय यम बे नाम तथा साध्वीने आचार्य, उपाध्याय अने प्रवर्तिनी  
यम व्रण नाम कहेवां. आ प्रमाणेनो उल्लेख श्री यतीजीतकल्पमां  
ठे तथा तेवीज रीते श्री बृहत्कल्पभाष्यादि अनेक सूत्रोमां ठे.

प्र०-१५-प्राणोने धारण करे तेने जीवकहीए तो श्री सिद्ध जग-  
वान्मां केटला प्राण ?

उ०-श्री सिद्ध जगवान्मां चार प्राण होय. श्रीषट्दर्शनसमुच्चयनी  
टीकामां कहुं ठे के:-

“ ब्रह्मप्राणा भावप्राणाश्चेत्यादि, अनन्तज्ञानानन्तदर्शनानन्तवीर्या-  
नन्तसुखलक्षणं जीवनं सिद्धानामपि भवतीत्यर्थः ”

भावार्थः-श्रीसिद्धजगवान्मां ‘अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतसुख  
अने अनंतवीर्य आ चार भावप्राणो होय.

प्र०-१६-जातिस्मृतिज्ञानवान् जातिस्मृतिज्ञाने करीने उत्कृष्टा-  
वधारेमां वधारे पोताना पाठसा जव केटला देखे ?

उ०-जाति स्मृति ज्ञानी संख्याता जव देखे. श्री-आचारंग सूत्रना  
पहेला श्रुतस्कंधना पहेला अध्ययना प्रथम उद्देशानी टीकामां यवो  
उल्लेख ठे के:-

“ जातिस्मरणं तु नियमतः संख्येयानिति । ”

सारांशः—जातिस्मरणज्ञानवान् नियमे करीने उत्कृष्टा पोताना संख्याता नव देखे. तथा श्री रत्नसार ग्रंथमां कहुं ठे केः—

“पुत्रभवा सो पीछ्छ एकं दो तिष्ठि जाव नवर्ग वा ।

उच्चरिं तस्स अविस्सओ सभावओ जाइस्सरणस्स ॥ १ ॥ ”

सारांशः—जातिस्मृति ज्ञानवान् पाठला एकवे त्रण नव यावत् नव नव देखे उपरांत देखवानो तेनो स्वजाव नथी. तथा

“ पूर्वभवजातिस्मरणं नव भवान् प्राक्तनान् यावत् पश्यति तन्मति-ज्ञानस्यैव भेदः । ”

प्रावार्थः—जातिस्मृति ज्ञान पाठला नव नव सुधी देखे. जातिस्मृति-ज्ञान मतिज्ञाननो जेद ठे. आ प्रमाणे श्री विनयंधर चरित्रमां पण जातिस्मृति ज्ञानवाळो नव नव पाठला देखे. एम कहुं ठे. तथा श्री विचारशतकमां श्री समयसुंदरोपाध्यायजी पण छेले ठे केः—

“ जातिस्मरणात्तो मनुष्यो नव भवान् पश्यति नत्वधिकान् हृदं च मतिज्ञानभेद एवेत्यादि । ”

सारांशः—जातिस्मृति ज्ञानवान् मनुष्य नव नवज देखे उपरांत न देखे. जातिस्मृति ज्ञान मतिज्ञाननो जेद ठे. . .

प्र०—१७—शुक्लपाक्षिक जीवो कोने कहेवा अने कृष्णपाक्षिक जीवो कोने कहेवा ?

उ०—श्री स्थानांगसूत्रना पहेला ठापानी टीकामां कहेल ठे केः—

“ कृष्णपाक्षिकेतरयोर्लक्षणं—जेसिमवह्दो पुगलपरियहो सेसओ य संसारो । ते सुक्लपक्षिकया खलु अहिप पुण कन्हपक्खी य ॥ १ ॥ ”

सारांशः—जे जीवोनो संसारपरिभ्रमण काल अर्द्धपुद्गलपरावर्त्तन वाकी रहेल ठे ते शुक्लपाक्षिक अने जे जीवोनो संसारपरिभ्रमणकाल अर्द्धपुद्गलपरावर्त्तन करतां अधिक वाकी ठे ते कृष्णपाक्षिक. तथा श्री दशाश्रुतस्कंधना ठठा अध्ययननी चूर्णिमां कहुं ठे केः—

“शुक्लपक्षिभ्यो अंतो पुगलपरियद्वस्त नियमा सिञ्चिहिति सम्मविद्धी सिञ्चविद्धी वा होञ्जा ।”

ज्ञावार्थः—शुक्लपक्षी अंतःपुङ्गव परावर्त्तन कालमा अवश्य मोक्ष जाय. शुक्लपक्षी सम्यक्दृष्टि पण होय अने मिथ्यादृष्टि पण होय.

प्र०-१८-श्रीषध तथा ज्ञेयज्ञ शब्दनो एकज अर्थ ठे के जिन ?

उ०-श्री विपाकसूत्रनी टीकामां कहेल ठे के:-

‘ भोसहमेसज्जेणं ’ ति औषधानि एकद्रव्यरूपाणि ‘मेसज्जेहि य’ ति ज्ञेयजानि अनेकद्रव्यरूपाणि पथ्यानि वा ।”

ज्ञावार्थः—एक द्रव्यने श्रीषध तरीके अने अनेक द्रव्य अथवा पथ्य वस्तुने ज्ञेयज्ञ तरीके जणावेल ठे.

प्र०-१९-मनःपर्याय नामनुं चोथुं ज्ञान साधुमहाराजाश्रोनेज धाय के एहस्थने पण धाय ?

उ०—एहस्थने मनःपर्याय ज्ञान न धाय. साधु महाराजाश्रोनेज धाय. श्रीपद्मवणासूत्रना त्रीजा पदनी टीकामां स्पष्ट उल्लेख ठे के:-

“ संयतानामेवामर्षौषध्यादिऋषिप्राप्तानां मनःपर्यवज्ञानसंभवात् ।”

ज्ञावार्थः—आमर्षौषध्यादि ऋषिने पामेला महर्षिअ्रोनेज मनःपर्याय-ज्ञान उत्पन्न थाय पण एहस्थोने तो नज धाय.

प्र०-२०-मनःपर्यायज्ञानीने अविज्ञान नामनुं त्रीजुं ज्ञान अ-वश्य होय ?

उ०—केटलाक मनःपर्यायज्ञानी महर्षिने अविज्ञान होय केटलाकने न पण होय. श्री नंदीसूत्रनी टीकामां कहेल ठे के:-

“ आमर्षौषध्यादीनामन्यतमाद्युक्तिमवच्युक्तिं वा प्राप्तस्य मनःपर्याय-ज्ञानमुत्पद्यते नाद्युक्तिप्राप्तस्य अन्ये त्ववच्युक्तिप्राप्तस्यैवेति नियममाशक्षते तदयुक्तं सिद्धप्राप्तदावचिमन्तरेणापि मनःपर्यायज्ञानस्यानेकज्ञोऽभिधानात् ।”

सारांशः—आमर्षोपध्यादिऋद्धिमांथी कोइ एक ऋद्धिधारीने अथवा अवधिज्ञानरूप ऋद्धिने पामेला महर्षिर्त्तने मनःपर्यायज्ञान उत्पन्न थाय पण ऋद्धिरहितने नहि. कोइक अवधिज्ञानीनेज मनःपर्यायज्ञान माने ठे ते ठीक नथी, कारणके श्रीसिद्धप्राचृतादिमां अवधिज्ञान बिना पण मनःपर्यायज्ञानने अनेक बखत कहेल ठे. तथा—

“जे तिलाणी ते आभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, ओहीनाणी, अहवा आभिणिबोहीयनाणी, सुयनाणी, मणपञ्चवनाणी ।”

सारांशः—जे त्रणज्ञानी ते मतिज्ञानी १, श्रुतज्ञानी २, अवधिज्ञानी ३, अथवा मतिज्ञानी १, श्रुतज्ञानी २, मनःपर्यायज्ञानी ३, आ प्रमाणे श्री जगवतीसूत्रना आठमा शतकना बीजा उद्देशामां पण अवधिज्ञान-सहित महर्षिश्चोने तथा अवधिज्ञान रहित महर्षिर्त्तने पण मनःपर्यायज्ञान उत्पन्न थाय एत्रो स्पष्ट उल्लेख ठे.

प्र०-२१—साधुमहर्षिर्त्तने परमावधिज्ञान थया पठी केटला काले केवलज्ञान प्राप्त थाय ?

उ०—परमावधिज्ञान थया पठी अवश्य अन्तमुहूर्तकाले केवलज्ञान उत्पन्न थाय. श्रीजगवतीसूत्रना अठारमा शतकना आठमा उद्देशानी टीकांमां स्पष्ट उल्लेख ठे केः—

“परमावधिकआवश्यमन्तमुहूर्त्तेन केवली भवति ।”

जावार्थः—परम अवधिज्ञानी अवश्य अंतमुहूर्त काले केवलज्ञानी थाय.

प्र०-२२-पौषधमां एकासणुं करनार आवकने लीछुं शाक कल्पे के केम?

उ०—पौषधमां लीछुं शाक न कल्पे. श्रीसेनप्रश्नमां श्रीसेनसूरिजी-महाराजे कहेल ठे केः—

“अपचानपौषधैकाशनकमध्येऽन्यपौषधैकाशनकमध्ये वाऽऽर्द्रशाकभक्षणं

शुष्यति नवेति, प्रभोऽत्रोत्तरं उभयपौषधैकाशनके आर्द्रंशाकभक्षणप्रवृत्ति-  
रघुना नास्ति ॥ ६० ॥

सारांशः—उपधानना पौषधमां तेमज श्रम्य पौषधमां पण एकासणुं  
करनारने लीळुं शाक खावानी प्रवृत्ति सांप्रत कालमां नथी.

प्र०-२३—कोळीयाना तेलथी तळेखी वस्तु कराह् विगयमां गणाय ?

उ०—कोळीया तेलथी तळेखी वस्तु कराह् विगयमां न गणाय.  
श्रीसेनप्रश्नना चोथा उल्लासमां कहेख ठे केः—

“येवां कराह् विकृतिप्रत्याख्यानं भवति तेषां डोलियाख्यतैलनलित-  
पक्वान्नादिकं कल्पते न वेति, प्रभोऽत्रोत्तरं—डोलियाख्यतैल विकृतिर्न  
भवति तेन तत्तैलनिष्पन्नं पक्वान्नाद्यपि विकृतिर्न भवति ॥ २५ ॥”

ज्ञावार्थः—कोळीछं तेल तेलविगयमां नथी तेथी ते तेलमां तळेखी  
वस्तु कराह् विगयमां न गणाय.

प्र०-२४—श्री आचार्य महाराजा गौचरी जाय ?

उ०—श्री आचार्यमहाराज स्वयं गौचरी न जाय अने जाय तो दंरु  
श्रावे. श्रीव्यवहारज्ञाप्यना ठठा उद्देशानी टीकामां कहेख ठे केः—

“उत्पन्ननाणा जह नो मडंति, चोसीसबुदातिसया जिगिंदा।

एवं गणी अद्गुणोचवेओ, सत्याह नो हिंइह इहिंमं तु ॥ १ ॥”

व्याख्या—“यथा उत्पन्ने ज्ञाने जिनेन्द्राब्जगुक्तिशदुक्तातिवायाः-सर्वहा-  
तिशया देहसौगन्ध्यादयो येषां ते तथा भिक्षां न हिंइन्ते, एवं तीर्थकरदृष्टा-  
न्तेन गणी-आचार्योऽष्टगुणोपेतोऽष्टविधगणिलक्षपटुयेतः शास्ता-तीर्थकर  
इव शक्तिमान् न हिंइते ॥ १ ॥

शुद्धिदुर्गभि शुद्धा, वसने लड्डुमाऽनिवारयंतरस।

गीतागीते शुद्धहु, आणादीया बहू दोसा ॥ २ ॥

व्याख्या—आचार्य भिक्षामदामोति व्यवसितं यदि वृषभो न निवा-  
रयति तदा तस्यानिवारयतः प्रायश्चित्तं चत्वारो लड्डुकाः, अथ वृषभेण  
निवारितोऽपि न तिष्ठति तर्हि वृषभः शुद्ध आचार्यस्य प्रायश्चित्तं चत्वारो  
शुद्धाः, तथा गीतार्थं भिक्षुभेन निवारयति तदा तस्य मासशुद्ध, अगो-

तार्थस्य भिक्षोरनिवारतो मासलघु, आचार्यस्य गीतार्थागीतार्थाभ्यां चारि  
तस्यापि गमने प्रत्येकं चतुर्गुरु आज्ञादयश्चमे वक्ष्यमाणा बहवो दोषाः । ”

भावार्थः—केवल ज्ञान उत्पन्न थया पठी चोत्रीस अतिशयवंत श्री  
तीर्थंकर महाराज गौचरी न जाय तेम आठ प्रकारनी गणी संप-  
दाए युक्त श्री आचार्य महाराज गौचरी न जाय. श्री आचार्य महा-  
राज गौचरी जवाने तत्पर थाय अने तेमने श्री वृषज्ञ ( श्री उपा-  
ध्यायजी ) महाराज निषेध न करे तो श्री उपाध्यायजीने चतुर्लघु  
प्रायश्चित्त आवे. श्री उपाध्यायजीए निषेध करवा ठतां श्री आचार्य  
महाराज गौचरी जाय तो श्री आचार्य महाराजने चतुर्गुरु प्रायश्चित्त  
आवे. तथा आचार्य महाराजने गौचरी जवानो निषेध गीतार्थ  
मुनिराज न करे तो गीतार्थ मुनिराजने गुरुमास प्रायश्चित्त आवे  
गीतार्थ मुनिश्रीए निषेध करवा ठतां श्री आचार्य महाराज गौचरो  
जाय तो श्री आचार्य महाराजने चतुर्गुरु प्रायश्चित्त आवे. श्री आचार्य  
महाराजने गौचरी जतां अगीतार्थ मुनि निषेध न करे तो अगी-  
तार्थ मुनिने लघुमास प्रायश्चित्त आवे अगोतार्थ मुनिए निषेध  
करवा ठतां जाय तो श्री आचार्य महाराजने चतुर्गुरु प्रायश्चित्त आवे.

प्र०-२५-स्त्यानर्द्धि निद्रानुं बल वासुदेवथो अर्ध कहेल ठे ते व-  
र्त्तमानकाले संजवे ?

उ०-सांप्रतकालमां स्त्यानर्द्धि निद्रानुं बल सामान्य मनुष्यथी  
वमणुं, व्रणगणु अथवा चारगणु होय. श्री बृहत्कल्पजाप्यवृत्तिना  
त्रीजा खंरुमां कहेल ठे के:-

“ केशवो-वासुदेवस्तस्य बलादर्द्धबलं स्त्यानर्द्धिमतो भवतीति तीर्थकू-  
दादयः प्रज्ञापयन्ति । एतच्च प्रथमसंहनिनमङ्गीकृत्योक्तं, इदानीं पुनः सा-  
मान्यलोकबलाद् द्विगुणं त्रिगुणं चतुर्गुणं वा बलं भवतीति मन्तव्यम् । ”



ज्ञावार्थः-स्थानार्थि निद्रानुं बल वासुदेव थकी अर्धवल वज्रशुष-  
जनाराच संघयणवाळाने होय. वर्तमानकाले सामान्यलोकना बलथी  
वेगणुं, त्रणगणुं अथवा चारगणुं होय.

प्र०-३६-उपशम सम्यक्त्व अने क्षयोपशमसम्यक्त्वमां जिज्ञता शो?

उ०-उपशम सम्यक्त्वमां सम्यक्त्वमोहनीयनो उदय सर्वथा न  
होय. क्षयोपशम सम्यक्त्वमां सम्यक्त्वमोहनीयनो विपाकोदय तथा  
मिथ्यात्वमोहनीयनो प्रदेशोदय होय. श्रीजगवतीसूत्रना पहेला  
शतकना त्रीजां उद्देशानी टीकामां कहेल ठे के:-

“ क्षयोपशमो ह्युदीर्णस्य क्षयोऽनुदीर्णस्य च विपाकानुभवापेक्षया  
उपशमः प्रदेशानुभवस्तूद्योऽस्त्येव, उपशमे तु प्रदेशानुभवो नास्ति ।”

सारांशः-उदयमां आवेल मिथ्यात्वमोहनीनां पुद्गलोनो विपाकानुज-  
वनी अपेक्षाए उपशम पण प्रदेशानुजवनी अपेक्षाए उदय होय तेनुं  
नाम क्षयोपशम सम्यक्त्व अने उर्यां प्रदेशानुजवनी अपेक्षाए पण  
मिथ्यात्वमोहनीनां पुद्गलोनो उदय न होय तेनुं नाम उपशम  
सम्यक्त्व. आवकप्रज्ञासिनी टीकामां पण कहेल ठे के:-

“ क्षयोपशमिकादस्य को विशेषः ? इति उच्यते, तत्रोपशान्तस्यापि  
मिथ्यात्वस्य प्रदेशानुभवोऽस्ति नत्वौपशमिके, अन्ये तु व्याचक्षते श्रेणिम-  
ध्यवर्तिन्येवौपशमिके प्रदेशानुभवो नास्ति नतु द्वितीये, तथापितत्र सम्य-  
क्त्वाज्जुभवाभाव एव विशेषः । ”

सारांशः-क्षयोपशमसम्यक्त्व अने उपशमसम्यक्त्वमां फरक शो  
ठे ? उत्तर क्षयोपशमसम्यक्त्वमां उपशम पामेखी मिथ्यात्वमोहनी-  
यनो प्रदेशोदय होय, अने उपशमसम्यक्त्वमां मिथ्यात्वमोहनीयनो  
प्रदेशोदय न होय. बीजा आचार्यो कहे ठे के-श्रेणिगत उपशम सम्य-  
क्त्वमां मिथ्यात्वमोहनीयना प्रदेशोदय न होय, पण श्रेणि विनाना

उपशमसम्यक्त्वमां मिथ्यात्वमोहनीयनो प्रदेशोदय होय. तथापि ते उपशमसम्यक्त्वमां सम्यक्त्वमोहनीयनो उदय तो नज होय, अने क्षयोपशम सम्यक्त्वमां सम्यक्त्व मोहनीयनो उदय होय एतसो व-  
क्षेमां विशेष ठे.

प्र०-१९-श्रमण जगवान् महावीरस्वामीए उद्मस्थ अवस्थामां तप कर्यो तेनुं वर्णन तो सांभळवामां आवेख छे पण केवली अव-  
स्थामां केटखो तप कर्यो ?

उ०-श्री श्रमण जगवान् महावीरस्वामीए केवली अवस्थामां मोह-  
समये ठठनो तप कर्यो ते शिवाय तप करेल नथो. श्री जगवतीसू-  
त्रनाबीजा शतकना पहेला उद्देशामां कहुं ठे के:-

“ तेषं काले तेषं समए समणे भगवं महावीरे वियडमोहयावि होत्या”  
व्याख्या “वियडमोहं त्ति व्यावृत्ते व्यावृत्ते सूर्ये शुंक्ते इत्येवं शीलो व्या-  
त्तभोजी प्रतिदिनभोजी इत्यर्थः । ”

सारांश:-केवली अवस्थामां तपश्चर्या करवाना प्रयोजननो अजाव  
होवाथी श्रमण जगवान् श्री महावीरस्वामी प्रतिदिन जोजन करता  
हता.

प्र०१६-पहेले दिवसे एकासणुं, बीजे दिवसे उपवास अने त्रीजे दिवसे  
एकासणुं आनुं नाम चतुर्थजक्त कहीए. आ प्रमाणेज उच्चजक्तअ-  
छमजक्तादिकपारणे उत्तरपारणे एकासणादिकनो नियम खरो ?

उ०-चतुर्थजक्त ए एक उपवासनी संज्ञा ठे. श्रीजगवतीसूत्रना  
बीजा शतकना पहेला उद्देशानी टीकामां कहुं ठे के:-

“ चतुर्थं भक्तं यावत् भक्तं त्यज्यते यत्र तच्छतुर्थमिधं चोपवासस्य संज्ञा  
एवं षष्ठादिकमुपवासद्वयादेरिति । ”

सारांश:-चार जोजन जे तपसां त्याग थाय तेनुं नाम चतुर्थजक्त

आ एक उपवासनी संज्ञा जाणवी, आ प्रमाणे ठठादिक बे उपवासादिकनी संज्ञा अर्थात् ठठ बे उपवासनी, अठम त्रण उपवासनी थावत् चोत्रीस जक्त सोख उपवासनी संज्ञा जाणवी. तथा श्री स्थानांग मूत्रना त्रीजा स्थानकना बीजा उद्देशामां पण कहेत् तं के:-

“ एकं पूर्वदिने द्वे उपवासदिने चतुर्थं पारणकदिने भक्तं-भोजनं परिहरति यत्र तपसि तच्चतुर्थंभक्तं तद्यस्यास्ति स चतुर्थंभक्तिकस्तस्य पृथमन्यथापि शब्दव्युत्पत्तिमात्रमेतत् प्रवृत्तिरस्तु चतुर्थंभक्तादिशब्दानामेकाद्युपधासादिष्विति ॥ ”

सारांश:-प्रथम दिवस एक जक्त, उपवासना दिवसे बे जक्त अने पारणक दिवसे एक जक्त मळी चार जक्त (जोजन) जे तपमां त्याग थाय तेतुं नाम चतुर्थं जक्त कहीए ते तपवाळाने चतुर्थंजक्तिक कहीए पवीज रीते छट्ट अट्टमादि चतुर्थंजक्तादि शब्दादिनी आ फक्त व्युत्पत्ति जाणवी. चतुर्थंजक्तादि शब्दांनी प्रवृत्ति तो उपवासादिकमां ठे. तथा श्रीकल्पसूत्रसमाचारीमां कहुं ठे के:-

“ वासावासं पञ्चोसधियस्स छद्मभक्तियस्स भिक्खुस्स कर्पति दो गोयरकाला गाहावश्कुलं भत्ताप वा पाणाप वा निक्खमित्तप वा पविसित्तप वा । २२ । वासावासं पञ्चोसधियस्स अद्मभक्तियस्स भिक्खुस्स कर्पति तमो गोयरकाला० । २३ । विगिह्मभक्तियस्स भिक्खुस्स कर्पति सबेवि गोयरकाला० । २४ । ”

सारांश:-चतुर्मास स्थित रहेल ठठजक्तिक साधुने एहस्थना घरे बे वखत जात पाणी खेवा जवा आववाने वास्ते कइये. ॥ २२ ॥ वर्षारुतु रहेल अष्टमजक्तिक साधुने एहस्थना घरमां त्रण वखत आहार पाणी खेवा जवा आववाने कइये. ॥ २३ ॥ वर्षा चतुर्मास रहेल चार उपवासादिक करेल साधुने जेटळी वखत श्वा थाय तेटळी वखत आहार पाणी खेवा एहस्थना घेर जावा आववाने कइये. ॥ २४ ॥

जो चतुर्थ प्रकृत एक उपवासनी संज्ञा न होय तो आ श्रीकल्पसूत्रना पाठनो संबंध केम मले ? अर्थात् एक उपवासनी संज्ञा होय तो ज संबंध मले.

प्र०३९-विजयादि चार अनुत्तर विमानमां एक वखत गयेलो जीव व्यंतरादि देवगतिमां अथवा नारकीआदि तीर्थेच गतिमां जाय ?

उ०-विजयादि चार अनुत्तर विमानमां गयेल उत्तम आत्मा तीर्थेचमां नरकमां तथा वैमानिक शिवाय अन्य देवोमां न जाय. अर्थात् मनुष्यमां तथा वैमानिक देवोमांज जाय. श्रीपञ्चव्याससूत्रना पंद्रमा पदमां कहेल ठे के:-

“ इह विजयादिषु चतुर्षु गतो जीवो नियमात् तत उद्धृतो न जातुष्विदपि नैरथिकादिपंचेन्द्रियतीर्थैकपर्यवसानेषु तथा व्यन्तरेषु ज्योतिष्के च मध्ये समागमिष्यति तथा स्वाभाव्यान्मनुष्येषु सौधर्मादिषु वा गमिष्यति तथापि जघन्यत एकं द्वौ वा भवानुत्कर्षत संख्येयान् न पुन असंख्येयान् अनन्तान् वा । ”

सारांश:-विजयादि चार अनुत्तरमां गयेलो जीव नरकगतिमां, एकेन्द्रियधी पंचेन्द्रिय सुधी तीर्थेच गतिमां तथा व्यंतर, ज्योतिष्क, जघनपतिआदि देवगतिमां नियमे करीने न जाय, मनुष्य तथा सौधर्मादि वैमानिकमांज जाय तेमां पण जघन्यधी एक अथवा बे जव अने उक्क्या संख्याता जव करे पण असंख्याता अथवा अनंता जव न करे.

प्र०-३०-परमाणु अने प्रदेशमां जेद शो ?

उ०-स्कंधनी साथे रहेलो प्रदेश, जुदो पके ते परमाणु. श्री नवतत्त्वनी टीकामां श्री समयसुंदरजी उपाध्यायजीए लखेल ठे के:-

“ ननु प्रदेशपरमाण्वोः परस्परं को भेदः ? उच्यते प्रदेशोऽपि निर्विभागः परमाणुरपि निर्विभागः परं स्कन्वलग्नः प्रदेशः स्कन्वात् प्रथमभूतः परमाणुरिति । ”

सारांशः-प्रदेशना पण बे जाग थाय नहीं तेम परमाणुना पण बे जाग थाय नहीं. तो पढी प्रदेश अने परमाणुमां जेद शो ? उत्तर ए ठे के-पुद्गलस्कन्धोषी जुदो पके तेने परमाणु कहेवाय अने तेज परमाणुने ज्यासुधी ते पुद्गलस्कन्धोनी साथे सम्बन्धवाळो होय त्यां सुधी तेने प्रदेश कहेवाय, बीजा विशेष नथी.

प्र०-३१-केवलीसमुद्घात सर्व केवलज्ञानी करे ?

उ०-कोई केवली जगवान् केवली समुद्घात करे कोई केवली जगवान् केवली समुद्घात न करे. श्रीगुणस्थानक्रमारोहमां कहेल ठे के:-

“ यः षष्ठासाधिकायुक्तो, लभते केवलोद्गमम् ।

करोत्यसौ सद्ब्रह्मात-मन्ये कुर्वन्ति वा न वा ॥ ”

सारांशः-केवलज्ञान थया पढी जे केवलज्ञानी महाराजाओने ठ मास थकी अधिक आयुष्य होय ते सर्व केवली जगवानो केवली-समुद्घात करे अने बीजा पटले केवलज्ञान पाम्या पढो अन्तर्मुहूर्त्तथी आरंजी यावत् ठ मास सुधी बाकी आयुष्यवाळा कोई केवली जगवान् केवली समुद्घात करे अने कोई न पण करे.

प्र०-३२-कल्पवृक्ष, चिन्तामणिरत्न आदि उत्तम वस्तुं अर्थिजनो-ना मनोरथोने पोतानी शक्तिथी सफल करे ठे या देवोनी सहायथी ?

उ०-कल्पवृक्षादिकना अविघ्नायक देवताओ अर्थिजनोनी इच्छा-पूर्ण करे ठे. श्रीवीतरागस्तवनी टोकामां कथ्यं ठे के:-

“ कल्पविटपी तथाविधदेवतादिसन्निधानादर्धिसार्धमनोरथप्रथनेन प्र-  
भावाळो भवति ”

सारांशः-कल्पवृक्ष तेवा प्रकारना देवादिनी सहायवके अर्थिवर्गनी मनोरथपूर्ति करवाथी प्रजावशास्त्रि थाय ठे. आ रीते चिन्तामणिरत्नादि पदार्थो माटे पण समजी खेवुं.

प्र०-३३-संख्याना प्रतिक्रमणमां सामायिक लोधा पढी सकायनो  
आदेश मागो नवकार गणी श्रावको जे पचखाण मुहपत्तिनी प्रतिले-  
खना-पन्विलेहणा करे ठे तो ते मुहपत्तिनी प्रतिलेखना करवा पूर्वे  
खमासमण दर्ई आदेश मागवानी जरुर ठे या नहि ?

उ०-खमासमण दर्ई मुहपत्ति प्रतिलेखनानो आदेश मागवो जोइए.  
श्रीसेनप्रश्नना चोथा उल्लासमां कहेव ठे के:-

“ संख्याप्रतिक्रमणे सामायिकोच्चारानन्तरं स्वाध्यायनमस्कारत्रयं कथ-  
यित्वा वन्दनकप्रत्याख्यानमुखवलिंका प्रतिलिख्यते सा क्षमाश्रमणं दत्त्वा  
प्रतिलिख्यते किं वा क्षमाश्रमणं विना तथा सा किं कथयित्वा प्रतिलिख्यते  
इति प्रश्नोत्तरं सामायिकं कृत्वा विसृज्य संदिसावुं प्रमुख क्षमाश्रमण-  
चतुष्टयं दत्त्वा नमस्कारत्रयं च कथयित्वा क्षमाश्रमणपूर्वकं 'इच्छाकारेण  
संदिसह भगवन् ! मुहपत्ती पढिलेहुं' इत्यादेशपूर्वं मुखवलिंकां प्रतिलिख्य  
वन्दनकप्रयं च दत्त्वा प्रत्याख्यानं कर्तव्यमिति ॥ १६१ ॥ ”

सारांशः-सांजना प्रतिक्रमणमां सामायिक लइने ' बेसणे संदिसावुं '  
आदि चार खमासमण दइने त्रण नवकार गण्ठा बाद खमासमण  
दर्ई “ इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! मुहपत्ति पढिलेहु ? ” आ प्रमाणे  
नो आदेश मागोने मुहपत्तिनी पन्विलेहणा करी बे वांदाणा दर्ई प्रत्या-  
ख्यान करवुं जोइए.

प्र०-३४-साधुमहात्माळं निंघ जातिमां गौचरी माटे जाय ?

उ०-साधुळं निंघजातिमां गौचरो न जाय. श्री दशवैकाखिकसूत्रना  
पांचमा अध्ययनमां कह्युं ठे के:-

“ पढिकुच्छुळं न पविसे ”

सारांशः-निषेध कुलमां साधुळं गोचरी न जाय. तथा श्री व्यव-  
हारजाप्यवृत्तिमां लखल ठे के:-

“ सूतकादि दश दिवसान् यावत् षड्यते इति, यावत्कथिकं षड-  
छिपकचर्मकारडोवादि ”

सारांशः-वर्जनिक कृषकना वे जेद ? अल्पकालिक १ यावत्जीव-जन्म मरणानुं सूतक दश दिवस सुधि वर्जितुं ते अल्पकालिक, वरुण, ठिपक, चमार, कोंब आदि अथम जातिना घरनो आहारादि वर्जवो ते यावत्जीवसुधी तथा आ प्रमाणेज श्री निशीथसूत्रमां पण प्रतिषेधकृषमां गोचरी जवानो निषेध ठे अने श्री आचारांग सूत्रना बीजा श्रुतस्कंधना पहेला अव्ययनना बीजा उदेशानी टीकामां पण जुगुप्सित-निंदित चमारादिना कृषोमां गोचरी जवानो निषेध ठे.

प्र०-३५-क्षाधिकसम्बन्धकत्वना स्वामी श्री श्रेणिक महाराज आदि नरकमां गया तो शुं अनंतानुबंधी कषायना उदय विना पण कोइ नरकमां जइ शके खरा ?

उ०-श्री श्रेणिक महाराजादिने अप्रत्याख्यानी कषायनो उदय अनंतानुबंधी जेवो होय एम संजवे ठे. श्रीविणयंधरचरित्रमां कर्षुं ठे को-

“ संज्वलनक्रोधः संज्वलनरूपोऽपि तिष्ठति १, कदाचित्प्रत्याख्यानरूपो भवति २, कदाचिदप्रत्याख्यानरूपः ३, कदाचिद्वनन्तानुबन्धिरूपः ४, तथा प्रत्याख्यानक्रोधः संज्वलनरूपः ५, प्रत्याख्यानरूपः ६, अप्रत्याख्यानरूपः ७, अनन्तानुबन्धिरूपः ८, एवमप्रत्याख्यानक्रोधः संज्वलनरूपः ९, प्रत्याख्यानरूपः १०, अप्रत्याख्यानरूपः ११, अनन्तानुबन्धिरूपः १२, तथा अनन्तानुबन्धिक्रोधः संज्वलनरूपः १३, प्रत्याख्यानरूपः १४, अप्रत्याख्यानरूपः १५, अनन्तानुबन्धिरूपः १६, एवं क्रोधस्य षोडश भेदाः स्युः तथा मानसाया-लोभानामपि षोडश षोडश गणनया ६४ भवन्ति । भगवत्यङ्गद्विवक्ष्यं वि-चारोऽस्ति तत्प्रायेण क्षाधिकसम्बन्धकत्ववर्ता नरकगमनसम्भवो नान्यथा. ”

सारांशः-संज्वलननो क्रोध संज्वलनरूप १, कदाचित् प्रत्याख्या-नरूप २, कदाचित् अप्रत्याख्यानरूप ३ अने कदाचित् अनंतानुबंधी रूप ४. एज प्रमाणे प्रत्याख्यानी क्रोध संज्वलनरूप. ५ कदाचित् प्रत्या-

ख्यानरूप ६ कदाचित् अप्रत्याख्यानरूप ७ अने कदाचित् अनंतानु-  
बंधोरूप ८. तेमज अप्रत्याख्याना क्रोध कदाचित् संज्वलनरूप ९,  
कदाचित् प्रत्याख्यानरूप १०, कदाचित् अप्रत्याख्यान रूप ११ अने  
कदाचित् अनंतानुबंधीरूप १२. तेमज अनंतानुबंधीनो क्रोध कदाचित्  
संज्वलनरूप १३, कदाचित् प्रत्याख्यानीरूप १४; कदाचित् अप्रत्याख्या-  
नीरूप १५ अने कदाचित् अनंतानुबंधीरूप १६. आ प्रमाणे सोल जेद  
क्रोधना तेवाज सोल मानना, सोल मायाना अने सोल लोचना सर्वे  
मली कषायना चोसठ जेद थाय. आ विचार श्री भगवत्यादि अं-  
गोमां ठे. आ रीतिथी श्रीश्रेणिकमहाराजादिनो अप्रत्याख्यानी कषा-  
यनो उदय अनंतानुबंधी स्वरूप होवाथी तेठ नरकगतिमां जाय एम  
संज्वे ठे अन्यथा नहीं. तथा श्री लोकप्रकाशना त्रीजा सर्गमां पण  
कह्युं ठे के:-

“ स्युः प्रत्येकं चतुर्भेदाः, भेदाः संज्वलनादयः ।

एवं षोडशैर्कैक-अनुपपिठविधा इति ॥ २१ ॥

यथा कदाचिच्छिष्टोऽपि, क्रोधादेयीति द्रुष्टताम् ।

एवं संज्वलनोऽप्येति, काप्यनन्तानुबन्धिताम् ॥ ४२३ ॥

एवं सर्वेष्वपि भाव्यम् ॥

तत एषोपपद्येतानन्तानुबन्धिमाविनी ।

कृष्णादेर्गुर्गतिर्गुर्न, क्षीणानन्तानुबन्धिनः ॥ ४२४ ॥

सारांशः-संज्वलनादिक प्रत्येक कषायोना चार चार जेद थवाथी  
सोल कषायना चोसठ जेद थाय, जेम श्रेष्ठ मनुष्य पण क्रोधादिकथी  
कदाचित् द्रुष्टपणाने प्राप्त थाय ठे. तेम संज्वलन कषाय पण अनंतानु-  
बंधीपणाने प्राप्त थाय. एम सर्व कषायोने माटे जाणवुं. अने तेज  
कारणथी क्षीण अनंतानुबंधी कषायवाळा श्रीकृष्णमहाराजादिनी  
अनंतानुबंधीना उदयथी थवा वाळी नरकगति संज्वे.

प्र०-३६-उपधाननी क्रिया दरेक साधुमहात्माठ करावी शके ?



उ०-उपधान वहन करवानी क्रिया श्रीमहानिशीथ सूत्रना योग वहन करेखा होय ते साधु महाराजज करावी शके. श्री तत्त्वतरंगिणीमां कहेल ठे के:-

“ कृतमहानिशीथादियोगानुष्ठानानामेवोपधानवाहनादि युक्तं नेतरेषामाज्ञाभङ्गादिदोषैः संसारपरिभ्रमणप्रसंगात् ”

सारांश:-जे साधुमहाराजज श्रीमहानिशीथ नामना सिद्धान्तादिना योगने वहन कर्या होय तेज करवावी शके. आज्ञाचंग करवायी संसार परिभ्रमण थवाना कारणथी बीजाळ न करावी शके. तथा श्रीसेन-प्रश्नना बीजा उद्धासमां श्रीसेनसूरिजो महाराज फरमावे ठे के:-

“ शरीरास्वाध्यायकारणे सत्यनूढमहानिशीथयोगस्य साधोः समीपे आधिका उपधानक्रियां करोति न वेति पञ्चोऽत्रोत्तरं शरीरास्वाध्यायकारणेऽपि श्रीमहानिशीथयोगवाह्यनिक एवोपधानक्रियां करोति नान्यस्य पार्श्वे ॥ ५८ ॥ ”

सारांश:-आधिका शरीर अस्वाध्याय ( ऋतुधर्म )ना कारणे पण श्री महानिशीथ सिद्धान्तना योगवहन करेख साधु महाराज पासेज उपधाननी क्रिया पण बीजा पासे न करे. आधी स्पष्ट थाय ठे केजे दिवस गणतरीमां पण न आवे ते दिवसे पण क्रिया श्री महानिशीथ-सूत्रना योगोवहन नहि करेखा साधु महाराज पासे न थइ शके तो पढी अन्य ( शुद्ध ) दिवसोने माटे तो कहेवुं ज शुं ?

प्र०-३९-श्रीमान् विजयशेठ अने विजया शेठाणीना जेवुं आदर्श अमणोपासक युगल बीजुं थयुं होय एम जाणवामां ठे. ?

उ०-चरुच शहरेमां वसता सुभावक जिनदास अने तेमनी धर्म-पत्नी श्रीमती सुहागदेवीनुं श्रीमान् विजयशेठ अने विजयाशेठाणीना जेवुंज आदर्श अमणोपासक युगल थयुं ठे. श्री उपदेशतरंगिणीमां कहुं ठे के:-

“वसन्तपुरे शिवंकरः श्रेष्ठी परमार्हतो निवसति स्म, तत्र श्रीधर्मदास-  
सूरयः संप्राप्ताः, वंदनार्थं शिवंकारो गतः, वंदनकानि दत्तानि, गुरुपाश्वे धा-  
लोचना गृहीता, सहर्षेणाभाणि-भगवन्। मम लक्षसाधर्मिकभोजनप्रदान-  
मनोरथोऽस्ति परं किं करोमि धनं तथाविधं नास्ति गुरुभिरभाणि-याद्दि  
भृगुकच्छे श्रीमुनिसुव्रतस्वामिवंदनार्थं तत्र जिनदासाभिधः आहः भार्या-  
सुहागदेवीयुतः सर्वशक्त्या वल्लभोजनाखलंकरणीयः तद्वात्सल्येन लक्ष-  
साधर्मिकभोजनदानपुण्यं भविष्यति ।”

सारांशः—वसंतपुर नामना नगरमां परम जैन शिवंकर नामा शेटोओ  
वसे ठे. ते नगरमां श्री धर्मदास नामा आचार्य महाराज पधार्या. शि-  
वंकर शेट वांदवाने वास्ते गयो. वांदी आलोचना छद् हर्षयी गुरु  
महाराजने कहुं. जगवन्। एक लाख साधर्मिकोने जोजन कराववानो  
मारो मनोरथ ठे पण शुं करं तेदहुं धन नयी. गुरु महाराजे कहुं—  
जरुचमां श्रीमुनिसुव्रतस्वामीने वंदन करवाने जा त्यां सुहागदेवी  
नामनी छीनी साथे जिनदास नामा धावकने सर्व शक्तियी वल्लभो-  
जनालंकारादिके अलंकृत करवो. तेना वात्सल्ययी लाख साधर्मिकने  
जोजननुं दान आप्यानुं पुण्य थसे.

प्र०-३८-पाक्षिक-पस्की आदि प्रतिक्रमणमां क्यांथी आरंजी  
क्यां सुधी ठीकने वर्जवी ?

उ०-चैत्यवंदनयी आरंजी शांति सुधी ठीक वर्जवी. श्रीसेनप्रभमां  
कहुं ठे के:-

“ पाक्षिकप्रतिक्रमणे क्षुत्कदा निवार्यते इति प्रश्नोऽत्रोत्तरं चैत्यवंदना-  
दित आरम्य शान्तिं यावत् क्षुत्निवार्यत इति परंपरास्ति ॥ २१ ॥ ”

सारांशः—पाक्षिक आदि प्रतिक्रमणमां चैत्यवंदनयी आरंजीने  
शान्ति सुधी ठीक वर्जवी. एम परंपरा ठे.

प्र०-३९-धनुष आदिथी थती सावथं-पापमय क्रियानुं अशुज  
कर्मना वंवरुप फस जे जोवोना शरीरथो धनुष बनेख ठे ते जोवोने

थाय तो जे जीवोनां शरीरनां ( मुनिउना उपयोगमां आवतां ) पात्रादिक बनेख ठे ते जीवोने पुण्यकर्मनो बंध थाय या नहि ?

उ०—जे जीवोना शरीरनां पात्रादिक बनेख ठे ते जीवोने पुण्य कर्मनो बंध न थाय. श्रीजगवतीसूत्रना पांचमा शतकना ठाठा उद्देशानी टीकामां स्पष्ट उल्लेख ठे के:—

“ अविरतिपरिणामाद् बन्धः अविरतिपरिणामश्च यथा पुरुषस्यास्ति एवं धनुरादिनिवर्तकशरीरजीवानामपीति, सिद्धानां तु नास्त्यसाविति न बन्धः, पात्रादिजीवानां च न पुण्यबन्धहेतुत्वं तत्रेतोर्विवेकादेस्तेष्वभावदिति ।”

सारांशः—अशुभकर्मना बंधमां हेतुचूत अविरति परिणाम पुरुषनी जेम विद्यमान होवाथी गत्यंतरमां जे जीवोना शरीरथी धनुष आदि बनेख ठे ते जीवोने धनुषआदिथी थती पापमयक्रियाना फल रूप अशुभकर्मनो बंध जरू थाय, श्रीसिद्धजगवानने तो अविरति परिणाम न होवाथी कर्मबंध न थाय. परन्तु जे जीवोना शरीरथी पात्र विगेरे बनेख ठे, तेउने शुभ कर्मना बंधमां हेतुचूत जे विवेक विगेरे तेनो अप्राप होवाथी पुण्य कर्मनो बन्ध न थाय.

प्र०—४०—ज्यारथी श्रीजगद्वाहुस्वामी महाराजाए श्रीकल्पसूत्रनी रचना कीधी त्यारथी आरंजीने श्रीपर्युषणा पर्वना दिवसोमां ते सूत्र वंचाय ठे पण तेनी पूर्वे श्रीसुधर्मास्वामी आदि परमर्षिओ शुं वांचता ह्मो ?

उ०—नवमा पूर्वमाथी आ श्री कल्पअध्ययन वांचता ह्मो. श्री सेनप्रभना बीजा उल्लासमां श्रीसेनसूरिजी महाराज कहे ठे के:—

“ श्रीभद्रबाहुस्वामिना नवमपूर्वाहुद्धृता श्रीकल्पः श्रीपर्युषणापंचदिनीं यावद्वाच्यमानोऽस्ति श्रीसुधर्मास्वामिप्रभृत्याचार्याणां तु पर्युषणासमये किं शास्त्रं वाच्यमानमभूदिति प्रश्नोऽत्रोत्तरं सुधर्मस्वामिप्रभुस्त्वा नवमपूर्वगतमेवैतदध्ययनं यथावस्थितं ध्यांरूपातवन्त इति संभाव्यते ॥ २०१ ॥ ”

सारांशः—श्री ज्ञानबाहुस्वामी महाराजे नवमा पूर्वथी उद्धार करेख श्री कद्वपसूत्र पर्युषणना पांच दिवस वंचाय ठे पण ते पहेळां श्री सुधर्मास्वामी आदि आचार्य जगवानो पर्युषणना समयमां कथुं शास्त्र वांचता हशे इति प्रश्न अत्र उत्तर श्री सुधर्मास्वामी आदि नवमा पूर्वमां रहेळुं आज अव्ययन यथावस्थित वांचता हशे एवी संज्ञा-वना करी शकाय ठे.

प्र०-४१-श्री लक्ष्मणशुद्धि ग्रंथना कर्ता श्रीहरिजडसूरिजी कया समजवा?

उ०-लक्ष्मणशुद्धिना कर्ता याकिनी महत्तरासुनु श्रीमान् हरिजडसूरिजी जाणवा. श्रीमान् कुलमंनसूरिजी महाराज विचारासृत-संग्रह नामना ग्रंथमां लखे ठे के:-

“ धर्मसंग्रहण्यनेकांतजयपताकापंचवस्तुकोपदेशपदलग्नशुद्धिलोकतत्त्व-निर्णययोगविन्दुधर्मविन्दुपंचाशकपोडशकाष्टकादिप्रकरणानि चतुर्दशशत-मितानि पूर्वश्रुतव्यवच्छेदकालानंतरं पंचपंचाशता वर्षैः दिवं गतैः श्रीहरि-भद्रसूरिभिर्विरचितानि ”

सारांशः—१ धर्मसंग्रहणी २ अनेकांतजयपताका ३ पंचवस्तु ४ उपदेशपद ५ लक्ष्मणशुद्धि ६ लोकतत्त्वनिर्णय ७ योगविन्दु ८ धर्मविन्दु ९ पंचाशक १० षोडशक ११ अष्टकादि चउदसो प्रकरणो पूर्वश्रुतना व्यवहृदे पठी पंचावन वर्षे स्वर्गने अलंकार करनार याकिनीमहत्तरासुनु श्रीहरिजडसूरिजीए रचेळां ठे.

प्र०-४२-श्रीमान् गौतमस्वामीने जगवान् महावीरस्वामीजी उपर अत्यंत राग हतो तो प्रथम कोइ जवमां तेमनो परस्पर निकट सम्बन्ध थयो ठे ?

उ०-श्रीत्रिपृष्ठवासुदेवना जवमां बन्नेनो निकट संबंध थयेल ठे. श्रीजगवती सूत्रना चौदमा शतकना सातमा उद्देशानी टीकामां उल्लेख ठे के:-

“ त्रिपृष्ठमवे भगवतो गौतमः सारथिः ”

सारांशः-जगवान् महावीरस्वामीनो जीव जे समये त्रिपृष्ठ नामना वासुदेव हता ते अवसरे श्रीमान् गौतमस्वामीनो जीव तेमना रथना सारथी तरीके हता.

प्र०-४३-कइ कइ गतिमांथी आवेला जीवो चक्रवर्ती थाय ?

उ०-नरकगति तथा देवगतिथी आवेला जीवो चक्रवर्ती थाय. श्रीजगवतीसूत्रना बारमा शतकना नवमा उदेशामां कहेल ठे के:-

“ नरदेवाणं भंते कर्माहिनो व्यवर्जन्ति ? किं नेरहपहिनो ? पुच्छा, गोयमा ! नेरहपहिनोवि व्यवर्जन्ति नो तिरिहपहिनो नो मणुपहिनो देवेहिनो वि व्यवर्जन्ति । ”

सारांशः-नरक तथा देवगतिमांथी आवेला जीवो चक्रवर्ती थाय, परन्तु मनुष्य तथा तिर्यचगतिमांथी आवेला जीवो चक्रवर्तीपणुं न पामे. तेमज श्रीसंप्रहणीसूत्र आदि शास्त्रोमां पण कहेल ठे.

प्र०-४४-जगवान् श्री महावीरस्वामीनो जीव एकवीसमे जवे मनुष्य हतो अने बावीसमे जवे तेळ चक्रवर्ती थया ते केम बने ?

उ०-मनुष्यमांथी आवी चक्री न थाय. थया ते आश्चर्य जाणवुं. श्रीदेवज्ञसूरिकृत श्रीमहावीरस्वरित्रमां-कहेल ठे के:-

“ एष च क्विर्हि, लब्धो पुणेण वीरजिणजीवो ।

अच्छेरगए भावे नायवो खिन्तविदेहेसु ॥ १ ॥ ”

जावार्थः-जगवान् श्रीमहावीरस्वामीनो जीव मनुष्यगतिमांथी आवी पुण्य थकी चक्रवर्ती थया ते महाविदेह क्षेत्रमां आश्चर्य थयुं.

प्र०-४५-संन्यानुं प्रतिक्रमण कर्या पढी आवक देराशर दर्शन करवा जइ शके ?

उ०-संन्याना प्रतिक्रमण कर्या पढी आवक देराशर दर्शन करवा जई शके, श्री आचारोपदेश नामा ग्रंथना पांचमा वर्गमां लखेस ठे के:-

“ विहितावश्यकः आच्छः, क्रुयाद्विश्रामणां गुरोः ॥ ९ ॥

ब्रह्माद्यतमुखो मौनी, हरेत् सर्वांगजं भ्रमम् ।

गुरुं संवाहयेद्यत्नात्, पादस्पर्शं त्यजन्निजम् ॥ १० ॥

ग्रामचैत्ये जिर्णं नत्वा, ततो गच्छेत्स्वमन्दिरम् ॥ ”

सारांशः—प्रतिक्रमण करीने वल्लथी मुख ढाकी मौनपणे गुरुमहा-  
राजने पोताना पगनो स्पर्श न थाय तेवी रीतीथी श्रावक गुरुमहा-  
राजना सर्व अंगना भ्रमने दूर करवा विश्रामणा (वैयावच्च) करी ग्रामना  
देराशर (मन्दिर) मां दर्शन करी पोताना घरे जाय. आ पाठमां स्पष्टपणे  
प्रतिक्रमण करी गुरुनी वैयावच्च करी पढीथी देराशर जवानी विधि  
प्रतिपादन करेल ठे.

प्र०-४६—उपवास, आयंबिल, एकासणुं विगेरे त्रिविहार अने चो-  
विहार एम बन्ने प्रकारे थाय ठे तेम पौरिसी विगेरे पण त्रिविहार  
थाय या नहि ?

उ०—पौरिसी विगेरे पण त्रिविहार थाय प्रातःस्मरणीय, जगवान्  
श्रीदेवेंद्रसूरिकृत श्रीहृदारुचिन्ता एवो उल्लेख ठे के—

“ साधवः शक्तिसद्भावे पौरुष्यादीनि चतुर्विंशतिहारस्य प्रत्याख्यान्ति,  
तद्भावे त्रिविंशतिहारस्य नतु द्विविधस्य, निष्कारणे स्वाध्यायाननुष्ठानात् ।  
आच्छस्तु संप्रदायात्कानिचित्प्रत्यारूपानानि द्विविंशतिहारस्यापि । ”

सारांशः—साधु शक्तिना सद्भावे पौरिसी विगेरे चोविहारे करे अने  
शक्तिना अजावे त्रिविहारे करे पण कारण विना साधुने स्वादिम खा-  
वानी आझा न होवाथी दुविहारे तो न करे, परन्तु श्रावक तो दुवि-  
हारे त्रिविहारे अने चोविहारे पण पौरुषी साढपौरुषी आदि करे.

प्र०-४७—साधुमहात्मार्ल खजूरी अथवा मुंजनी प्रमार्जनी-पुंजणीथी  
उपाश्रयनुं प्रमार्जन करे ?

૭૦-સાધુઠેં સ્વર્ગી અથવા મુંજની પ્રમાર્જનીથી પ્રમાર્જન ન કરે. શ્રીગણાચારપયનામાં કહેલ છે કે:-

“ સ્વ રિપત્તઃપુજેણ, જો પમલ્લે ઉલ્લસ્યં ।

... નો દયા તસ્તુ જીવેત્, સમ્મં જાણાહિ ગોયમા ॥ ૭૬ ॥ ”

સારાંશ:-સ્વર્ગીના પત્રની અથવા મુંજની પ્રમાર્જની-પુંજણીથી લપાશ્રયનું પ્રમાર્જન કરનાર સાધુને હે ગૌતમ ! જીવોની દયા રહિત અર્થાત્ નિર્દય જાણવો.

૭૧-૪૦-પુષ્યનક્ષત્રનું ઘણવાનપણું જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં છે પણ કોઈ શ્રીજ્ઞેનસિદ્ધાન્તમાં છે ?

૭૧-પુષ્યનક્ષત્ર અને વિજય મુહૂર્ત ગમનમાં શ્રેષ્ઠ છે. શ્રીજ્ઞાતાસૂત્રના આઠમા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે:-

“ જુત્તો પુસ્તો વિજયો મુહૂર્તો ”

સારાંશ:-પુષ્ય નક્ષત્રે કરીને શુક્ર ચંદ્રમા તથા વિજય નામામુહૂર્ત ગમનમાં શ્રેષ્ઠ છે. આ પાઠની ટીકામાં ઇવો સ્પષ્ટ લખેલ છે કે:-

“ અપિ દ્વાદશમે ચન્દ્રે, પુષ્યઃ સર્વાર્થસાધકઃ । ”

સારાંશ:-વારમો ચંદ્રમા હોય તોપણ પુષ્યનક્ષત્ર સર્વાર્થસાધક છે.

૭૧-૪૧-દીક્ષા અવસરે મૂળનામ બદલી બીજું રાક્ષવામાં આવે છે તે પ્રવૃત્તિ આધુનિક છે યા પ્રાચીન ? જો પ્રાચીન હોય તો તેનું કોઈ દૃષ્ટાન્ત શાસ્ત્રમાં છે ?

૭૧-દીક્ષા અવસરે નામ બદલવાની વિધિ પ્રાચીન છે. સારું નામ રાક્ષવાનું પંચવસ્તુમાં કહ્યું છે, તથા મહા સતી શ્રોમદનરેલાનું નામ બદલી સુમતા નામ આપવામાં આવેલ છે. શ્રી ઊરાધ્યયનસૂત્રનો ટીકામાં લખેલ છે કે:-

“ તીર્થ વિ તાર્ણિ સાઠ્ઠુણીર્ણ સમીલે ગરિયા દિશ્વલા કપમુલયનામા તવસંયમં કુળમાળી વિહરહ ॥ ”

सारांशः—प्रत्येकबुद्ध श्रीनमिराजर्षिनी माता मदनरेखाए ते साध्वीर्जनी पासे दीक्षा अंगीकार करी दीक्षा अबसरे मदनरेखा नाम बदली 'सुवता' नाम आपेली साध्वी तप संयम पालन करती विचरे ठे.

प्र०—५०—उपधानमां त्रण चोमासीनी असजाय गणाय ?

उ०—उपधानमां चोमासीनी असजाय न गणाय—श्री सेनप्रश्नना चोथा उल्लासमां कहैल ठे केः—

“ आश्विनास्वाध्यायिकादिनत्रयमुपदेशमालादि न गण्यते तथा चतुर्मासकत्रयास्वाध्यायिकायां तद् गण्यते नवेति प्रश्नोऽत्रोत्तरं तदस्वाध्यायिकायां दिनत्रयमुपधानमध्ये, न तथा चतुर्मासकत्रये, तस्माच्चतुर्मासकत्रयास्वाध्यायिकायामुपदेशमालादि गण्यते ॥ ५४ ॥ ”

सारांशः—आसो मासनी त्रण दिवसनी असजायमां उपदेशमालादि गणाता नथी तेम त्रण चोमासानी असजायमां उपदेशमालादि गणाय के नहि. इति प्रश्न. अत्र उत्तर आसो मास संबंधि त्रण दिवसनी अस्वाध्याय उपधान मध्ये गणाय ठे तेम चोमासानी असजाय उपधानमां गणाती नथी. ते माटे त्रण चोमासानी असजायमां उपदेशमालादि गणी शकाय.

प्र०—५१—श्रीतीर्थकर नामकर्मना बन्धमां हेतुभूत केवल द्वायिक सम्यक्त्वज ठे के उपशम अने द्वायोपशम सम्यक्त्व पण ठे ?

उ०—त्रणे सम्यक्त्व श्री तीर्थकर नामकर्मना हेतु ठे. श्री पंचसं-  
ग्रहनी स्वोपज्ञ टीकामां कह्युं ठे केः—

“ तीर्थकरनामगोत्रस्य त्रिविधमपि सम्यक्त्वं हेतुः । ”

सारांशः—द्वायिक-द्वायोपशमिक अने औपशमिक आ त्रणे सम्यक्त्वो श्रीतीर्थकर नामकर्मना बंधमां हेतुभूत ठे.

प्र०—५२—वर्तमान समयमां जरतदेत्रना मनुष्योने द्वायिक सम्य-



कृत्व उत्पन्न थाय ? अने न थाय तो तेमां कारण शुं ? तथा तेनो निषेध कया शास्त्रमां ठे ? तेमज चरम युगप्रधान श्रीदुःस्पसहसूरिजी द्वायिक सम्यकृत्ववतं थशे तेनुं समाधान शुं !

उ०-वर्तमान कालमां जरतक्षेत्रमां जन्मेखा मनुष्यने वज्रऋषज-नाराच संघयण तथा क्षपकश्रेणिनो अज्ञाव होवाथी द्वायिक सम्य-कृत्व उत्पन्न न थाय. चोथा कर्मग्रंथनी टीकामां कह्युं ठे के:-

“ क्षयेणात्यन्तोच्छेदेन त्रिविधस्यापि दर्शनमोहनीयस्यापि निवृत्तं द्वायिकं तच्च क्षपकश्रेण्यामेव भवति ”

सारांश:-त्रण प्रकारना दर्शनमोहना क्षयथी पेदा थयेल द्वायिक सम्यकृत्व. ते द्वायिक सम्यकृत्व क्षपकश्रेणिमांज थाय पण क्षपकश्रेणि विना न थाय अने जरतक्षेत्रमां श्रीजंबूस्वामीजी मोक्षे गया तेमनी साथे क्षपकश्रेणि विह्वेद गयातुं वर्णन श्रीप्रवचनसारोद्धारादि अनेक ग्रंथोमां ठे, तेथी वर्तमानसमयमां जरतक्षेत्रना मनुष्योने द्वायिक सम्यकृत्व थइ शके नहि. तथा-

“ इह दर्शनमोहनीयक्षपणायाः प्रस्थापकः-भारंभक्तो मनुष्यो जिन-कालको-जिनकालसंभवी जिनकालश्च ऋषभजिनविश्वरूपकालप्रभृतिरु-जंबूस्वामिकेष्वलोत्पत्तिलाभपर्यवसानो वेदितव्यः तथा वप्राष्टकस्योपरि व-र्तमानो वज्रर्षभनाराचसंज्ञनश्च भवति । ”

सारांश:-वज्रऋषजनाराचसंघयणवाळा अने आठ वर्षथी उपरनी वयवाळा तेमज श्रीऋषजदेव जगवानथी लई श्रीजंबूस्वामीजी पर्यंतना कालमां वर्तता. उत्तम आत्माठने द्वायिक सम्यकृत्व थाय, बीजाने नही, कारण के जिनकाल तथा वज्रऋषजनाराचसंघयणनो अज्ञाव ठे एंम श्री कम्मपयकीनी टीकामां कहेल ठे. ह्वे श्री महानिशीथ सि-द्धान्तमां ठेह्वा युगप्रधान श्री दुःस्पसहसूरिजीने एकावतारी, द्वायि-

कसम्यकृत्ववन्त कहेल ठे, ते द्वायिकसम्यकृत्व तेमने पाठळना मनु-  
ष्यजवमां उपार्जन कर्यांनो संजव ठे. द्वायिकसम्यकृत्वना धारी उत्तम  
पुरुष श्रीकृष्ण महाराजा तथा श्रीदुःष्यसहसूरि महाराजाना पांच जव  
श्रीकम्मपयनीनी टीकामां कहेल ठे

“ क्षीणससकस्य कृष्णस्य पंचमे भवेऽपि मोक्षगमनं श्रूयते उक्तं,—

“ नरयाधो नरभर्षभि, देवो ह्योऽङ्ग पंचमे कल्पे ।

तत्तो जुओ समाणो, धारसमो जममतिस्थयो ॥ १ ॥ ” ति

इत्यमेव दुःष्यसहादीनामपि द्वायिकसम्यक्त्वमागमोक्तं श्रूयते इति ।”

सारांशः—दर्शनमोहनीयनी सात प्रकृतिने दाय करी द्वायिक स-  
म्यक्त्व प्राप्त करनार श्रीकृष्ण महाराजना आगममां पांच जवो वर्णान  
करेल ठे, १ श्री कृष्ण महाराजनो, २ नारकीनो, ३ मनुष्यनो, ४ पांचमा  
देवलोकमा देव, ५ श्री अममनामा तीर्थकर महाराज. एवीज रोते  
द्वायिक सम्यक्त्वी श्री दुःष्यसहसूरि महाराजना पण पांच जव आ-  
गममां कहेल ठे अने युगप्रधान दुःष्यसहसूरि महाराजा एकावतारी  
होवाथी त्रणज जव करवाना होवाथी पाठळना मनुष्यजवमां द्वायि-  
कसम्यकृत्व उपार्जन करेलुं सिद्ध थायठे, पाठळना मनुष्यभवमां द्वायि-  
कसम्यकृत्व उपार्जन कर्युं त्यांथी जव गणीए तो प्रथम मनुष्यजव,  
बीजो देवजव, त्रीजो श्रीदुःष्यसहसूरिनो जव, चौथो देवजव अने  
पांचमो मनुष्यजव पामी चारित्रनुं आराधन करो केवज्ज्ञान उपार्जन  
करी मोक्षे जशे. आ प्रमाणे मानवाथीज सर्व शास्त्रीय पाठेनुं समा-  
धान थाय, अन्यथा श्रीदुःष्यसहसूरिजीना पांचजव, श्रीदुःष्यसह  
सूरिजीनुं एकावतारीपणुं, रूपकश्रेणिमांज द्वायिक सम्यकृत्वनो  
उत्पत्ति, श्रीकृष्णदेव स्वामीथी आरंजो श्रीजंबूस्वामी पर्यंतना  
काळमां पण बज्जत्रुषजनाराचसंघयणवाळा उत्तम आत्माश्रोज

हायिकस्सन्यकृत्वना अधिकारी पण बीजा नहिं. इत्यादि शास्त्रोक्त वातोनो संबन्ध केम मळे ? अर्थात् न मळे.

प्र०-२३-बी अथवा तेखथी तळेखी पूरी आदिमां एकज विगय गणाय के वे ?

उ०-बी अथवा तेखथी तळेखी वस्तुमां एकज कनाहविगय गणाय. श्रीसेनप्रश्नमां कहुं ठे के:-

“अथतननिष्पन्नकटाहविकृतिर्भुज्यते तस्य कियन्त्यो विकृतयो लग्नीति प्रसोऽचोत्तरं एका कटाहविकृतिर्लगतीति । ३६० ॥”

सारांश:-आजनी बनेखी कनाह विगय ( बी अथवा तेखथी तळेखी पूरी आदि ) खाय तेने केटखी विगयो लागे. इति प्रश्न अत्र उत्तर एक कनाह विगय लागे पण बीजी नहीं.

प्र०-२४-श्रीअतिमुक्तकुमारे केटला वर्षनी वयमां दीक्षा अंगीकार करी ठे. ?

उ०-श्री अतिमुक्त कुमारे ठ वर्षनी वयमां दीक्षा अंगीकार करी ठे. श्री जगवती सूत्रना पांचमा शतकना चोथा उद्देशानो टीकामां कहेल ठे के:-

“छपरिसो पवइओ निर्गर्भ रोइऊग पावयणति एतदेव आश्चर्यमिहान्यथा वर्षाष्टकादाराज प्रख्या स्यात् । ”

सारांश:-श्रीअतिमुक्तकुमार बाह्यावस्थामां ठ वर्षनी वयमां श्री निर्भय प्रवचननी रुचि थवाथी दीक्षा अंगीकार करी ए आश्चर्यचूत ठे, अन्यथा आठ वर्षनी वयथी पहेखां दीक्षा न थाय.

प्र०-२५-जावतीर्थ कोने कहीय !

उ०-जावतीर्थ श्रीचतुर्विध संघने अथवा प्रथम गणधरने कहेवाय. चैत्यवंदन जाण्यनी अवचूरिमां कहेल ठे के:-

“ भावतीर्थं तु चतुर्विधः श्रमणसंघः प्रथमगणधरो वा । ”

सारांशः—चतुर्विध श्रमणसंघ अथवा श्रीप्रथमगणधरदेवने जाव-  
तीर्थ कहिए तथा श्री जगवती सूत्रना वीशमा शतकना आठमा  
उद्देशानी टीकामां कहेल ठे केः—

“ तीर्थं पुण चाउबन्नाइन्ने समणसंघे ॥ ”

सारांशः—हमादि गुणे करीने युक्त चतुर्विध श्रोसंघने तीर्थ कहिये.

प्र०—५६—अग्निने विषे उंदरो उत्पन्न थाय ?

उ०—अग्निमां उंदरो उत्पन्न थाय, श्रीअनुयोगद्वारसूत्रनी टीकामां  
कहेल ठे केः—

“ इष्टकापाकायग्निसूषिकावास इत्युच्यते तत्र क्षानौ किल सूषिकाः  
संसृज्जति । ”

सारांशः—इंठ आदिनी जट्टीनी अग्नि उंदरोनुं स्थान ठे तेमां संसृ-  
ज्जिम उंदरोनी उत्पत्ति थाय ठे.

प्र०—५७—रात्रिण साधु साध्वीने तथा सामायिक पौषधमां रहेल  
श्रावक श्राविकाने विजळीनी उजेही लागे ?

उ०—रात्रिण साधु साध्वीने चंद्रमानी प्रजा विनाना स्थानमां  
दीवानी उजेही लागे. श्री संदेहदोलावलीमां कथुं ठे केः—

“ ननु चंद्रोज्ज्वलायां रात्रौ सामायिकस्यस्य विद्युदादिना स्पर्शनकं स्यान्न  
वा ? उच्यते चंद्रोद्योतवति प्रदेशे स्पर्शनकं न भवति चांश्रेण तेजसा तस्या-  
भिभूतत्वात्, तत्रापि चंद्रप्रभाभिर्व्यास एव शरीरभागे पदावृत्त इव तन्न  
भवति ततो अन्यत्र तु भवत्येव तथा सूर्यकिरणाः प्रकृतिप्रखरा इति  
तत्प्रयोत्तेनापि स्पर्शनकं न भवतीति । ”

सारांशः—चंद्रमाथी उज्वल रात्रिण सामायिकमां रहेलाने विज-  
ळीनी उजेहीनो स्पर्श लागे के नहीं ? उत्तर—चंद्रमानी उद्योतवाळा  
प्रदेशमां चंद्रमानी प्रजाथी व्यास शरीरना जागमां वल्लथी आहा-  
दितनी जेस चंद्रमानी प्रजाथी विजळीनी उजेहीनो पराजव थवाथी

न क्षागे, बीजा स्थाने अत्रय्य क्षागे. दिवसमां तो सूर्यनां तेजस्वी किरणो होवाथी विजलीनी उजेहीनो स्पर्श न क्षागे. तथा श्रीसेन-प्रश्नना त्रीजा उह्यासमां पण कहुं ठे के:-

उद्योते उद्योतिका लगति नवेति प्रश्नोऽत्रोत्तरं । शरीरोद्योतिकयोरन्तराद्योद्योते सति उद्योतिका लगति चंद्रोद्योते शरीरलग्ने सति उद्योतिका न लगतीति परंपराऽस्ति तथा खरतरकृतसंदेहदोषावलीग्रंथेऽपि तथैवोक्तमस्तीति ॥ ४५ ॥ ”

जावार्थ:-उद्योतमां उजेही क्षागे के नहि ? इति प्रश्न अत्र उत्तर. शरीर अने उजेहीनी वचमां चंद्रमानो उद्योत होय तो उजेही क्षागे. चंद्रमानो उद्योत शरीरने क्षागतो होय तो उजेही न क्षागे एवो परंपरा ठे तथा खरतरनी करेखो संदेह दोषावली नामा ग्रंथमां पण तेमज कहेख ठे.

प्र०-५८-चतुर्दश गुणस्थानमां पहेहुं मिथ्यादृष्टि गुणस्थान कहेख ठे तो मिथ्यादृष्टिमां कया गुणने आश्रिते गुणस्थान कहुं ?

उ०-जडकत्वादि गुणोने आश्रित मिथ्यात्वमां गुणस्थानप पुं जाणवुं. कलिकास्य सर्वज्ञ जगवान श्री हेमचंद्राचार्य महाराजे श्री योगशास्त्रमां कहुं ठे के:-

“ मिथ्यादृष्टिर्भवेन्मिथ्या-दर्शनस्योदये सति ।

गुणस्थानत्वमेतस्य, भद्रकत्वाद्यपेक्षया ॥ १ ॥ ”

सारांश:-मिथ्यादर्शनना उदयथी मिथ्यादृष्टि थाय. तेमा जडकत्वादि अपेक्षाप गुणस्थानपणुं ठे.

प्र०-५९-स्तवन, चैत्यवंदन तथा स्तुतिमां जेद शो ?

उ०-नमुत्थुणनी आदिमां एकादि श्लोकरूप कहेवुं ते चैत्यवंदन, नमुत्थुणनी पढी चार श्लोकादि रूप कहीप ते स्तवन, कायोत्सर्गनी पढी एक श्लोक कहीप ते थुई जाणवो. चैत्यवंदन जाण्यनी अवचूरिमां कहुं ठे के:-

“ स्तोत्रं चतुःश्लोकादिरूपं भगनीयं एकश्लोकादिकं चैत्यवन्दनायाः पूर्वं भण्यते तन्मंगलवृत्तापरपर्यायाः नमस्काराः इत्युच्यन्ते, यत् कार्यात्सर्गानन्तरं भण्यते तत्स्तुतय इति रूढाः चैत्यवन्दनार्थन्ते च स्तोत्रमयमेव च तेषां परस्परं विशेषः अन्यथा जिनगुणकीर्तनरूपत्वात् सर्वेषामेकत्वापत्तेः।”

सारांशः—नमुत्थुणंणी पठी चार श्लोकादि कहीए ते स्तवन, नमुत्थुणंणी आद्यमां एक श्लोकादि कहीए ते मंगलवृत्त—नमस्कार अन्य नाम चैत्यवन्दन, कार्यात्सर्गानी अनंतर कहीए ते स्तुति. आ प्रमाणे रुढि ठे एज परस्परमां विशेष ठे, अन्यथा जिनगुणकीर्तनरूपमां समान छे.

प्र०—६०—वायुकाय सर्वने वैक्रियलब्धि होय ?

उ०—बादर पर्यासा वायुकायने केटलाकने वैक्रियलब्धि होय. श्री प्रज्ञापन्नासूत्रना पांचमा पदनी टीकामां कहुं ठे केः—

“ वायुकायिकाश्चतुर्विधाः तद्यथा सूक्ष्मा बादराश्च, एकैका द्विधाः पर्यासा अपर्यासाश्च, तत्र बादरपर्यासाव्यतिरिक्ताः शोपास्त्रयोपि प्रत्येकमसंख्येयलोकाकाशप्रमाणाः, ये तु बादरपर्यासास्ते प्रतरासंख्येयभागप्रमाणाः, तत्र अयाणां राशीनां वैक्रियलब्धिरैव नास्ति, बादरपर्यासानामपि संख्येय-भागमात्राणां लब्धिर्न शोषाणां, ”

सारांशः—वायुकायना वे जेद १ सूक्ष्म अने ३ बादर ते बन्नेना पण बवे जेद पर्यासा अने अपर्यासा एम वायुकायना चार जेद, तेमां १ बादर पर्यासा जीवो ते प्रतरना असंख्याता जाग प्रमाणे ठे. बाकी त्रण असंख्याता लोकाकाश प्रमाणे जाणवा. तेमां सूक्ष्म पर्यासा ३ सूक्ष्म अपर्यासा, अने ३ बादर अपर्यासा आ त्रणने तो वैक्रिय लब्धि सर्वथा होय नहीं, बादर पर्यासा वायुकायनेज वैक्रियलब्धि होय ते पण संख्याता जागनेज होय सर्वने नहीं.

३०-६१-साधु साध्वीने चरतचरेखुं वल्ल कल्पे ?

उ०-साधु साध्वीने जरेखुं वख न कइये, गह्वाचार पयझानी श्रव-  
चूरिमां उल्लेख ठे के:-

“ गणि गोयमज्जाअचियं, सेयवत्थं विवज्जिहं ।

सेवए चित्तरूपाणि, न सा अज्जा धियाहिया ॥ ११२ ॥”

हे गणि गोतमार्यापि च या श्वेतं साध्वीयोग्यं वखं वसनं विवर्ज्य  
परित्यज्य सेवते धुनक्ति चित्ररूपाणि विविधभरतावियुक्तानि वज्जाणि  
यद्वा धियाणि आश्चर्यकराणि चित्ररूपाणि-यल्लुद्धुदडिकाकमलादीनि येषां  
तानि चित्ररूपाणि बहुमूल्यवज्जाणि साध्ययोग्यानि न सा आर्या-साध्वी  
व्याहृता मया भगवता-वर्षमानस्वामिना न कथितेत्यर्थः किंतु सा जिन-  
प्रवचनोद्वाहकारिणीति । ”

सारांशः-हे गौतम ! जे साध्वी श्वेत वखने वर्जनि नाना प्रकारना  
जरतथी जरेखां, ठोटी दनीठ कमखादि चित्रकारी श्रने बहु मूखवाळां  
साध्वीने श्रयोग्य वखने जोगवे तेने साध्वी न कहेवाय पण प्रवचननी  
उल्लाह करनारी जाणवी, एम जगवान् श्रीमहावीर स्वामीजी कहे ठे.

प्र०-६१-सास्वादनसम्यक्दृष्टि खन्धिअपर्यातामां उत्पन्न थाय ?

उ०-सास्वादनसम्यक्दृष्टि खन्धिअपर्यातामां उत्पन्न न थाय. श्री  
पल्लवणासूत्रना पांचमा पदनी टीकामां एवुं कथन ठे के:-

“ न च खन्ध्यपर्यासकेषु मध्ये सासादनसम्यग्दृष्टिरूपपथते, किं कार-  
णमितिचेदुच्यते, खन्ध्यपर्यासको हि सर्वसंक्लिष्टः, सास्वादनसम्यग्दृष्टिश्च  
मनाक् शुभपरिणामस्ततः स तेषु मध्ये नोत्पद्यते । ”

सारांशः-खन्धि अपर्यासा सर्वसंक्लिष्टपरिणामी श्रने सास्वादन-  
सम्यक्दृष्टि कंश्क शुज परिणामी होवाथी सास्वादन सम्यक्दृष्टि  
जीव खन्धिअपर्यातामां उत्पन्न न थाय.

प्र०-६३-रात्रिय संचारो करती वखत साधु साध्वीओ कानमां  
रुनुं पुमहुं न राखे तो चाखे या नहि ?

उ०-कानमां रतुं पुमरुं अवरुणं राखतुं जोशुप, श्री महानिशीथ-सूत्रना सातमा अध्ययनमां कहुं ठे के:-

“ अकण्ठं कन्नविचरेत्तु कन्यासकवेणं तुपद्दइ संथारंमि । ”

सारांश:-कानना विवरमां रतुं पुमरुं घाढ्या विना संथारामां सुइ जाय ( तो दंन आवे ).

प्र०-६४-शुं श्री अंबरु तापसी तीर्थकर थशे ?

उ०-श्रीश्रौपपातिक सूत्रमां कहुं ठे के-श्री अंबरुतापस अनशन करी पांचमा देवलोकमां गया ठे त्यांथी चवीने महाविदेह क्षेत्रमां श्री हठप्रतिज्ञ नामा महाभ्रुद्धिमान् थइ मोक्षमां जशे माटे तीर्थकर थवानी वात साची नथी. श्री जगवती सूत्रना चउदमा शतकना आठमा उदेशानी टीकामां कहेल ठे के:-

“ कृतानशानो ब्रह्मलोकै गमिष्यति ततश्च्युतो महाविदेहे हठप्रतिज्ञाभिधानो महर्षिको भूत्वा सेत्स्यति । ”

सारांश:-श्रीअंबरुनामा तपस्वी अनशन करी ब्रह्मदेवलोकमां उत्पन्न थशे. त्यांथी चवी महाविदेह क्षेत्रमां हठप्रतिज्ञ नामा महर्षिक थइ मोक्षमां बीराजमान थशे.

प्र०-६५-सिद्धशिला अने अलोकनी वचमां अंतर केटहुं ?

उ०-सिद्धशिला अने अलोकनी वचचे उत्सेध अंगुलथी एक योजननुं अंतरं ठे. श्री जगवती सूत्रना चौदमा शतकना आठमा उदेशानी टीकामां कहेल ठे के:-

“ इषत्पाग्भारायाः पृथिव्याः लाकान्तस्य चान्तरं तदुच्छ्रयांगुलनिष्पन्नयो-जनममेयमित्यनुमीयते । ”

सारांश:-उत्सेध अंगुलना मापथी सिद्धशिला अने लोकांतनी वचचे एक योजननुं अंतर ठे. अर्थात् सिद्धशिलाथी अलोक उत्सेध अंगुलना मापे एक योजन दूर ठे एम अनुमान थाय ठे.



प्र०-६६-नरकमां बादर अग्निकाय ठे या नहि ? जो नथी तो श्रीउत्तराध्ययन आदि सूत्रोमां हुताशन (अग्नि)मां अनेक वखत दग्ध थवानी यात कथांथी आनी ?

उ०-नरकमां बादर अग्निकाय नथी. नवांगी टीकाकार जगवान् श्रीअजयदवसुरिजीए श्रीजगवती सूत्रना चौदमा शतकना पांचमा उद्देशानी टीकांमां कहुं ठे के:-

“नारकक्षेत्रे बादराग्निकायस्याभावान्मनुष्यक्षेत्र एव सद्भाषायञ्चोत्तराध्ययनादिषु भ्रूयते ह्यासणे जलतंमि दद्दुषुवो अपेगसो’ इत्यादि, तदग्निमसदृशद्रव्यान्तरापेक्षया भवसेयम् ।”

सारांश:-मनुष्यलोकमां बादरअग्नि शास्त्रोमां कहेल ठे. नरकमां बादर अग्निकाय नथी. श्री उत्तराध्ययन सूत्रमां नरकमां अनेक वखत अग्निमां दग्ध थवानी यात आवे ठे ते बादर अग्निकायना सदृश द्रव्यान्तरनी अपेक्षाए जाणवी.

प्र०-६७-ज्ञाननी वृद्धि करनारां नक्षत्रो कयां ?

उ०-दश नक्षत्रो ज्ञाननी वृद्धि करनारां ठे. श्रीसमवायांग सूत्रमां कहेल ठे. के:-

“दस नक्षत्रात्ता नाणबुद्धिकरा पञ्चत्ता तंजहा-

मिगसिर अहा पुस्सो, तिन्नि य पूवा य मूलमस्सेसा ।

हत्थो चित्ता य तथा, दस बुद्धिकरा य नाणस्स ॥ १ ॥”

उ०-१ मृगशिर, २ पुष्य, ३ आर्द्रा, ४ पूर्वाफाल्गुनी, ५ पूर्वाषाढा, ६ पूर्वाजाडपद, ७ मूल, ८ अश्लेषा, ९ हस्त, अने १० चित्रा. आ दश नक्षत्रोने ज्ञाननी वृद्धि करनारां कहां ठे.

प्र०-६८-सूत्रमां आर्द्रकुमारनी स्त्रीए रेंटीयो कांत्यानी हकीकत आवे ठे ? अने आवे ठे तो ते हकीकत तेमां केवा स्वरुपे वर्णन करी ठे ? तथा रेंटीड कांतवो शील पाखवानुं साधन ठे एम शास्त्रमां कहेल ठे ?

उ०-अनार्यदेशमां आर्द्रक नगरमां आर्द्रनामना राजपुत्रने बुद्धिनिधान श्री अजयकुमारे मोकलेख श्रीजिनप्रतिमाना दर्शन करतां जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न थवाथी वैराग्य उत्पन्न थयो. ते वैराग्यवान् आर्द्रकुमार आर्यदेशमा आव्यो अने देवताए 'जोगावली कर्म बाको ठे' आ प्रमाणे कही निषेध करवा उतां पण दीक्षा अंगीकार करी. स्थारवाद् जोगावली कर्मना उदयथी वसंतपुर नगरवासी श्रेष्ठीनी पुत्री साथे पाणिग्रहण कर्तुं अने पुत्र उत्पन्न थयो एटखे पोते दीक्षा लेवा तत्पर थया. आ वात पोताना लघु बाळकने समजाववा अने पोताना पतिने दीक्षा लेतां अटकाववानी खातर श्री आर्द्रकुमारनी पत्नीए रेंटीळ कांतवा मांछ्यो. ते जोई बाळके पूढ्युं के हे माता ! सामान्य जनोने उचित एवो आ रेंटीळ कांतवानुं काम आप शा माटे करो ठो ? माताए जवाब आप्यो के हे पुत्र ! तारा पिता दीक्षा लेवा तैयार थयाठे अने तुं बाळक होवाथी धन उपार्जन करवाने असमर्थ ठे माटे अनाथ स्त्रीजनने उचित आ विधिए धन उपार्जन करी तारुं तथा मारुं पालन करीश.

आ प्रमाणे हकीकत ठे, बाकी रेंटीळ शील पालवानुं साधन कोइ शास्त्रमां कहेल नथी. जे कोइ शील पालवानुं साधन अथवा अन्य धर्मनुं साधन कहे ठे ते जैन शास्त्रोना अनत्रिङ्ग ठे. अथवा यज्ञानी खातर लोक प्रवाहमां जळी जाय्तीने उत्सूत्र-प्ररुपणा करनारा ठे. रेंटीळ कांतवो ए धर्म नथो किंतु अन्य आजीविकाना अजावे अनाथ स्त्री जनोने उचित एवुं आजीविकानुं एक साधन ठे. श्री सुयगरांग सूत्रना बीजा श्रुतस्कंधना उट्टा उद्देशानी निर्युक्तिना व्याख्यानमां श्री शीखांकसूरिजी महाराज लखे ठे के:-

“ तथा सुतव्युत्पादनार्थं कर्मासकृत्तममारब्धं, पृष्टा चासौ बालकेन

किमन्वैतत् भवत्या प्रारब्धमितरजनाचरितं ? ततोऽसावबोधद्-यथा तव पिता प्रव्रजितुकामः, त्वं चाद्यापि क्षिशुरसमर्थाऽर्थार्जने ततोऽहमनाथा स्त्री-जनोचितेनानिन्धेन विधिनात्मानं भवन्तं च किल पालयिष्यामीत्येतदा-लोच्य मयारब्धमिति । ”

सारांशः-श्री आर्द्रक कुमारनी स्त्रीए पुत्रने जणावधाने रु कांत-वानुं शरु कर्यु. बाळके मातांने रेंटीठ कांतती जोइ पूठयुं. हे माता ? पामर जनोने उचित आ काम तें केम आरंजेळ ठे. माताए उत्तर आप्यो. हे पुत्र ! तारो पिता दीक्षा खेवाने तत्पर थयेळ ठे. तुं हजी नानो बाळक अर्थ उपार्जन करवाने असमर्थ ठे तेथी हुं अनाथ स्त्री-जनोने उचित आ रेंटीठ कांतवानी अर्निध विधिथी ड्रव्य उपार्जन करी मारुं तथा तारुं पालन करीश. एम विचारी रेंटीठ कांतवानुं काम मे आरंजेळ ठे.

प्र०-६९-मूळानां पत्र आदि नश्य ठे के अज्ञद्य ?

उ०-मूळानां पांचे अंग पत्र, दांफला, मोगरा आदि अज्ञद्य ठे. श्रीरत्नशेखरसूरिजी महाराज श्रीश्राद्धविधिमां जणावे ठे के:-

“ मूलकस्तु पंचागोऽपि त्याज्यः । ”

सारांशः-मूळाना पांचे अंगो त्याग करवा योग्य ठे.

प्र०-७०-रंग चढावेलां पात्रो तरुके सुकवाय के नहि ?

उ०-रंगेळ पात्रो अनाच्छादित स्थाने शीतकालमां सूक्ष्म अप्-कायना रक्षण अर्थे दिवसनो पहेळो तथा चोथो पहोर वर्जिने तरुके सुकववां अने श्रीधमकालमां सूक्ष्म अप्कायना रक्षणार्थे दिवसनो पहेळो तथा बेस्सो श्रुधो पहोर ठोडीने तरुके सुकववां. जो वर्जित-कालमां सुकवे तो सूक्ष्म अप्मायजीवोनी विराधना याय. श्री ओघनिर्युक्तिसूत्रमां कळुं ठे के:-

“पदमचरिमा उ सिसिरे, गिम्हे अहं तु तासि बज्जिता ।  
पार्यं ठवे सिणेहाइ, रक्खणह्ण प्वेसो वा ॥ ३९८ ॥”

सारांशः—शरद ऋतुमां सूक्ष्म अप्कायनी रक्ताने अर्थे दिवसनी प्रथम पौरुषी तथा चतुर्थ पौरुषी वर्जिने क्षेपित पात्र बहार खुद्वी जग्यामां सुकववाने माटे मूके. प्रीष्य ऋतुमां सूक्ष्म अप्कायनी रक्ताने अर्थे दिवसनी पहेलो तथा चोथा पहोरनी अर्धो जाग अर्थात् चार वकी वर्जिने तापमां मूके.

प्र०-७१—मैथुनसेवनमां केटला जीवोनो नाश थाय ?

उ०—मैथुनसेवनमां नवलाख गर्जज जीव, असंख्याता वैश्वद्विय-जीव तथा असंख्याता समूर्द्धिम मनुष्य जीवोनो नाश थाय ठे. श्री-संबोधप्रकरणमां जगवान् श्रीहरिऋद्रसूरीश्वरजी महाराज कहे ठे के—

“इत्थीण जोगिमज्जे, गन्भगया वेव हुंति नव लक्खा ।  
इको व दो व तिस्सि व, लक्खपुहुत्तं च षड्दोसं ॥ ७३ ॥  
इत्थीण जोगिमज्जे, इवंति वैश्वद्विया असंखा य ।  
उप्यज्जंति चरंति य, सम्मुच्छिम्मा तह असंखा ॥ ७४ ॥  
XXXXXXत्थीसंभोगे समगं, तेसि जीवाण हुंति उदवर्णं ।”

सारांशः—स्त्रीनी योनि मध्ये गर्जज जीव नव लाख उत्पन्न थाय. ते सर्व चवी जइ जवन्यथी एक, वे अथवा ऋण उल्लुष्टा पृथक्त्व (वेथी नव) उत्पन्न थाय. स्त्रीनी योनिनां विकलैश्विय जीवो असंख्याता तथा समूर्द्धिम जीवो पणं असंख्याता उपजे अने चवे. XXXXXस्त्री संज्ञोगे एक साथे ते सर्व जीवोनो नाश थाय.

प्र०-७२—श्री तीर्थकर महाराजाठ जे देशमां विचरे ते देशमां तेमना अतिशयथो पचवीश योजन सुधी रोग, बैर, मारो, ईति आदि न होय तो जगवान् श्री महाबोरस्वामी विचरतां वणिकगाममां मित्र

नामना राजाए उज्जितनो नाककान आदिना ठेद्वनरुप विरंवन-  
पूर्वक वध कर्यो तेनुं केम ?

उ०-भगवानना अतिशयथी सोपक्रम कर्म होय ते शांत थाय ठे  
पण निरुपक्रम कर्म होय ते श्रोपधथी असाध्य व्याधिनी जेम दूर थइ  
शकतां नथी. तेथी जगवान् श्रीमन्महात्रोरस्वामीना विद्यमानमां  
वणिकग्राममां मित्रनामा राजाए उज्जित वालकनो विरंवन पूर्वक  
वध कर्यो संजवे ठे. तथा तेवोज रीते पुरिमताल नगरमां महात्रल  
राजाए अजंगसेन चोरनो तथा मथुरा नगरीमां श्रीदामराजाए नंदी  
वर्धनकुमारनो अने साहंजणी नगरीमां उदायन राजाए पुरोहितपुत्र  
वृहस्पतिनो तेमना निरुपक्रम कर्मना उदयथी जगवान् श्री मन्महात्रो-  
रस्वामिनी विद्यमानतामां वध करेल ठे. श्री विपाकसूत्रना त्रीजा अध्व-  
यन्नी टीकामां श्रीअजयदेवसूरीश्वरजी महाराजे कहेल ठे के:-

“ ननु तीर्थकरा यत्र विहरंति तत्र देशे पंचविंशतेषु जनेनामादेशान्तर-  
रेण षड्दशानां मध्ये तीर्थकरातिशयात् न वैरादयोऽनर्था भवन्ति. यदाह-  
' पुच्छुप्पन्ना रोगा, पसमंति य ईहवेरमारीओ ।

अह्वुद्विभणानुद्धी, न होइ दुन्मिक्खडमरं च ॥१॥ '

तत्कथं श्री मन्महावीरे भगवति पुरिमताले नगरे व्यवस्थित एवा-  
भग्नसेनस्य पूर्ववर्णितो व्यतिकरः संपन्नः ? इति, अत्रोच्यते, सर्वमि-  
दमनर्थजातं प्राणिनां स्वकृतकर्मणः सकाशादुपजायते, कर्म च द्वेषा सोप-  
क्रमं ? निरुपक्रमं च ? तत्र यानि वैरादीनि सोपक्रमकर्मसंपाद्यानि तान्येव  
जिनातिशयादुपशास्व्यति सदौषघात साध्यव्याधिवत्, यानि तु निरुपक्रम-  
कर्मसंपाद्यानि तानि अवश्यं विपाकतो वेषानि नोपक्रमणकारणविषयाणि  
असाध्यव्याधिवत्, अत एव सर्वातिशयसम्पत्समन्वितानां जिनानामप्य-  
नुपशांतवैरभावा गोशालकादय उपसर्गान् विहितवन्तः ।'

सारांशः-श्री तीर्थकर महाराज जे देशमां विचरता होय ते देशमां  
पच्चीश योजन सुधी मतांतरे वार योजन सुधी श्रीतीर्थकर महारा-

जना अतिशयथी वैरादि अनर्थो न थाय. कहुं ठे के:-श्रीतीर्थकर-  
महाराजना अतिशयथी पूर्वे उत्पन्न थयेल रोगो प्रशांत थाय. ईति,  
वैर, मारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्जिहा, रुमर न थाय तो श्री महा-  
वीरस्वामी जगवान् पुरिमताल नगरमां विद्यमान ठतां अचमसेन  
चोरने पूर्वे वर्णन करेलो वृत्तांत प्राप्त केम थयो. अत्र उत्तर-जीवोने  
सर्व अनर्थ पोताना कर्मना वशथी थाय ठे. ते कर्मना वे जेद ठे  
एक सोपक्रम अने बीजो निरुपक्रम. तेमां जे वैर, रोग, ईति, मारी  
आदि सोपक्रम कर्मथी पेदा थयेल होय ते तीर्थकर महाराजना  
अतिशयथी ज्यां तेठ विचरे ते देशमां औषधथी साध्य रोगनी जेम  
शान्त थाय. जे उपद्रवादि निरुपक्रमकर्मथो पेदा थयेल होय ते अत्रश्य  
जोगववुंज पने पण औषधथी असाध्यव्याधिनी जेम शान्त न थाय  
ते कारणथीज सर्वातिशयसंपन्न जगवान् श्रीमहावीरस्वामी महाराजने  
पण अनुपशांत वैरवाळा गौशालादिके उपसर्गो कर्थां तेमज पुरिमताल  
नगरमां श्रीमहावीरस्वामिनी विद्यमानतामां महावल राजाप अजंग-  
सेन चोरनो विरुंवनापूर्वक वध कर्थां.

प्र०-७३-संविद्यपादिको शिष्य करे के न करे ?

उ०-केटलाक संविद्यपादिको शिष्य न करे, केटलाक उत्तम चा-  
रित्रवंत संविद्यपादिको शिष्य करे. जेम संविद्य पक्षीपणाने चारण  
करता जगवान् श्रीमान् हरिजद्रसूरीश्वरजी महाराजने शिष्यो हता.

शंका-आप श्रीमान् हरिजद्रसूरीश्वरजी महाराजने संविद्यपक्षी  
केम कहो छो ? शुं तेठर्थांने कोइ ग्रंथमां संविद्यपक्षी कहेल ठे. ?

समाधान:-न्यायाचार्य महोपाध्यायजी श्रीमान् यशोविजयजी महा  
राजे सानीत्रणसो गाथाना स्तवननी पंदरमी ढाळनो अगीचारमी  
गाथामां कहेल ठे के:-

( ४४ )      पूर्य-आचार्य-श्रीमद्विजयदानसूरीश्वर-विरचित-

“ सुविहितगच्छ किरियानो धोरी, श्री हरिभद्र कहाय ।

येह भाव घरतो ते कारण, मुज मन तेह सुहाय । ”

तथा वळी श्रीदानछात्रिशिकामां पण कहेल ठे के:-

हरिभद्रो ह्यदोऽभाणीयनः संविग्नपाक्षिकः ॥ १९ ॥

जावार्थ:-श्रीहरिभद्रसूरिजी संविग्नपाक्षिक ठे.

शंका-आ श्रुं आवा शासनधुरंधर त्रजावक सूरेश्वर जगदानने सं विग्नपाक्षिक कहेवा ए श्री उपाध्यायजी महाराजनुं केटहुं साहसिक-पणुं ? श्रुं कोइ अन्य महापुरुषे श्रीहरिभद्रसूरेश्वरजी महाराजने संविग्नपाक्षिक कहेल ठे ?

समाधान:-जोळा ! शतावधानी गीतार्थ शास्त्रज्ञशिरोमणि श्री महोपाध्यायजी महाराजनुं साहसिकपणुं कहेवुं ए तारुंकेवुं साहसिक-पणुं ? केवी बुद्धिमत्ता ? कदापि श्रुं तेळश्री आधार विना कहे ? नवांगी वृत्तिकार महाराज श्री अजयदेवसूरेश्वरजी महाराजना गुरु श्री जिनेश्वरसूरेश्वरजी महाराज श्री सत्ताबीशमा अष्टकनी टोकामां कहे ठे के:- ' संविग्नपाक्षिको ह्यसौ ' आ श्री हरिभद्रसूरिजी संविग्न-पाक्षिक हता.

शंका-श्री हरिभद्रसूरेश्वरजी महाराज स्वकृत संबोधप्रकरणमां छले ठे के:-

“ धत्तन्न नयि दिवस्वइ देह सुसाहूण बोहेइं । ”

जावार्थ:-पोताना शिष्य तरीके कोइने दीक्षा न आपे. प्रतिबोध करीने सुसाधु महात्मालने आपे. आ पाठमां संविग्नपाक्षिकने शिष्यनो निषेध स्पष्टपणे करेल ठे अने श्री हरिभद्रसूरेश्वरजी महाराजने हंसमहाहंसादि शिष्यो हता ए वात घणा ग्रंथोमां ठे तोपळी विरोध केम न आवे ?

समाधानः—वाह तारी अकल ? एकाही उंटनीना जेवीज तारी दर्शनशक्ति देखाय ठे अन्यथा प्रथम उक्त श्री संबोध प्रकरणमा शिष्यना निषेधनो पाठ ठे तेनी अगादीनीज गाथामां कहेल ठे के—  
' अहवा देइ दिक्खं भत्तहा । '

ज्ञावार्थः—अथवा पोताने माटे दीक्षा आपे आ पाठ तारा जोवामां केम न आव्यो ? हे जोळा ! कदाग्रह ठोमी श्री न्यायाचार्य महाराजे जे कहुं ठे ते सत्य ठे एम हवे मान के जेथी कल्याण थाय. 'दंसण-जट्टो जट्टो ।' शास्त्रमां कहेल ठे के जे दर्शनथो ब्रह्म थयो ते ब्रह्मज थयो. माटे सम्यक्त्वनी शुद्धिनी तो प्रथम जरूर ठे, महापुरुषोनी अवज्ञा करवार्थी सम्यक्त्वनो नाश थाय ठे. माटे अवज्ञा नहीं करतां तेमना वचन उपर विश्वास राखीश तोज हे कल्याणिन् ! कल्याण थशे. महा पुरुषोना वचन उपर विश्वास विना कल्याणनो बीजो मार्गज नथी.

शंका—श्री हरिजड सूरेश्वर जगवानने आप केवा प्रकारना सं-  
विन्न पादिक मानो ठे ? श्रीसंबोधप्रकरणमां कहुं ठे के—  
' ओसन्नचरणकरणोषि सुज्जह संविग्गपक्खरुई '

ज्ञावार्थः—चरणसीत्तरी तथा करणसीत्तरीमां शिथिल पण संविन्न पदनी रुचिवाळो शुरू थाय. शुं श्रीहरिजडसूरेश्वरजी महाराजने आप आ प्रकारना चारित्रविहित मानो ठे ?

समाधानः—जगवान् श्रीहरिजडसूरेश्वरजी महाराज चारित्रवि-  
हिन नहीं पण उत्तम प्रकारना चारित्रने पालनावाळा, पोतानी  
खसुताना मानवावाळा, ब्रव्य जीवोतुं कल्याण करनारा, शासनना  
धोरी अने जेमना समागमधी पण ब्रव्य जीवोतुं कल्याण थाय  
एवा हता. श्री संबोधप्रकरणमां कहुं ठे के—



“ संविष्णपक्वित्त्रयाणं पुण संगो भवभइकरो । ”

जावार्थः—संविष्णपाक्विकोनो संयोग पण जव्य जीवोना कख्याणनो करनारो होधे ठे. आ कखा प्रमाणे जव्योना कख्याण करनारा तथा-

“ तन्निसाप सुसाहुणोधि सपा ।

विहरंति तस्स भाणा, धारंति सरंति तवयणं । ”

जावार्थः—तेमनी निआप सारा उत्तम साधुलं पण सदा विचरे, तेमनी आइजाने मस्तक उपर धारण करे अने तेमना वचनोनुं सदा स्मरण करे. तेवा गुणी जगत्पूज्य सुविहितशिरोमणि गह्वाधिपति जगवान् श्री हरिचन्द्रसूरीश्वरजी शासनसंरक्षक हुता आ अमारुं संतव्य ठे.

शंका—आपना कखा प्रमाणे मानवाने कोइ स्पष्ट अक्षरो ठे ?

समाधानः—श्री न्यायाचार्य महाराजना प्रथम कहेल अक्षरोनुं शुं विस्मरण थयुं ? जुलं ‘ सुविहितगह्वा किरियानो धोरी ’ सुविहित-गह्वना तथा चारित्र संबंधिपांच समिति अने त्रण गुतिनुं पासन आदि किरियाना अध्येश्वरी हुता। एम स्पष्टपणे कहेल ठे. विशेष जाणवानी जेमनी इशा होय तेंलंय श्रीसंबोधप्रकरणं जोंतुं.

प्र०-३४-चणादिकनी जाजी साथे गोरसं मळें तो दिदल थाय या नहि ?

उ०-गवारफळी, मेथीनी जाजी तथा चणादिकनी जाजी काचा गोरसं साथे मळवार्थी दिदल थाय. श्रीसेनप्रश्नना बीजा उल्लासमां श्रीसेनसूरिजीमहाराजे कहेल ठे के:-

“ गोभारफळी चणकादिदिदलस्य भजिका च दिदलं स्यान्न वेति प्रसोत्रोचरं दिदलं भवति । ”

सारांश-गोभारफळी, चणा आदि दिदलनी जाजी पण दिदल थाय इति प्रश्न अत्र उत्तर दिदल (विदल) थाय.

प्र०-३५-बावळीआ तथा कुंमटीआनी साथे विदल थाय ?

उ७-बावळीया साधे विदल न थाय श्री श्रोसेनप्रश्नना प्रीजा उह्वासमां कहुं ठे के:-

“जंमि उ पीलिज्जंतंमि, इति गाथा यथाश्रुतार्थेन बम्बूलादीनां द्विदलत्वं नोत्थाप्यते प्रत्युत व्यवस्थाप्यते निःस्नेहत्वात्तेनैतत् द्विदलताव्यपोहायैतद्गाथामावार्थः प्रसाद्यः इति प्रश्नोऽप्रश्नोत्तरं यस्मिन् पीडयमाने सति स्नेहो न भवति दालिकरणे द्विदलतासंभवे सतीति शेषस्तद्यान्यादिकं पूर्वाचार्या द्विदलं ब्रुवन्ति द्विदले उत्पन्नेऽपि स्नेहयुतं द्विदलं न भवतीति, प्रस्तुतगाथा-मावार्थो व्यक्त एवास्ति । तेन बम्बूलादीनां मिजास्तु स्नेहसद्भावात्तेषां द्विदलताऽभावो बोध्य इति ॥ ३२८ ॥ ”

सारांशः-‘जंमि’ जेने पीलवामां, आ गाथानो अर्थ सांचळे उ ठे तेने अनुसारे बावळीयादिकोनुं द्विदल ( विदल ) पणुं निषेध थनुं नथो. पण स्नेहरहित होवार्थी उलटुं द्विदलपणुं स्थापन थाय ठे ते कारणथी द्विदलपणाना निषेधने अर्थे आ गाथानो अर्थ प्रसाद करवो. इति प्रश्न अत्र उत्तर-जेने पीलवार्थी तेख न नीकळे अने वेदाख आय ते धान्यने श्रीपूर्वाचार्य महाराजाठं द्विदल कहे ठे. वेदाखो आय पण जो तेख नीकळे तो ते धान्य विदलमां न गणाय. आ प्रमाणे ‘जंमि उ’ गाथानो अर्थ प्रगट ठे. आगाथाना अर्थानुसारे बावळीयानी मिजोमां तेख होवार्थी काचा गोरस साधे विदल न थाय. कुमटीयानी पण वे दाळो तो थाय ठे पण जो ते दाळने पीलवार्थी तेख नीकळे तो विदल न गणाय अने तेख न नीकळे तो विदल गणाय.

३०-३६-चक्रवर्ची फरीने चक्रवर्ची थाय तो केटला काखे थाय ?

उ८-चक्रोने फरीथी चक्रवर्चीपणुं प्राप्त थाय तो जघन्यथो साधिक सागरोपम काखे अने उस्कृष्टथी अर्थ पुद्गलपरावर्चन कात्रे थाय. श्री जगवती सूत्रना चारमा शतकना नवमा उदेशामां कहुं ठे के:-

“ नरदेवाणं पुच्छा, गोयमा । जह्मिणं । सातिरेगं सागरीवर्म उक्कोसेण  
जर्णतकालं भवद्दह पोग्गलपरियट्टं देस्सणं । ”

सारांशः—चक्रवर्ती फरीधी चक्रवर्तीपणुं पामे तो जघन्यथी साधि-  
कसागरोपम जेटखा काल पढी अने उत्कृष्टथी अनन्तकाल पटले देश  
ऊषा अर्धपुद्गलपरावर्चनकाल पढी पामे.

प्र०—४७—उपशम सम्यक्त्वनो उत्कृष्टकाल केटलो ?

उ०—उपशम सम्यक्त्वनो उत्कृष्टो काल अंतर्मुहूर्त्तनो ठे. श्रीश्राव-  
कप्रज्ञप्ति नामना ग्रंथनी टीकामां कहेल ठे के:-

“ अंतर्मुहूर्त्तमात्रं कालं तत एष्वं नियामकभावेन नियमेन मिथ्यात्व-  
प्राप्तेरेतावन्तमेव कालमिति किं औपशमिकसम्यक्त्वं लभते जीवः इति । ”

सारांशः—औपशमिक सम्यक्त्व नियमे करीने उत्कृष्टो अंतर्मुहूर्त्त  
काल रहे ते पढी नियामकना अज्ञावे मिथ्यात्वपणाने जीव प्राप्त थाय.

प्र०—४८—जघन्यथी केटखा आयुष्यवाळो मनुष्य नरकमां जाय ?

उ०—वेमासनी अंदरना आयुष्यवाळो नरकमां न जाय. श्री जग-  
वतीसूत्रना चोवीसमा शतकना पहेला उद्देशानी टीकामां कहेल ठे के:-

“ मासहर्यांतवैर्त्यायुर्नरो नरकं न याति । ”

सारांशः—वे मासनी अंदरनी आयुष्यवाळो मनुष्य नरकमां न जाय  
अर्थात् गर्जमां उत्पन्न थया पढी वे मासथी उपरना आयुष्यवाळो  
मनुष्य नारकीमां जह्म शके.

प्र०—४९—उपशम १ क्षायोपशम २ क्षायिक ३ सास्वादन ४ वेदक  
५ आ पांच सम्यक्त्वमां पौद्गलिक केटखां ?

उ०—उपशम सम्यक्त्व १ क्षायिक सम्यक्त्व २ अने सास्वादन ३  
आ त्रण सम्यक्त्वो अपौद्गलिक ठे. बाकीनां वे क्षायोपशम सम्यक्-  
त्व अने वेदकसम्यक्त्व पौद्गलिक जाणवां. श्री विचारपंचाशि-  
कामां कहुं ठे के:-

‘अंतर्मुहूर्तना आशुष्यवाळो मनुष्य नरकमां जाय.’ आ विषय-  
मां श्री जीवाजिगम सूत्रनी टीकामां टीकाकार महर्षि लखे ठे के:-

“ नैरइस्स णं भंते । अंतरं कालभो केषचिरं होह ? गोयमा ! जहणेणं  
अंतोसुहृत्तं ” व्याख्या “ नैरयिकस्य भदन्त ! अन्तरं नैरयिकात्परिभ्रष्टस्य  
भूयो नैरयिकत्वप्राप्तेरन्तरालं कालतः कियचिरं भवति कियत्कालं या-  
वद्भवतोत्यर्थः ? भगवानाह-गौतम ! जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तं कथमिति चेदुच्यते  
नरकाद्भुक्त्य गर्भजमनुष्यत्वेन उत्पद्य सर्वाभिः पर्यासिभिः पर्यासो विशिष्ट-  
संज्ञानोपेतो वैक्रियलब्धिमान् राज्याधाकांक्षी परचक्राद्युपद्रवमाकर्ण्य स्व-  
शक्तिप्रभावतः चतुरंगसैन्यं विक्रुवित्वा संप्राप्तयित्वा च महारौद्रध्यानोप-  
गतो गर्भस्थ एव कालं कृत्वा भूयो नरकेषूत्पद्यते ”

सारांशः-हे जगवन् ! नारकीने अंतर एटखे नरकनो जीव नरकमांथी  
नीकळी मनुष्य थइ पाठो नारकीपणे उत्पन्न केटखा काळे थाय ? उत्तर-  
हे गौतम ! जघन्यथी अंतर्मुहूर्त्त काळे केवीरीते ते कहे ठे-नारकी-  
मांथी नीकळी गर्भज मनुष्यपणे उत्पन्न थइ सर्व पर्यासिथी पर्यासो  
विशिष्ट संज्ञान युक्त वैक्रिय लब्धिमान् राज्यादिनी श्हावाळो परसे-  
न्यादिना उपद्रवने सांजळी पोतानी शक्तिथी चतुरंग सैन्यने विक्रुवीं  
संप्राप्त करी महारौद्रध्यानी गर्भमांज काळ करी नरकमां उत्पन्न थाय.

श्रीजीवाजिगमजीना आ पाठमां अंतर्मुहूर्त्तनी स्थितिवाळो  
मनुष्य नरकमां जाय एम स्पष्टपणे कहेल ठे. अने श्री जगवतीसू-  
त्रमां ‘ जहणेणं मासपुहुत्तं ’ कहेल ठे. आ बझे पाठो परस्पर विरोधी  
ठे तेथी एम संजवे ठे के-श्रीजीवाजिगमजीमां अंतर्मुहूर्त्तनी स्थि-  
तिवाळो मनुष्य नरकमां जाय ते कदाचित् कोश्क जीवनी अपेक्षाए  
अने श्री जगवतीजीमां वे मासनी उपरनी स्थितिवाळो नरकमां जाय  
ते बहुसतानी अपेक्षाए अथवा श्री जीवाजिगमसूत्रमां नरकमांथी  
नीकळी मनुष्यपणुं पामी फरीथी नरकमां जाय ते मनुष्यनुं जघन्य  
आशुष्य कोश्कनुं अंतर्मुहूर्त्तनुं होय अने श्री जगवतीजीमां नरकगति  
शिवाय गत्यन्तरथी आवेल मनुष्य ‘मासपुहुत्तं’ एटखे वे मासनी उपर  
स्थितिवाळो नरकमां जाय एम संजवे ठे. अथवा अन्यथा जेम सूत्रोना  
पाठोमां परस्पर विरोध न आवे तेम विद्वान् महर्षिंठए अर्थ करवो.



“ वम्मावम्मागासा जीवा कालो य साङ्गं चैव ।

सासायणववसामिर्यं अपुग्गलाहं च एमाहं ॥ २८ ॥ ”

सारांशः—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीव  
अने काल तथा द्वायिकसम्यक्त्व, सांस्वादनसम्यक्त्व अने उपशम  
सम्यक्त्व आटली वस्तु अपौद्गलिक ठे.

प्र०-७०—सात विकथाळं सांजळवामां आवे ठे ते कइ ?

उ०—स्त्रीकथा १, जक्तकथा २, देशकथा ३, राजकथा ४, सृष्टुकारु-  
णिकाकथा ५, दर्शनमेदिनीकथा ६ अने चारित्रजेदिनी ७ आ सात  
विकथाळं जाणवी. श्री गच्छाचारपयझानी टीकामां कहुं ठे केः—

“विरुद्ध कथा विकथा—स्त्रीकथा १, भक्तकथा २, देशकथा ३, राजकथा  
४, सृष्टुकारुणिका कथा ५, दर्शनमेदिनी कथा ६, चारित्रमेदिनी कथा ७,  
सप्तधा भाथाभक्तकथा. श्रोतृहृदयमार्दवजननात्सृष्टी सा चासौ पुत्रा-  
दिप्रधानत्वात् कारुण्यवती सृष्टुकारुणिका यथा—

हा पुत्र पुत्र हा वच्छ वच्छ मुहसि कहमणाहाऽहं ।

एवं क्लृणपलाघा जलंतजलणेऽत्र सा पशिया ॥ १५ ॥

दर्शनमेदिनी ज्ञानाद्यतिशयतः कुतीर्थिकनिन्द्वप्रशंसारूपा ६, यस्यां  
कथार्या कथ्यमानार्यां कृतचारित्रमनसा प्रतिपन्नव्रतस्यापि चारित्रं प्रति मेदे  
भवति ७ । ”

सारांशः—धर्मकथानी विरुद्ध कथा ते विकथा तेना सात जेदो  
स्त्रीकथा १, जक्तकथा २, देशकथा ३, राजकथा ४, हापुत्र ! हावत्त ! मने  
अनाथने तें केम मुको एवा करुण-विलाप करती जवळती अग्निमां  
पनी एवी पुत्रादिना विलापनी प्रधानताए करीने श्रोतृ जनोना हृदयमां  
कोमळ करुणताने पेदा करवा वाळी कथा ते सृष्टुकारुणिका नामा  
पांचमी विकथा ५, कुतीर्थिक निन्द्ववादिकना ज्ञानातिशय जोइ तेनी  
प्रशंसा करवा रुप कथा ते ठठी दर्शनजेदिनी विकथा ६ अने जे कथा

करतां चारित्र्य खेवाना परिणाम अथेव होय तेना परिणामनो अथवा चारित्र्य अंगीकार करेव होय ते चारित्र्यनो नाश थाय तेनुं नाम चारित्र्य जेदिनी सातमी विकथा जाणवी.

प्र०-७१-ब्रह्मव्रतना धारणहार महात्मा पुरुषो स्त्रीनुं आसन तथा शीखवती स्त्रीए पुरुषनुं आसन केटला काल त्याग करवुं जोइए ?

उ०-शीखवतधारी पुरुषोए स्त्री जे आसन उपर वेठेव होय ते आसन उपर स्त्रीना उठ्या पढी अंतर्मुहूर्त्त सुधी वेसवुं नहीं तथा शीखवतधारिणी स्त्रीए जे आसन उपर पुरुष वेठेव होय ते आसननो त्रण पहोर त्याग करवो. जगवान् श्री हरिचंद्रसूरिजी महाराजे संबोध प्रकरणमां कहेव ठे के:-

“ पुरिसासणंभि इत्थी, जामत्तिगं जाव नेपवेसे ।

इत्थीआसणंभि पुरिसो, अंतर्मुहूर्त्तं विवज्जिजा ॥ ८० ॥ ”

सारांश:-पुरुषना आसन उपर पुरुषना उठया पढी त्रण पहोर सुधी ब्रह्मचर्यवती स्त्री न वेसे, अने स्त्रीना आसन उपर पुरुष अंतर्मुहूर्त्त सुधी न वेसे.

प्र०-७२-केटली नरकमां परमाधार्मिककृत वेदना होय ?

उ०-परमाधार्मिककृत वेदना बाहुल्यताथी प्रथम त्रण नरकमां होय. श्रीसंग्रहणीसूत्रमां कहेव ठे के:-

“ तिसु परमाहम्मियरूपावि । ”

सारांश:-प्रथमनी त्रण नरकमां परमाधार्मिककृत वेदना होय. कलिकाल सर्वज्ञ जगवान् श्रीमद् हेमचंद्रसूरिकृत श्री रामायणमां कथुं ठे के:-श्रीरामचंद्रजी केवली जगवानना मुखथी 'अधुना नरके तुयें' सांप्रत कालमां श्री लक्ष्मणजी चोथो नरकमां ठे एम सांजळी श्रीसीतेंद्र पाठवा स्नेहथी श्री लक्ष्मणजीने खेवाने गया. त्यां

चोथी नरकमां परमाधार्मिके करेली वेदनानुं वर्णन ठे ते वर्णन आ प्रमाणे ठे:-

“ सिंहादिरूपैः विकृतै-स्तत्र शंबूकरावणौ ।

लक्ष्मणेन समं क्रुधौ, युध्यमानौ ददर्श सा ॥ २४६ ॥

नैव वो युध्यमानानां, दुःखं भावीति वादिनः ।

परमाधार्मिकाः क्रुधा, अग्निकुंड्रेषु तान्यधुः ॥ २४७ ॥”

सारांशः—सिंहादि नाना प्रकारना रूपोप करीने श्री लक्ष्मणजीनी साथे क्रोधायमान शंबूक तथा श्री रावणने युद्ध करता देखी क्रोधा-यमान परमाधार्मिको बोड्या. आ प्रमाणे युद्ध करवाथी तमने दुःख थशे नहीं. एम कही तेमने अग्निना कुंडमां नाख्या. आ पाठथी सिद्ध थाय ठे के कदाचित् चोथी नरकमां पण परमाधार्मिककृत वेदना होय.

प्र०-७३—काची केरी, काचां चीजनां आदिना कटका करेल होय ते वे घनी पठी प्रासुक थाय ?

उ०-काची केरी तथा काचां चीजनां आदिना कटका करेल होय ते प्रबल अग्नि अथवा प्रबल लुणना संस्कार विना वे घनी पठी प्रासुक न थाय. श्री सेनप्रश्नमां श्री सेनसूरी श्वरजी महाराजे कहुं ठे के:-

“ चिर्भटकप्रभृति सबीजवस्तु वह्नितापमन्तरेण केवलराजिकासंस्कारेणाचित्तं भवति नवेति प्रश्नोऽत्रोत्तरं आमचिर्भटकप्रभृत्तु सबीजं निर्बीजं वा प्रबलाम्लवणसंस्कारं विना प्रासुकं न भवतीति ॥ ११ ॥”

सारांशः—चिजनां आदि सबीज वस्तु अग्नि विना केवलराज्ञा संस्कारथी अचित्त थाय इति प्रश्न एनो उत्तर काचां चिजनां आदि सबीज अथवा निर्बीज प्रबल अग्नि अथवा प्रबल लवणना संस्कार विना प्रासुक न थाय. आ प्रमाणेज तात्पर्य चोथा उद्धासना ९५ मा



प्रश्नमां पण ठे तथा श्री हीरप्रश्नना चोथा प्रकाशमां जगद्गुरु श्री विजयहीरसूरीश्वरजी महाराजे कहुं ठे के:-

“ अपक्वफळं बीजरुपेणादनुषटिकावधानन्तरं प्रासुकं भवति न वा ? इति प्रश्नोऽत्रोत्तरं अग्निखवणादिप्रबलसंस्कारेण प्रासुकं भवति नान्यथेति ॥ १ ॥ ”

सारांशः-बीज काठेलां काचां फल वे घनी पठी प्रासुक थाय के नहीं ? इति प्रश्न, उत्तर-प्रबल अग्नि अथवा खवणआदि संस्कार विना प्रासुक थाय नहीं. श्री आरुविधिमां श्रीरत्नशेखरसूरीश्वरजी महाराजे पण कहुं ठे के:-

“ भरिचराजिकावघारादिमात्रसंस्कृतधिरुटिकादीनि सचित्तबीजानि सर्वपक्वफळानि च मिश्राणि ॥ ”

सारांशः-मरी, राइ आदिना वघार मात्रथी संस्कार करेल चिन्नकादि अने जेनी अंदर सचित्त बीज ठे एवां पाकां फलो मिश्र जाणवां. तथा श्रीखडुप्रवचनसारोकारमां पण कहुं ठे के:-

“ निःछल्ली निम्बियं, फलमामगमाहुत्तुवपरि ।

वियलं तद्धरमिस्सं, न कप्पइ सुसिण कपण विणा ॥ ९ ॥ ”

जावार्थः-त्वचा, ठाल तथा बीजरहित काचां फलो बेघनी पठी अग्निसंस्कार विना न कल्पे तथा ठाश उष्ण कर्या विना द्विदलनी साथे अर्घात् काची छाशनी साथे द्विदल न कल्पे. ॥

श्रीसेनप्रश्न, श्रीहीरप्रश्न, श्रीआरुविधि, श्रीखडुप्रवचनसारोकार आदि ग्रंथोना पाठथी काचा चिन्नकां काची केरी (आंवा) आदिना कटका वे घनी पठी अचित्त जोजीउने न कल्पे.

प्र-७४-चउविहार प्रत्याख्यानमां अनाहार वस्तु कल्पे ?

उ०-चउविहार प्रत्याख्यानमां खीषको, गळो, पळीठं, त्रीफळां, कडु, करियातुं आदि अणाहार वस्तु कारणे कल्पे, अणाहार वस्तु पण

कारण विना नित्य स्वादने अर्थे अथवा उदरपूर्तिने अर्थे लेवा न कल्पे. श्री आरूविधिमां उल्लेख ठे के:-

“ अह्वा जं शुक्लन्तो, कद्दमलवमाह् पक्वित्त्वद् कोट्टे ।  
सबो सो आहारो, ओसहमाह् पुणो भद्दो ॥ १ ॥  
जं वा धुक्खत्तस्स उ, संकसमाणस्स वेह् भासायं ।  
सबो सो आहारो, अकामनिदं च णाहारो ॥ २ ॥ ”

ज्ञावार्थः—कुधार्त्त मनुष्य कादव जेवो पण जे आहार पेट जरवाने माटे खाय ते सर्व आहारमां गणाय. पण श्रौषधादिकनी प्रजना अर्थात् साकर आदि श्रौषधादिक ते केटलोक आहारमां गणाय, अने सर्प करकेलाने माटी खावी इत्यादिक श्रौषध ते अणाहार गणाय. अथवा कुधार्त्त मनुष्यने जे पदार्थ कफवो कषायवो होय पण खातां स्वाद पेदा थाय ते सर्व आहार जाणवो. जे आहार खावानी इहा न थाय अनिष्ट होय जीह्वाने अरुचिकर होय ते अणाहार जाणवो.

प्र०-८५—सांप्रतकाजे पांच प्रकारना निर्गन्धमांथी केटला लाजे ?

उ०—सांप्रत काळे बकुश अने कुशील वे प्रकारना निर्गन्ध लाजे. श्रीसंबोधप्रकरणमां जगवान् श्रीहरिजज्ञसूरीश्वरजी महाराजे कहुं ठे के:-

“ सबजिणार्ण तित्थं, बकुसकुसीलेहिं बहप इत्थ ।

नवरं कसायकुसीला, पमत्तजहणो विसेसेण ॥३४६॥ ”

ज्ञावार्थः—सर्वे षट्ठे चोवीशे श्रीजिनेश्वर देवानुं तीर्थं १ बकुश २ कुशीलर्था वत्ते ठे. सांप्रतकालमां विशेष षट्ठो ठे के विशेषे करीने कषाय कुशील अने प्रमादी साधुओ होय, तथा श्रीपवचनसारोखा-रमां पण कहुं ठे के:-

“ समणा बवसकुसीला जा तित्थं ताव होहिंति ”

सारांशः—बकुश अने कुशील साधुठं श्रीतीर्थना अंत सुधी रहेशे.

प्र०-७६-साधु तथा साध्वीर्त धोएल वखोने तरुकामां सुकवे ?

उ०-साधुर्त तथा साध्वीर्त माटे वपरातां धोयेल वखोने तरुके सुकवधानो निषेध ठे, श्री श्रौर्धनिर्युक्ति सूत्रमां कथुं ठे के:-

“ बोधे पतावर्णं न करे परिभोगमपरिमोगे छायातव ”

सारांश:-धोएलां वख तरुके न सुकववां. ते धोयेल वख वे प्रका-  
रना एक वपरातां अने बीजां नहीं वपरातां. वपरातां धोयेल वख  
ढायामां सुकववां अपरिजोग्य वख ( नहीं वपरातां) तरुके सुकववां.

प्र०-७७-गाममां एक रात्रि अने नगरमां पांच रात्रि वसवानो  
कल्प दरेके दरेक साधु माटे ठे के कंइ विशेषता ठे ?

उ०-गाममां एक रात्रि अने नगरमां पांचरात्रि रद्देवानो कल्प  
प्रतिमाप्रतिपन्न साधुर्त माटे ठे. प्रशब्दव्याकरण नामा दशमा अंगसूत्रनी  
टीकामां जगवान् श्री अजयदेवसूरीश्वरजी महाराजाय कथुं ठे के:-

“ प्राप्ते प्राप्ते चैकरात्रं यावत् नगरे नगरे च पंचरात्रं ‘ वृद्धंजंते ’ त्ति  
विहरंज्येत्यर्थः, एतच्च भिक्षुप्रतिमाप्रतिपन्नसाधुपेक्षया सूत्रमवगन्तव्यम् ।”

जावार्थ:-गाममां एक रात्रि अने नगरमां पांच रात्रि विचरता आ  
कल्प जिद्धु यकिमा अंगीकार करेला साधु महाराजनी अपेक्षाए  
जाणवो. तथा श्रीउववाइ सूत्रनी टीकामां पण कहेल ठे के:-

“ गामे एगराइया नगरे पंचराइया-व्याख्या गामे एगराइय त्ति एक-  
रात्री वसमानतया अस्ति येषां ते एकरात्रिका एषं नगरे पंचरात्रिका इति  
एतच्च प्रतिमाकल्पिकानाभित्योक्तं अन्येषां मासकल्पविहारित्वादिति ।”

जावार्थ:-गाममां एक रात्रि रद्देवानो कल्प जेमनो ठे ते एक  
रात्रिका एवी रीते नगरमां पांच रात्रि रद्देवानो जेनो कल्प ठे ते  
पांच रात्रिका कहीये. गाममां एक रात्रि अने नगरमां पांच रात्रि  
वसवानुं जिद्धु प्रतिमा धारी एवा उत्तम साधु महाराजनेज आभित्य  
कथुं. जिद्धु प्रतिमाधारी साधु शिवायना बीजा स्वविर कल्पिक साधुर्त

तो मास कल्प विहारी होवाथी गाममां एक रात्रि अने नगरमां पांच रात्रिनो कल्पज नथी.

प्र०-७७-साधुठ नदी उतरी ईरियावही करे ?

उ०-नदी उतर्या बाद ते नदीना तीरेज उचा रही श्रीसाधु साध्वीए ईरियावही अवश्य करवी. श्रीठषनिर्युक्ति सूत्रमां कहेल ठे के:-

“ तीरत्येण, किं कायवं ति ? भन्नइ ‘ उस्सग्गो ’ कायोत्सर्गः कर्त्तव्यः, तत्र च कियन्त उच्छ्वसाः इत्याह-‘ पणविसाड ’ ति. पंचविंशतिकच्छासाश्चिन्तनीयाः । ”

जावार्थः-नदी उतरी तीरे आवाणे शुं करवुं ? उत्तर-कायोत्सर्ग करवो. केटला आसोआसनो काउस्सग्ग करवो पचवीस आसोआसनो-‘ चंहेसु निम्मलयरा ’ सुधीनो कायोत्सर्ग करवो अर्थात् ईरियावही करवी.

प्र०-७८-तीर्थकरदेवनी माता तीर्थकरदेवने जन्म आप्या पढी बीजा पुत्ररत्ननो प्रसव करे के नहि ?

उ०-श्रीमल्लिनाथजगवान्ने श्रीमल्लकुमार नामना नाना चाइ हता एथी सिरू थाय ठे के श्रीतीर्थकर देवनी माता तीर्थकर जगवाननो जन्म आप्या पढी पण बीजा पुत्ररत्ननो प्रसव करे. श्रीज्ञातासूत्र नामा ठट्टा अंगसूत्रना आठमा अध्ययनमां कहेल ठे के:-

“ मिहिलाए कुंभगस्स पुत्ते पभावतीए भत्तए मल्लीए भणुजायए मल्लदिन्नए नाम कुमारे । ”

सारांशः-मिथिला नामा नगरमां कुंभराजाना पुत्र प्रजावती राणीनो आत्मज श्रीमल्लिनाथ जगवाननो नानो चाइ मल्लदिन्न नामा कुमार हतो.

प्र०-७९-भावक आविकाओ चरवळो अने मुहपत्ति राखे ठे परन्तु ते अवश्य राखवां जोइए एवुं कोइ शास्त्रमां ठे ?

उ०-रजोहरण अने मुखवस्त्रिका साधु साध्वी अने श्रावक आ-  
विका आ चारेने आवश्यक राखवा जोश्य. श्रीअनुयोगद्वार सूत्रमां  
लोकोत्तर जाव आवश्यकना अधिकारमां आवता 'तदप्यिकरणे'  
आ पाठनी व्याख्यामां जगवान् श्रीहरिज्जसूरीश्वरजी महाराजे  
सखेल ठे के:-

“ तदपितकरणः, इह करणानि-रजोहरणमुखवस्त्रिकादीनि तस्मिन्  
आवश्यकके यथोचित्व्यापारनियोगेनार्पितानि न्यस्तानि करणानि येन सः ।”

ज्ञावार्थः-साधु साध्वी श्रावक आदिकाए यथोचित् व्यापारना  
नियोगे करीने आवश्यकना साधनभूत रजोहरण मुखवस्त्रिकादिनो  
व्यापार करेल ठे. आज प्रमाणे मखधारगच्छीय श्रीहेमचंद्रसूरीश्वरजी  
महाराजे पण कहेल ठे.

प्र०-ए१-वर्त्तमानमां विचरता परमात्मा श्रीसीमंभरस्वामी आदि  
वीस तीर्थकर देवोनां सांठन कयां कयां ठे अने ते परमउपकारी पुरु-  
षसिंहोनी जन्मनगरी विगेरेतुं वर्णन कया ग्रंथमां आवे ठे ?

उ०-जगवान् श्रीसीमंभरस्वामी आदि वीस विहरमान जिनेश्वर-  
देवोनां क्रमपूर्वक सांठन-१ वृषज, २ हस्ति, ३ मृग, ४ बांदर, ५  
सूर्य, ६ चंद्र, ७ सिंह, ८ हस्ति, ९ चंद्र, १० सूर्य, ११ शंख, १२  
वृषज, १३ कमळ, १४ कमळ, १५ चंद्र, १६ सूर्य, १७ वृषज, १८  
हस्ति, १९ चंद्र, अने २० मो स्वस्तिक आ ठे. ते उच्चम पुरुषोनी  
जन्मनगरी आदि एकवीस बोलोतुं वर्णन करनार 'श्रीविहरमान  
एक विंशति स्थानक' नामा ग्रंथमां कहेल ठे के:-

“वसहृगयहरिणकविरधिससिसिंहकरी य चंदभाणू य ।

संखो वसहो कमळो कमळो ससिखूरवसहो य ॥ १९ ॥

हृत्पी य चंदो सत्पिय ।”

सारांशः—१ श्रीसीमंघरस्वामिनेः वृषजनुं खंडनं; २ श्रीशुगंघरं स्वामिने हस्तिनुं खंडन, ३ श्रीबाहुस्वामिने हरियनुं खंडनं; ४ श्री सुबाहुस्वामिने कपिनुं खंडनं; ५ श्रीसुजांतप्रभुनेः सूर्यनुं खंडन, ६ श्रीस्वयंप्रभुजगवान्नेः खंडनुं खंडनं; ७ श्रीशुभंजाननजगवान्ने सिंहनुं खंडन, ८ श्रीअनंतवीर्यप्रभुने हस्तिनुं खंडनं; ९ श्रीसुरं प्रभुस्वामिने खंडनुं खंडनं; १० श्रीसुत्रिशाखप्रभुनेः सूर्यनुं खंडन, ११ श्रीवज्रधरस्वामिने शंखनुं खंडन, १२ श्री खंडान्तकप्रभुने वृषजनुं खंडन, १३ श्री खंडबाहुस्वामिने कमळनुं खंडन, १४ श्रीजुजंगस्वामिने कमळनुं खंडन, १५ श्री इश्वरजिनप्रभुने खंडनुं खंडन, १६ श्रीनेमिप्रभुस्वामिने सूर्यनुं खंडन; १७ श्रीवीरसेन जगवान्ने वृषजनुं खंडन; १८ श्रीमहोजय प्रभुने हस्तिनुं खंडन, १९ श्रीदेवयंश प्रभुने खंडनुं खंडन, २० श्री अजितवीर्यप्रभुने हस्तिनुं खंडन.

प्र०—ए०—प्रथम कैरसीमां आणखो आहारः शापी साधु साध्वी-  
उने केटला काळ कस्ये ?

उ०—प्रथम प्रहरेः आणखो आहारः पाणी सीधु साध्वीने प्रथं प्रहरं सुधीः कस्ये पण चोचा प्रहरे नें कस्ये. श्रीजगवंतीने नामा पांचमां अंगसूत्रना सातमा शतकना प्रथम उदेशांमां जगवान् श्रीसुर्वर्मा स्वामिजी पं फरमावेल ते केः—

“ जेण निर्गये वा निर्गयी वा फांलुपंसणिके अंसण जाव साहमं पढमाए पोरिसीए मडिगाहेत्ता पळिळमं पोरिसि उवापणावेहे रेत्ता आहारं आहारेह एस णं गोपमा । काळातिकेले पाणमोपणे । ११ ।

सारांशः—हे गौतम ! जे साधु अन्यत्र साध्वी प्रासुक कस्यनिक अज्ञान, पान; खादिम स्वादिम; रूप चतुर्विध; आहार पहेली शौचंभोमं

सावीने पश्चिमप्रौढी-बोयो पद्दोर प्राप्त, यथा पढी आहार करे तेनुं नाम कासातिक्रांत पान, जोजन कहीए.

प्र०-९३-श्री, जिनमंदिरमां, परमात्मानां, प्रतिमानां, दर्शन करतां केटलाक, भावको पोताना मस्तक उपरयी पाघनी विगेरे उतारे, हे ते शुं उचित ठे: ?

उ०-श्री जिनचैत्यमां श्री जिनदेवनां दर्शन करती वखते पाघनी उतारवी उचित, खागती, नथी, श्री विचारशक्त नामना, ग्रंथमां ते ग्रंथना कर्ता उपाध्याय श्रीसमयसुंदरजीए स्पष्ट खुलासो करेज ठे के:-

“ चैत्ये प्रविशद्भिः आद्यैः कद्रुकमतीयआद्यत् शिरोवेष्टनं नोत्तारणीयं यत् उद्घाटितमस्तकेऽपशङ्कनं लोकोर्निदा य स्यात् यत् प्रवचनसारोपरसूत्रसूत्रौ ८४ आद्याननाधिकारे मौलि-शिरोवेष्टनविशेषरूपामित्युक्तं तत्र मौलिशब्देन पाघनीति नोच्यते किन्तु कर्णयोर्बन्धनपूर्व शिरोवेष्टनं बुद्ध्यासा इति प्रसिद्धमिति पुनः तत्र तु ज्ञानिगम्यम् ॥ ८३ ॥”

सारांश-श्रीजिनमंदिरमां उघाना, मस्तके प्रवेश करवाधी अपशङ्कन तथा लोकोर्निदा थाय ते कारणयी कनवा मतिना-भाव-कोनी जेम भावकोए, माथा, उपरयी, पाघनी, उतारवी न जोइए, श्री प्रवचनसारोपर सूत्रनी, टीकामां ८४) आद्यानना, अधि-कारमां मौलि-शिरोवेष्टनरूप अर्थात् मौलि शब्दना अर्थ मस्तक उपर वीटिख वख कहेल ठे, त्यां मौलि शब्दे करीने पाघनी न कहीए किंतु जे कानबन्धन पूर्वक, शिरोवेष्टन जे मोकासा नामयो प्रसिद्ध ठे, अर्थात् जे जे, कान तथा पाघनी उपर खेस, वीटे ठे ते, श्रीजिन-मंदिरमां प्रवेश करतां न जोइए, तत्व, तो ज्ञानी जाणो.

प्र०-९४-त्रंभावटी (वर्त्तमान समयना खंजात) मां बीराजती श्रीस्वर्जनपार्श्वनाथस्वामिनी, मूर्त्ति, प्राचिन ठे, पम दंतकथायी

सांजळवामां आवे ठे तो ते कया जगवाननां शासनमां कोणे जरावी  
ठे ते विषेनो कोइ उल्लेख आपना जाणवामां ठे ?

उप-गइ चोवीशीमां १६ मा श्रीनमिनाथ जगवानना शास-  
नमां ३३३३ वर्षे अषारु नामा आवके श्रीस्तंजनपार्श्वनाथस्वामिनी  
मूर्ति जराव्यानो उल्लेख जोवामां आवे ठे. एक प्राचिन विद्वाने  
खर्युं ठे के:-

“ नमितीर्थकृतस्तीर्थे, वर्षे द्विकचतुष्टये ।

आषाढः आषाढो गोडोऽकारयत् प्रतिमाग्रयम् ॥ १ ॥

अर्थ श्लोकः पार्श्वविम्बपृष्ठेऽस्ति, गतचतुर्विंशतिकार्यां १६ नमितीर्थकर-  
वारके २२२२ वर्षे शंखेऽवरंस्तंमनकषारूपविषयं कारितम् ॥ ”

सारांशः-गइ चोवीशीमां अथेला सोलमा तीर्थपति श्रीनमि-  
नाथ स्वामिना शासनमां बावीसोने बावीस वर्षे गये गोक 'अषाढ'  
नामना आवके श्रीसंखेश्वर, श्रीस्तंजन अने श्रीचारुप'एम श्रीपार्श्व-  
नाथस्वामिनां त्रण विंबो करावेळ ठे. आ पाठमां जे श्लोक ठे ते  
श्रीपार्श्वनाथ-जगवाननी मूर्तिना पुंठे खलेळो ठे.

आ विषयमां श्री उपदेश सप्ततिकासां श्रीसोमधर्मगणी महाराजश्री  
खले ठे के:-

“ अज्ञायमावादिरमर्त्यनायक-श्रीरामकृष्णोरगपांडुपाविभिः ।

नानाविषयानकृताचैत्रिर्, पार्श्वप्रभुः पातु भवाद स देहिनाम् ॥१॥ ”

सारांशः-जेमनी आदि जाणवामां नथी अने इंद्रमहाराज, श्री  
रामचंद्रजी, श्रीकृष्णमहाराज नागपति अने जलपति आदि महान्  
आत्मार्जुप विविध स्थानोमां चिरकाल सुधी पूजित एवा श्रीपार्श्वनाथ  
जगवान् प्राणींनुं संसारथी रक्षण करे. आ श्लोकमां श्रीपार्श्वनाथ-  
स्वामिनी मूर्ति क्यारे जराववामां आवी ते जाणवामां नथी एम  
जाणववामां आव्युं ठे. हवे वळी बीजा आषार्योना मटे जणावे ठे के:-



॥ पाँचें श्रीकुंभनाथस्य, मम्मणव्यवहारिणा  
 पृष्टं मोक्षः कदा भावि, मम स्वाम्यपि सं जगौ ॥ ३६ ॥  
 तीर्थं श्रीपार्श्वनाथस्य, तत्र सिद्धिर्भविष्यति ।  
 ॥ श्रीशंकरदिर्भान्धी, ततोऽसाविति केचन ॥ ३७ ॥ ॥

॥ सारांशः—श्रीकुंभनाथस्वामिने मम्मणं नामनो व्यंवहारीष  
 पूंभुके हे जगवन् ? मांरो मोक्षे क्यारं थशे ? जगवाने ते व्यंवहारीने  
 उत्तर आप्यो के श्री पार्श्वनाथस्वामिना तीर्थमां तारो मोक्ष थशे.  
 ते प्रमाणे सांजळवाधी मम्मणं नामना व्यंवहारीष श्रीपार्श्वनाथस्वा-  
 मिनी मूर्ति जरावी मम केटळांक आचार्यो कहे ठे.

आ उपरना ग्रणे उल्लेखो जोतां श्रीस्तंजनपार्श्वनाथस्वामिनी  
 प्रतिमां घणीजं प्राचिनं हे. एते समजो शांकाय ठे. पण क्यारे अने  
 कोणे जरावी तेमो निर्णय तो धीज्ञानी महाराज जाणे.

॥ ३७—एव—श्री वसुजाती तथा श्री शांखिजंजली कश्चि गतिमां  
 गया ठे ?

उ०—श्री वसुजाती तथा श्री शांखिजंजली आचने महापुरो  
 धारिप्रथमनु आराधन करी सर्वार्थसिद्ध नामना विमानमां तेत्रीस  
 सागरोपमनी स्थितिवाळा देवो थया ठे. कळिकाळसर्वज्ञजंगवान्  
 श्रीहेमचंद्रसुरिजीविरचित श्रीयोगशास्त्रनां श्रीजि प्रकाशनां स्पष्ट  
 उल्लेख ठे के—

॥ सुत्यां तैत्तिरीयै सर्वावे—सिद्धसर्वे वक्ष्यतुः ।  
 ॥ तैत्तिरीयैर्वाथेतिहासैर्मांरैर्यमितायुषो ॥ २६ ॥ ॥

॥ सारांशः—श्रीशांखिजंजलीनीभातां जडां तथा श्रीश्रेणिकं महा-  
 राजा बंदन करिने पीताना स्थाने गया। पंढी श्रीशांखिजंजली तथा  
 श्रीवसुजाती चने महर्षि महाराठा काळ धर्म पामी सर्वार्थसिद्ध  
 विमानमां तेत्रीस सागरोपमनां आणुषंवाळा देवो थया,

प्र०-ए६-प्रमादी साधु आवश्यक आदि क्रियाना व्यवसरे तेनो परित्याग करी ध्यानादि करवा बेसे प शुं योग्य ठे ?

उ०-आवश्यक आदि क्रिया करवाना व्यवसरे तेनो त्याग करी ध्यानादि करवा बेसनार प्रमादी साधु मिथ्यादृष्टि जाणवो. श्री गुरुस्थानक्रमारोहमां कहेल ठे के:-

“ प्रमायावश्यकत्यागा-निश्चलं ध्यानमाभयेत् ।

योऽसौ नैवागमं जैनं, वेत्ति मिथ्यात्वमोहितः ॥ ३० ॥

तस्मादावश्यकैः कुर्यात्, प्राणदोषनिर्मुक्तनम् ।

यावन्नाप्नोति सद्धान-मप्रमत्तवृत्त्याभयम् ॥ ३१ ॥

सारांशः-जे प्रमादी साधु प्रतिक्रमण प्रतिवृत्त्यादि अवश्य करणीनो त्याग करी निश्चल ध्याननी आश्रय करे ते मिथ्यात्व-मोहनीयां कर्मना उदययी मोहित थयेल श्रीजिनेश्वर जगवतना आगमने जाणतोल नथी. ॥ ३० ॥ तेथी अप्रमत्त गुरुस्थानमां रहेलुं सद्धान थावत प्राप्त थाय नहि त्या सुधी प्रमादी साधु प्राप्त थयेल दोषां उदेन आवश्यक करीने करे ॥ ३१ ॥

प्र०-ए७-रात्रिजोजनमां अधिक दोष शां आधारे कहेवाय ठे ?

उ०-वनमालाप संमंजानी पाठां आववां माटे अन्य सधळा सोगनोने ठोकीने रात्रिजोजननाज सोगन खेवराव्या आ उपरथी रात्रिजोजनमां अधिक दोष सिद्ध थाय ठे. कलिकाळसर्पज्ञ जगवान् श्री हेमचंद्राचार्यरचित योगशास्त्रना त्रीजा प्रकाशमां उल्लेख ठे के:-

“ श्रूयते अन्यदोषां-ननादत्यैव संस्रमः ।

निशांमोर्जनशय्यै, कारितो वनमोळयां ॥ ६८ ॥ ”

सारांशः-रामायणमां सांजळीप ढीप के श्री रामचंद्रजी, श्री सधम-णजी अने श्रीसीताजी देशांतर जतां मार्गमां कुबेरनामा नगरमां

महीधर राजानी पुत्री वनमालाने श्री लक्ष्मणजी परखा पत्नी पोताने देशांतर गमन करवानुं होवाचो वनमालाने तेना पिताना घेर रहेवानुं श्री लक्ष्मणजीय कहेवाची वनमालाय पोताने खेवाने माटे फरीथी आववा सोगन खावानुं जणाव्युं, तेथी श्री लक्ष्मणजी प्राणातिपाता दिक् पापवाळाळनी जे गति थाय ते मारी थाय' इत्यादि सोगन खाता हुता तेनो निबेध करी रात्रिजोजनना पापना सोगन कराव्या ॥ ६७ ॥

प्र०-६७-श्री चारणमुनिवरों रात्रिना समये गमनागमन करे ?

उ०-रात्रिना समये महेश उपर सुतेखा ? नारद, २ वसु अने त्रीजो पर्वत आ त्रणने उदेशीने, गमन करता चारण मुनिवरोप एक नारदने स्वर्गगामी अने बीजा बेने नरकगामी कथा. आ वर्णन उपरची चारणमुनिवरोतुं रात्रिना समये पण गमनागमन सिद्ध थाय ठे. फळिकाळसर्वज्ञ जगवान् श्रीहेमचंद्रसूरोश्वरविरचित योगशास्त्रना बीजा प्रकाशमां उल्लेख ठे के:-

“ पार्श्वे क्षीरकदम्बस्य, गुरोः पर्वतका सुतः ।

राजपुत्रो वसुञ्चाग्रो, नारदश्चापठञ्जयः ॥ ४ ॥

सौघोपरि शयानेषु, तेषु पाठभ्रमांभिधि ।

“ चारणभ्रमणौ ब्योक्ति, यान्तावित्पूचतुर्मियः ॥ ५ ॥ ”

सारांश:-श्री क्षीरकदंबकनामा गुरुनी पासे तेमनो पुत्र पर्वत, राज-पुत्र वसुनामा तथा नारदजी आ त्रण जणता हुता. ते त्रणे त्रणवाना थाकची रात्रिने विषे महेशनी उपर सुता हुता आ अवसरे आकाशमां गमन करता चारण मुनि महाराजाळ सुतेखा त्रणने देखी परस्पर बोख्या के आ त्रणमांथी एक स्वर्गमां जशे अने बे-नरकमां जशे.

आ प्रमाणे श्री रामायणमां तथा श्री चावप्रजसूरिजी महाराज कृत श्री पार्श्वनाथचरित्रमां पण वर्णन ठे.

प्र०-एए-अचिन्तरज उद्गावणीनो कायोत्सर्ग क्यारे करवो ?

उ०-अचिन्तरज उद्गावणीनो कायोत्सर्ग वर्षमां एक वखतज चैत्र मासमां शुक्ल एकादशीथी आरंजीने शुक्लपूर्णिमा सुधीमां निरंतर त्रण दिवस करवो, अर्थात् शुदी ११-१२ अने १३ एम त्रण दिवस करे. अर्गाआरसना रोज भूली जाय तो शुदी १२-१३ अने १४ आ प्रमाणे त्रण दिवस करे अने कदाच बारसना पण चूखथी रही जाय तो तेरस, चौदश अने पूर्णिमा आ त्रण दिवसोमां पण करे. श्री आ-वश्यकसूत्रना चोथा अध्ययननी निर्युक्तिमां श्रुतकेवली जगवान श्री जडवाहुस्वामीजीए कहेल ठे के:-

“सामाविय तिग्नि दिणा, सुगिम्हए निक्खिर्वन्ति जह जोग ।

तो तंमि पढंतेमी, करंति संवच्छरञ्जायं ॥ १३३१ ॥”

सारांश:-चैत्र मासमां त्रण दिवसजो कायोत्सर्ग करवामां आवे तो एक वर्ष सुधी स्वाप्नाविक अचिन्तरज पदे तो स्वाध्याय चाय अर्थात् स्वाप्नाविक अचित्त रज पदे तेथी स्वाध्यायने बाधक न आवे. तथा श्रीव्यवहारसूत्रना सातमा उद्देशानी टीकामां पूज्यपाद श्री मलय-गिरिजी महाराज पण लखे ठे के:-

अश्वकालप्रारंभे चैत्रशुक्लपक्षे इत्यर्थः दशम्याः परतो यावत्पूर्णिमासी अत्रान्तरे निरंतरं त्रिणि दिनानि यावत् यदि योगं निक्षिपंति एकादश्यादिषु त्रयोदशीपर्यन्तेषु यदि वा द्वादश्यादिषु चतुर्दशीपर्यन्तेषु यदि वा त्रयो-दश्यादिषु पूर्णिमासीपर्यन्तेषु अचिन्तरजोअबहेडनार्थं कायोत्सर्गं कुर्वन्ति तदा तस्मिन् पांशुवर्षे रजोवद्घाते वा स्वामाविके पतति संवत्सरं यावत्स्वाध्यायकं कुर्वतीतरया नेति ॥

सारांश:-शुष्मकालना प्रारंभमां अर्थात् चैत्र-मासना शुक्ल पक्षमां दशमीथी पढी एकादशीथी पुनम सुधीमां निरंतर त्रण दिवस अर्थात् एकादशीथी त्रयोदशी सुधी अथवा बारसथी चौदस-सुधी अथवा

तेरसथी पुनम सुधीमां अचिन्तरजः उद्गाहनार्थः कायोत्सर्गः करे तो स्वाभाविक अचिन्तरज पके तो पण एक वर्ष सुधी-स्वाध्याय भई शके. पण जो सचित्त रज पके तो अस्वाध्यायज थाय. :-

अ-१००-सुला, आंघळा आदिने दीक्षा दर्श शकाय के नहि ?

उ०-सुला, आंघळा आदि विक्रमअंगवाळांतने दीक्षा आपी न शकाय.

श्री पंचकल्पजाप्यमां जगवान् श्रीसंघदासगणी क्षमाभ्रमण महारजे कहेस ते के:-

“ अंधस्त ण कल्पती विक्खलाः ” × × × × × × ×

“ करपादकलनासियद्धविट्ठणा य वामणा चडमा । ,

खुजा पथुळ कुंटा, काणा पए अदिकखेया ॥ १ ॥ ”

सारांशः-आंघळाने दीक्षा आपवी न कल्पे × × × × × हाथ, पग, कान, नाक अने हाठ रहित होय, वामन होय, वनज होय, कुबको होय, पांगळो होय, कुंटमुंट होय अने काणा होय ए दीक्षा देवाने योग्य नथी.

अ०-१०१-वन, उंबर आदि वृक्षोनां फळोने. शा कारणे अजक्य-गणवामां थावे ते ?

उ०-वन, उंबर आदि वृक्षोनां फळो अनेक त्रसजीवोशी जरपूर होवाने छीथे ते फळोने अजक्य-समजवां. श्रीयोगशास्त्रना श्रीजा प्रकाशमां कलिकालसर्वज्ञजगवान् श्री हेमचंद्रसूरीश्वरजी महाराजा कहेते के:-

“ उडुंबरवदप्लक्ष-काकोडुम्बरशास्त्रिनाम् ।

पिप्लस्य च नामीयात्, फलं कुमिकुलाकुलम् ॥ ४२

अप्रान्नुषन्नान्यमस्य-मपि क्षामो बुभुक्षया । .

न भक्षयति पुण्यात्मा, पंचोडुम्बरजं फलम् ॥ ४३ ॥ ”

सारांशः-उडुंबर १ वन २, पीपळो ३ काको डुंबर ४ पिपल ५ वृक्षनां क्षमि जीवांना समूहथी व्यास फळने खावां नही ॥ ४३ ॥ खुखथी

दुर्बल शरीर धयेल होय अने अन्य ऋद्धय प्रोजन न मळतुं होय तो पण पुण्यात्मा पांच उडुंबरना फळने खाय नही ॥ ४३ ॥

प्र०-१०२-इन्द्ररस-शेखरीनो रस तेनो काळ केटखो ?

उ०-इन्द्ररसनो काळ बे पहोरनो कहेखो ठे. श्रीलघुप्रवचनसारोद्धार नामना ग्रन्थमां ते ग्रन्थना कर्त्ता मलधारगच्छनायक श्रीचंद्रसूरिजी महाराजे उल्लेख करेल ठे के:-

“ उच्छुरसे सोवीरे जामदुर्ग ”

सारांश:-इन्द्र-शेखरीनो रस तथा सोवीर-कांजीना पाणीनो काळ बे पहोरनो जाणवो.

प्र०-१०३-श्रीअजितशांतिस्तोत्रना कर्त्ता श्रीनंदीषेण मुनीश्वर क्यारे थया ?

उ०-वावीशमा तीर्थपति श्रीनेमनाथस्वामिनी आह्वाथी श्रीशत्रुंजयतीर्थनी यात्रा माटे पधारेल श्रीनंदीषेण मुनीश्वरे श्रीशत्रुंजयतीर्थ उपर श्रीअजितशांतिस्तोत्रनी रचना करी. श्रीशत्रुंजयकल्पमांते कल्पना कर्त्ता आचार्य श्रीधर्मघोषसूरीश्वरजी महाराजा कहे ठे के:-

“ नेमिषयणेण जत्ता-गण लहि नंदिसेणसुणिवहणा ।

विद्विअ अजितसंतिथओ, जयल तयं पुंडरियतित्थं ॥ १९ ॥ ”

ज्ञावार्थ:-श्रीनेमिनाथ जगवान्नी आह्वाथी पर्वतराजनी यात्राने अर्थे आवेला श्रीनंदीषेण नामा-गणधर महाराजाए जे तीर्थोपरी अजितशांति नामा स्तवननी रचना करी ते पुंरुरिक तीर्थाधिराज जयवतुं वत्तो ॥ १९ ॥ तथा श्रीजिनप्रजसूरि कृत विविध तीर्थकल्पमां पण कथं ठे के:-

“ श्रीनेमिषयनाद्यात्रा-गतः सर्वकजावहम् ।

नंदिषेणगणेशोञ्जा-जितशान्तिस्तवं व्यधात् ॥ ३२ ॥ ”

सारांशः—श्रीनेमिनाथ जगवाननी आह्लाथी श्री शत्रुंजय महा-  
तीर्थनी यात्राने अर्थे आवेला श्री नंदीषेण नामा गणधर जगवाने  
सर्वरोगने नाशकरनार श्री अजितशांतिस्तवनी रचना करी. ॥ ३२ ॥

प्र०-१०४-काची ढाशनी साथे छिदल जेम अजदय गणाय ठे  
तेबीज रीतिप कोइ बीजी वस्तु पण अजदय ठे के नहि ?

उ०-काची ढाशनी साथे छिदलनी माफकज कुसुंजा ( जेनो  
रंग बने ठ ते कुसुंजा)नुं शाक पण अजदय ठे. श्री संसक्तनिर्युक्तिमां  
श्रुतकेवली जगवान् श्रीजडवाहुस्वामीजी महाराजा कहे ठे के:-

“ आमे तके सोढ, कुसुंमसाग अकपियं निचं ।

वालसरिसा अपेगा, सप्पा य समुच्छिमा तत्थ ॥ ३ ॥ ”

सारांशः—काची ढाशनी साथे कुसुंजानुं शाक नित्य अकल्पनिक  
ठे. कारण तेमां वाल सहश अनेक समूर्द्धिम सर्पो पेदा घाय ठे. ॥३॥

प्र०-१०५-साधु साध्वीठण धर्मानुष्ठान कइ दिशामां करवुं जोइप ?

उ०-साधु साध्वीठण दीक्षा, प्रतिक्रमण आदि धर्मानुष्ठान पूर्व  
दिशा अथवा उत्तर दिशामा मुख करीने करवुं जोइप. श्री स्थानांग  
नामना त्रीजा अंगसूत्रना बीजा स्थानना पहेला उदेशामां कइ ठे के:-

“ दो दिसामा अभिनिश्च कपति निरगथाणं वा निगंधोणं वा पवा-  
चित्तप पाइजं चैव उदिगं चैव, एवं भुंडावित्तर सिक्खावित्तप लवहावित्तप  
संभुंजित्तप संवसित्तप सज्झार्थं उदिसित्तप सज्झार्थं समुदिसित्तप सज्झा-  
यमणुजाणित्तप आलोहत्तप पडिक्कमित्तप निदित्तप गरिहित्तप विउदित्तप  
विसाहित्तप अकरणयाप अहुदित्तप अहारिहंपायकिञ्च सं तवोक्कमं पडि-  
वज्जित्तप ॥ ”

सारांशः—साधुठने अथवा साध्वीठने पूर्व दिशा अथवा उत्तर  
दिशाना सम्मुख मुख राखीने दोक्षा आपवाने कल्पे. लोच करवाने १,  
ग्रहणशिक्षा तथा आलेवनशिक्षा ग्रहण करवाने २, महाब्रह्मो आ-

रोपण करवाने ३, जोजनमंढलीमां स्थापन करवाने ४, संधारामंढ-  
लीमां स्थापन करवाने ५, योगविधिना क्रमे करीने अंगादिनो उद्देश  
करवाने ६, समुद्देश करवाने ७, अंगादिनी अनुज्ञा करवाने ८, आ-  
लोचना अंगीकार करवाने ९, प्रतिक्रमण करवाने १०, अतिचारोनी  
निंदा करवाने ११, श्री गुरु महाराजनी समक्ष अतिचारोनी गर्हा  
करवाने १२, अतिचारानुबंधने विच्छेद करवाने १३, अतिचार पंकथी  
मलीन आत्माने निर्मल करवाने १४, फरीथी नहीं करुं ए प्रमाणे  
अंगीकार करवाने १५, यथायोग्य पायश्चित्त तपोकर्म अंगीकार  
करवाने १६ आ दरेक कार्य पूर्व अथवा उत्तर दिशा सन्मुख मुख  
राखीने करवाने साधु साध्वीर्जने कल्पे पण अन्य दिशांमां मुख  
राखीने न कल्पे.

प्र०-१०६-श्रीजिनेश्वर जगवानना बिंबना ललाटमां सुवर्णादिक  
तिलक चक्राववामां आवे ठे ते प्रवृत्ति आधुनिक ठे के प्राचिन ठे ?

उ०-श्रीजिनेश्वर देवना ललाट स्थळमां सुवर्णादि तिलक चक्रा-  
ववानी प्रवृत्ति अतिप्राचिन ठे. श्रीदवदंतीए पाठला ठा जवमां  
संगर नामना गाममां मम्मण नामना राजानो वीरमती नामनी राणी  
श्रीअष्टापद पर्वत उपर चोवीशे प्रजुने रत्नजमित सुवर्णमय तिलक  
चक्रावी आयुष्य पूर्ण थये काळधर्म पामी देवलोकमां देवीपणे उत्पन्न  
थइ त्यांची चवी भरवारुणी थइ त्यां अंतमां चारित्र्युं परिपालन करी  
शुरू लेश्यामां काळ धर्म पामी चोथा जवमां युगलिणी थइ पांचमा  
जवे देवलोकमां देवीपणे उत्पन्न थइ त्यांची चवी विदर्जदेशमां  
कुंकिनपुर नामना नगरना जीमरथ राजानो पुष्पदंती नामनी राणीनी  
कुंकीची व्यतिपात प्रमुख कुयोगोथी अदूषित समयमां श्रीजिनेश्वर  
देवने पूर्व जवमां तिलक चक्राव्यां तेना पुन्यथी जाल स्थळमां



सूर्य समान प्रकाशवाळा स्वाज्ञाविक तिलकयो त्रिचूषित पुत्रीपणे उत्पन्न अइजेनुं नाम 'द्वदंती' राखवामां आर्व्युं. सर्वतंत्रस्वतंत्र जगवान् श्रीहेमचंद्रसूरिजी महाराजा आठमा पर्वना त्रीजा सर्गमां लखे ठे के:-

“ उपरि न्यस्तरत्नानि, सुवर्णतिलकानि सा ।

चतुर्विंशतिमहैर्दृम्यः, कारयामास भक्तिभाक् ॥ २३७ ॥

अन्येषुः सपरिवारा, गत्वाष्टापदसूर्वनि ।

सा स्नात्रपूर्वमानसै, चतुर्विंशतिमहैताम् ॥ २३८ ॥

तासामहैत्यतिमानां, ललाटेषु न्यवत्त च ।

श्रीबल्लोः कुसुमानीव, हैमानि तिलकानि सा ॥ २३९ ॥ ”

सारांशः-ज्ञकिवाळी श्रीवीरमतीए चोवीशे श्रीअर्हत जगवान्ने अर्थे रत्नो उपर जहेसां सुवर्णनां तिलको कराव्यां. अन्यदा अष्टापद पर्वतनी उपर परिवार सहित जहने ते श्री वीरमतीए चोवीशे श्रीअर्हित जगवान्नी स्नात्र पूर्वक पूजा करी. ते अर्हत जगवान्नी प्रतिमाळना ललाटमां रत्नजकित सुवर्णना तिलको लक्ष्मीवेलीना पुष्पनी जेम स्थापन कर्या.

आ पाठयी श्रीजिनेश्वरदेवना ललाटमांसुवर्णादिकनां तिलक चक्राववानी प्रवृत्ति अति प्राचिन सिद्ध थाय ठे.

प्र०-१०७-साध्वीजी पुरुषोनी सजामां श्रीकरूपसूत्रनुं व्याख्यान करे ?

उ०-साध्वीने करूपसूत्र सजामां वाचवानो सर्वथा निषेध ठे. श्री करूपसूत्रनी टीकामां महोपाध्यायजी श्रीविनयविजयजी महाराजे लखेल ठे के:-

“ राज्ञो विहितकालग्रहणादिविधिना साधूनां वाचनं श्रवणं च साध्वीनां निशायचूष्यांश्चुक्तविधिना दिवापि तथा श्रीवीरनिर्वाणादशीत्यधिकनवशत ९८० वर्षातिक्रमे मतांतरेण च त्रिनवतियुतनवशत ९९३ वर्षातिक्रमे ध्रुवसेनचपस्य पुत्रभरणार्त्तस्य समाधिमाघातुमानंदपुरे समा-

समक्षं समहोत्सवं श्रीकल्पसूत्रं वाचयितुमारब्धं ततः प्रभृति चतुर्विधोऽपि संघः श्रवणेऽधिकारी वाचने तु विहितयोगानुष्ठानः साधुरेव ॥ ”

सारांशः—रात्रिमां करेख कालग्रहणनी विधिथी श्रीकल्पसूत्रने वांचवाना अधिकारी तो साधु महाराजज अने श्री निशीथचूर्णिमां कथन करेली विधिथी साध्वीठं दिवसमां पण सांजळवाने अधिकारी ठे. तथा जगवान् श्रीमहावीरस्वामिना मोहा पठी ९७७ वर्षे मतां-तरे ९९३ वर्षे पुत्रमरणथी दुःखित ध्रुवसेन राजाने समाधि करवाने वरुनगरमां सजा सम ह्म महोत्सव पूर्वक श्रीकल्पसूत्रवांचवानो आरंज कयो ते दिवसथी श्रीचतुर्विध संघ पण सांजळवाने अधिकारी वांचवाने तो श्रीकल्पसूत्रना योगोद्बहन करेख साधु महाराजज अधिकारी ठे. अर्थात् साध्वी श्रीकल्पसूत्र सजामां वांचवाने अधिकारी नथीज. तथा श्री कल्पसूत्रनी कीरणावली नामनी टीकामां श्री धर्मसागरजी महोपाध्यायजीए पण कथन करेख ठे केः—

“ वांचनायां श्रवणे च केऽधिकारिण इत्याकाङ्क्षायां मुख्यतः साधवाः साध्व्यश्चाधिकारिणः, तत्रापि कालतो राज्ञौ कृतोद्देशसमुद्देशादियोगानुष्ठानो वाचनोचितो वाचयति, तदितरे तु शृण्वन्ति, साध्वीश्रावणादि कारणे पुनर्निशीथचूर्णयांयुक्तविधिना दिवापि तयोरधिकारः । सम्प्रति तु श्रीवीरनिर्वाणादशीत्यधिकनवशत ९८० वर्षातिक्रमे क्वचिच्च द्विनवतिनवशत ९९३ वर्षातिक्रमे ध्रुवसेनचूपस्य पुत्रमरणार्त्तस्य समाधिमाघातुमानन्दपुरे समासमक्षं समहोत्सवं श्रीकल्पसूत्रं वाचयितुमारब्धम्, अतः प्रभृति चतुर्विधसङ्घोप्यधिकारी श्रवणे, वांचनायां तूकलक्षणा साधुरेवेति”

सारांशः—वांचवाने अने सांजळवाने अधिकारी कोण ? ए जाणवानी इहामां मुख्यताथी साधुठं अने साध्वीठं अधिकारी, तेमां पण काळथी रात्रिप उद्देश समुद्देशादि योगानुष्ठान करेख वांचवाने योग्य साधु वांचे अने बीजाठं सांजळे. साध्वीने संजळाववाना का-

रणे श्रीनिशीथचूर्णिमां कहेल विधिची दिवसमां पण तेमनो साधु साध्वीठनो (साधुठने वांचवानो अने साध्वीठने सांजळवानो) अधिकार ठे. सांप्रतकाळे तो श्रीवीरभगवान्ना निर्वाणची एण्ठ वर्षे कोइक पुस्तकमां एण्ठ वर्षे पुत्रना मरणची दुःखित भ्रुवसेन राजाने समाधि करवाने आनंदपुर (वरुनगर) मां सजा समद महोत्सव पूर्वक श्रीकल्पसूत्र वांचवानो आरंभ कर्यो ते दिवसथो छड्ने श्रीचतुर्विध संघ पण सांजळवाने अधिकारी ठे. वांचवाने तो प्रथम कहेल लक्षण (योगानुष्ठान) वाळो साधुज अधिकारी ठे.

आपे आपना गह्वनाज पूर्व पुरुषोना करेखा प्रथोना आधारे साध्वीने सजामां श्रीकल्पसूत्र वांचवानो निषेध दर्शाव्यो. पण अन्य गह्वना करेखा कोइ प्रथमां वर्णन ठे ?

साध्वी सजामां श्रीकल्पसूत्र न वांचे एम खरतर गह्वने मान्य श्री समयसुंदरजी उपाध्याये पण पोताना करेखा समाचारी शतकनामा ग्रंथना पांचमा प्रकाशमां उल्लेख करेख ठे के:-

“ ननु साध्वीभिर्दशाश्रुतस्कंधादिडेद्व्रया वाच्यन्ते न वा ? उच्यते वाच्यन्ते स्वत एव परं न समाप्रबन्धेन निषिद्धत्वात् स्वतो वाचनं तु संगतिमंगति यतस्तत्तपोवहनं तासां निर्दिष्टमस्ति, अन्यथा तत्तपोवहनमनर्थकं स्यात् अपि च अत्रेसि पवेयणीयमिति ता न भ्रणन्ति अत एव स्वयं वाच्यते न वाचना अनुज्ञाता तासाम् । इति साध्वीनां स्वतः कल्पसूत्रवाचनम् इति ॥ ८९ ॥ ”

सारांश:-दशाश्रुतस्कंधादि डेद शास्त्रो साध्वीठ वांचे के नही ? उत्तरमां जाणवुं के स्वयं पोते वांचेपण निषेध होवाथी सजामां वांचे नहि. साध्वीठने श्रीदशाश्रुतस्कंधादिशास्त्रोना योगोद्वहन करवानुं शास्त्रमां कहेल ठे तेथी स्वयं पोताने वांचवाने योग्य लागे ठे. स्वयं जो वांची न शके तो तेना योग निरर्थक थाय, तथा ‘ अत्रेसि

पवेयषोथं ' आ पाठ साध्वीं जणे नहीं आ कारणधोज तेमने सजामां वांचवानी आहा नथी स्वयं वांचे. आ हेतुथो श्री कल्पसूत्र साध्वींने स्वयं वाचवुं पण सजामां वांचवुं नहिं इति ॥ ८८ ॥

प्रश्न—साध्वी सजामां ज्यारे कल्पसूत्र वांचे नहिं त्यारे अन्य आचारांगादि शास्त्रोनुं व्याख्यान पुरुषोनी सजामां करी शके ?

उत्तर—साध्वी पुरुषोनी सजामां व्याख्यान न करी शके. सजामां कहेवार्थी स्त्रीनी सजामां साध्वीप कल्पसूत्र न वांचवुं अर्थात् अन्य आचारांगादि शास्त्रो वांचवां.

पुरुषनी सन्मुख तो साध्वीने व्याख्यान वांचवानो सर्वथा निषेधज ठे. जो साध्वी पुरुषोनी सन्मुख व्याख्यान करे तो वारंवार तेमना मुख सामुं जोवुं परे तेमने उद्देशीनेज कहेवामां आवे ते ब्रह्मचर्यने धारण करनारी साध्वीने योग्य संजवतुं नथी. तथा सर्व गह्वोने मान्य १४०० ग्रंथोना रचनार जगवान् श्री हरिज्जडसूरीश्वरजी महाराजे श्रीसंबोधप्रकरणमां स्पष्टपणे उल्लेख करेल ठे के:-

“ केवलधीर्णं पुरवो, वक्त्राणं पुरिसभग्नो भजा ।

कुर्वति जल्प मेरा, नदपेदकसंनिहा जाण ॥ ७२ ॥ ”

सारांश:-एकली स्त्रींने आगळ साधु व्याख्यान करे अने पुरुषनी अगाकी साध्वी व्याख्यान जे गह्वमां करे ते गह्वनी मर्यादा नाटकीयाना टोळा जेवी जाणवी.

प्र०-१०८-अपुनर्बंधक तथा सकृत्बंधकमां जेद केटलो ?

उ०-जे जीव यथाप्रवृत्तिकरणे करीने मोहनीय कर्मनी उत्कृष्ट स्थितिनो क्षय करीं ग्रंथीदेशने प्राप्त थयेल ठे हवे फरीची उत्कृष्ट मोहनीय कर्मनी स्थिति वांचवानो. नथी ते अपुनर्बंधक अने जे

जीव मोहनीय कर्मनी उत्कृष्ट स्थितिनो ह्य करो ग्रंथीदेशने प्राप्त थया पढी पण फरीथी एक बखत मोहनीय कर्मनी उत्कृष्ट स्थितिनो बंध करशे ते सकृत्बंधक कह्दीये. छितीय पंचाशकनी टोकामां जग-वान् श्री अजयदेवसूरीश्वरजी महाराजे कहेल ठे के:-

“थो यथा प्रवृत्तिकरणेन ग्रंथिप्रवेशमागतोऽभिन्नग्रंथिः सकृदेवोत्कृष्टां सा-  
गरोपमकोटीकोटीसप्ततिलक्षणां स्थितिं भन्त्यत्यसौ सकृद्वन्धक उच्यते ।  
यस्तु तां तथैव क्षपयन् ग्रन्थिप्रवेशमागतः पुनर्न तां भन्त्यति मेत्यति च  
ग्रन्थि सौऽपुनर्वन्धक उच्यते । ”

जे जीव यथाप्रवृत्तिकरणे करीने मोहनीयकर्मनी उत्कृष्ट सीत्तेर कोनाकोनी सागरोपम स्थितिनो ह्य करी ग्रंथीदेशने प्राप्त थयेलो ठे अने फरीथी जे मोहनीय कर्मनी उत्कृष्टी स्थितिनो बंध करनार नथी तेमज जेणे ग्रंथीजेद् कर्षो नथी पण करशे ते जीवने अपुन-र्वंधक जाणत्रो; अने जे जीव यथाप्रवृत्तिकरणे करीने मोहनीयकर्मनी उत्कृष्ट स्थितिनो ह्य करी ग्रंथीदेशे प्राप्त थयो ठे पण फरीथी एक बखत मोहनीयकर्मनी उत्कृष्ट स्थितिनो बंध करवा बाद तेनो नाश करी पुनः ग्रंथीदेशने प्राप्त करी ते ग्रंथोनो नाश करनार ठे ते जीवने सकृत्बंधक कहेवाय.

प्र०-१०९-प्रतिक्रमणमां व्रतोना अतिचारनी आलोचना कर-  
वानी ठे तो पढी जे श्रावकोए व्रतोनो स्वीकारज नथी कर्षो तेउने प्रतिक्रमण शान्तुं ?

उ०-श्रीजिनेश्वरदेवे श्रावको माटे जे कार्यनो निषेध करेलो होय ते करवामां आन्धुं होय १, जे कार्यो श्रावको माटे अवश्य कर-  
वा फरमाव्या ठतां न कर्षो होय २, श्रीत्रीतरागदेवना वचन उपर अश्रद्धा करी होय ३, तथा श्रीजिनदेवना सिद्धान्तथी विपरीत प्र-

रूपणा करी होय ४ तेनी खातर श्रावकोने प्रतिक्रमण करवा वंदि-  
तासूत्रमां परमपूज्य श्रीगणधरदेवोप फरमावेल ठे के:- '

“ पडिसिद्धार्ण करणे, किञ्चाणमकरणे अ पडिक्कमणं ।

अस्सइहणे य तद्दा, विचरीयपरूवणाए य ॥ ४८ ॥ ”

जावार्थ:-श्रावकोने जे कार्य करवानो निषेध ठे ते करेल होय,  
करवा लायक कार्य न करेल होय, जगवान्नां वचनो उपर अश्रद्धा  
करी होय, तथा विपरीत प्ररूपणा करी होय तेने माटे श्रावके  
अवश्य प्रतिक्रमण करचुं.

प्र०-११०-श्री जक्कामरस्तोत्रनां काव्यो केटलां-चुंवालीस के  
अरुतालीस ?

उ०-श्रीमान् गुणाकरसूरिजी महाराजे संवत् १४३६ मां जक्का-  
मरस्तोत्रनी चुंवालीस काव्योनी टीका रचेली ठे एटखे संजव ठे के  
श्रीजक्कामरस्तोत्रना कर्ता श्रीमान्तुंगसूरिजी महाराजाए ते स्तोत्रनी  
रचना चुंवालीस श्लोक प्रमाणज करी ह्शे.

प्र०-१११-श्री नवकारमंत्र चौदपूर्वना साररूप ठे एवो उल्लेख  
कया ग्रंथमां ठे ?

उ०-श्रीनवकारमंत्र द्वादशांगीनो सार ठे. 'श्राद्धदिनकृत्य' नामना  
ग्रन्थरत्नमां पूज्य श्रीदेवेन्द्रसूरीश्वरजी महाराजाए स्पष्टपण्णे जणावेल  
ठे के:-

“ मुत्तुपि बारसंगं, स एव मरणांमि कीरए जग्हा ।

अरहंतनमोकारो, तग्हा सो बारसंगत्थो ॥ १४ ॥ ”

जावार्थ:-द्वादशांगीने ठोकी मरणांत अवस्थामां जे कारणथी  
श्रीश्रिद्वैत जगवान्ने नमस्काररूप नवकारमंत्रतुं स्मरण करीए ठोए  
ते कारणथी ते नवकारमंत्र श्रीद्वादशांगीनो अर्थ अर्थात् सारचूत ठे.

प्र०-११५-आ अथवसर्पिणीमां श्रीतीर्थनो व्यवहृद् कया कया तीर्थकर जगवान्ना आंतरामां थयो ?

उ०-नवमा तीर्थपति श्रीसुविधिनाथ जगवान्थी आरंजी सो-  
ल्लमा श्री शान्तिनाथ प्रभु सुधीना सात आंतरामां साधु, साध्वी, भावक  
अने आविका रूप श्रीतीर्थनो सर्वथा व्यवहृद् थयो हतो. श्रीअरि-  
हन्तपरमात्माना धर्मनी वात पण रहेवा पामी नहोती. श्रीप्रवचन-  
सारोद्धारना उन्नीसमा द्वारमां उल्लेख करेल ठे के:-

“ पुरिमंतिमभङ्गं तरेसु, नित्यस्स नत्थि बुच्छेभो ।

मच्छिच्छपसु सत्तसु, पत्तियकालं तु बुच्छेभो ॥ ४३० ॥

चउमार्गं चउमागो, तिस्सि य चउमागं पल्लियचउमागो ।

तिस्सेव य चउमागा, चउत्यमागो य चउमागो ॥ ४३१ ॥ ”

सारांशः-प्रथमना आठ श्री तीर्थकरो तथा श्रीकुंथुनाथ जग-  
वान्थी ठेला आठ श्रीतीर्थकर महाराजाजना आंतरामां तीर्थनो  
विहृद् थयेल नथी. श्रीसुविधिनाथ जगवान्थी श्रीशान्तिनाथ जग-  
वान् सुधीना मध्यना सात आंतरामां अगळ कहेल काळ प्रमाणे  
तीर्थनो व्युहृद् थयेल ठे. हवे ते काळ अनुक्रमे कहे ठे. पढ्योपमनो  
चोथो जाग १, पढ्योपमनो चोथो जाग २, पढ्योपमना त्रण चोथा  
जाग-पोथो पढ्योपम ३, पढ्योपम चतुर्थ जाग ४, पढ्योपमना त्रण  
चतुर्थ जाग ५, पढ्योपम चतुर्थ जाग ६, पढ्योपम चतुर्थ जाग ७,  
'सप्तति शतक स्थानक' नामा गंधमां पण उल्लेख ठे के:-

“ इग इग तिगेग तिग इग, इगंस च इगार पल्लियचउमागो ।

चित्तिस्से इअ पल्लिए, सुविहाइसु सत्त तिथंते ॥ २१३ ॥ ”

सारांशः-पढ्योपमनो एक चतुर्थ जाग १, पढ्योपमनो चतुर्थ  
जाग २, पढ्योपमना त्रण चतुर्थ जाग ३, पढ्योपमनो चतुर्थ जाग  
४, पढ्योपमना त्रण चतुर्थ जाग ५, पढ्योपमनो चतुर्थ जाग ६,

पढ्योपमनो चतुर्थं ज्ञाग ३. सर्वं मल्ली पढ्योपमना ११ अग्यार चतुर्थं ज्ञागो पटले पोषा त्रण पढ्योपम, अन्य आचार्यो आ सर्वं पढ्योपमना चौथा ज्ञागना स्थानमां पढ्योपमज कहे ठे, तेमना मतथी अग्यार पढ्योपम श्रीसुविधिनाथ जगवान्थी श्रीशांतिनाथ जगवान् सुधीना सात आंतरामां तीर्थं व्यवहृद काळ जाणवो. श्री सुविधिनाथ जगवान्थी श्रीशांतिनाथ सुधी सात आंतरामां तीर्थ-व्यवहृद थयानुं जगवान् श्रीजिनजड्गणी क्षमा भ्रमणं महाराजे पण विशेषनवतिनामा ग्रंथमां वर्णन करेल ठे.

प्र०-११३-पांचम काळमां गामो इमसान समान थशे एम श्री पांचमा आरानी सङ्गाथमां कहेल ठे तो ए वात कोइपण सूत्रग्रंथमां कही ठे या नहिं ? अने आ पांचमा आरामां कइ कइ वस्तुनी हानि समजवी ?

उ०-पांचमा आरामां गामो इमसान समान थशे, समये समये वर्णादिक ड्रव्यं पर्यायो, औषधिठनी शक्ति, मनुष्यादिकनुं आयुष्य, संहनन, बुद्धि, शारीरिकबल तथा भ्रद्धादिक सद्गुणोनी हानि थशे. अने दुर्भिक्ष, रुमर आदि उपद्रवो वखतो वखत थशे. 'श्रीपांचकल्प-जाण्यमां' पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय श्रीसंघदासगणी क्षमाभ्रमण महाराजे कहुं ठे के:-

“ भगिर्थं च दूसमाए, गामा होरिंति तू मसाणसमा ।  
 इय खेत्तगुणा हाणी, काले वि उ होति सा हाणी ॥ ३३ ॥  
 समय समय णंता, परिहार्यते उ वण्णमादीया ।  
 दधादी पञ्जाया, अहोरत्तं तत्तिर्यं चैव ॥ ३४ ॥  
 दूसमअणुमावेणं, साहू जोग्गा उ दुल्लमा खेत्ता ।  
 काळे वि य दुग्ग्धिबद्धा, अग्ग्धिबद्धं होति कसरा य ॥ ३५ ॥



वृक्षमण्डपभावेण य, परिहाणी हाति ओसहबलार्ण ।  
 तेषं मणुयार्णपि तु, भावगमेहादिपरिहाणी ॥ ३६ ॥  
 संघयर्णपि य हायह, ततो य हाणी य धितिवलस्स भवे ।  
 विरियं सारीरबलं, तंपिय परिहायनि य सत्तं ॥ ३७ ॥  
 हायंति य सद्दहाओ, गहणे परियट्टणे य मणुयार्णं ।  
 उच्छाहो उज्जोगो, अणालसत्तं च एगद्धा ॥ ३८ ॥  
 ह्य नाहं परिहाणिं, अणुगगहद्धा य एस साहूणं ।  
 निज्जूहणुकंपाप, दिहंतेहि इमेहि तु ॥ ३९ ॥ ”

सारांशः—दूषम कालमां गामो शमसान तुल्य धरो, आ क्षेत्र गुण  
 आश्रित हानि, काल आश्रित पण ते हानि होय. समये समये अनंता  
 वर्ष गंध रस स्पर्शादि द्रव्यादिना पर्यायोनी हानि, दिवस अने रात्रि  
 ठे ते प्रमाणेज रहेवाना, दूषम कालना प्रजावे साधुने योग्य क्षेत्रो  
 दुर्लभ, काले पण वारंवार दुर्जिह्व अने उपद्रवो भवाना, दूषम  
 कालना प्रजावे औषधना बळनी पण हानि, अने ते कारणथी  
 मनुष्यनुं आयुष्य अने बुद्धि आदिनी पण हानि, संघयर्णनी हानि  
 अने तेथी घृतिबळनी हानि, आत्मबळ, शरीरबळ अने सत्वनी  
 पण हानि, ज्ञानने ग्रहण करवामां अने परावर्त्तन करवामां हानि तथा  
 श्रद्धानी पण हानि, उत्साह—उद्योग के अनास्यस्य कहो तेनी हानि  
 एम काल प्रजावथी सर्व प्रकारनी हानि जाणीने साधुना अनुग्रहने  
 अर्थे अनुकंपा करीने श्रुतकेवलो जगवान् श्रीजडबाहुस्वामिण  
 नवमा पूर्वमांथी उद्धार करी श्रीपंचकल्पनामा सूत्रनी रचना करी ठे

प्र०—११४—नवीन प्रसुत थयेल गाय आदिनुं दुध केटला  
 दिवस न कल्पे ?

उ०—नवीन प्रसुत थयेल गायनुं दुध पांश दिवस, बकरीनुं  
 आठ दिवस अने जैसनुं दस दिवस सुधी न कल्पे. ‘श्रीलघुप्रवचन-  
 सारोद्धारमां’ कहेल ठे. के:-

“ गोपलगमहिर्सीर्ण, स्त्रीरं पण भठ वस विणाणुधरि सुद्धं ।”

साराशः—गायतुं दुध पांच दिवस पढी, बकरीतुं दुध आठ दिवस पढी अने जैसतुं दुध दश दिवस पढी शुरू थाय अर्थात् कल्पे.

प्र०—११५—साधु साध्वीठं माटे गौचरी आलोववानो विधि शास्त्रमां शो ठे ?

उ०—श्रीगुरु महाराजनी पासे आवी सन्मुख उजा रही काबा-पग उपर कांको अने जमणा हाथमां मुहपत्ति राखी उजा उजा कामा-धमण दर्ई ईरियावहिनो आदेश मागी ईरियावहो करी एक लो-गस्स ‘ चंडेसु निम्मखयरा ’ सुधीनो कायोत्सर्ग करी कायोत्सर्गमां जे क्रमे गौचरी लीधी होय तेनुं चितवन करी जे दोषो लागेल होय तेने संघाळी कायोत्सर्ग पारी जे क्रमे गौचरी लीधी होय ते सर्व गुरुमहाराजने निवेदन करे. पढी गौचरीमां लागेला सूख्य दोषने आलोववाने अर्थे ‘ गौचरचरिआए ’ नो पाठ कही तस्स उत्तरी० अन्नत्थ० कही कायोत्सर्ग करी तेमां ‘ अहो जिणेहिं असावज्जा ’ गायतुं चितवन करी कायोत्सर्ग पारी लोगस्स कहे. श्री दशवैकालिक सूत्रना पांचमा अध्यायनना प्रथम उद्देशामां कहेल ठे के—

“ विणपणं पविसित्ता, सगासे शुक्को सुणी ।

इरियावहियमादाय, भागभो अ पडिक्कमे ॥ ८८ ॥

भामोइत्ताण नीसेसं, अइभारं जइकर्म ।

गमणागमणे वेव, भत्तपाणे व संजए ॥ ८९ ॥

उच्छुत्तो अपुविग्गो, अवक्खित्तेण वेभसा ।

आलोए शुक्सगासे, जं जहागहिंभं भवे ॥ ९० ॥

न सम्ममालोइंभं हुज्जा, पुंषि पण्ठा व जं फडं ।

पुणो पडिक्कमे तस्स, बोसट्ठी चितए इमं ॥ ९१ ॥

अहो जिणेहिं असावज्जा, चित्ती साङ्गण वेसिभा ।

इण्णसाहणवेवस्स, साहुदेवस्स धारणा ॥ ९२ ॥

सारांशः-साधु निसीद्दि पूर्वक नमो खमासमणायं कही उपा-  
 धयमां प्रवेश करी श्रीगुरुमहाराजनी पासे आची ईरियावही करी  
 गुरुनी पासे कायोत्सर्ग करे ॥ काळस्सग्गामां जे क्रमे गया, आढ्या, गौ-  
 चरी लीधी तेमां जे अतिचार छाग्या ते संपूर्ण अतिचारोतुं स्मरण  
 करे ॥ विधि पूर्वक कायोत्सर्ग पाळोने सरळ बुद्धिमान् उद्वेग रहित  
 अव्याक्षित चित्ते करी श्रीगुरु महाराजनी समक्ष अशनादि आहार जे  
 प्रकारे लीधो होय ते निवेदन करे ॥ अनान्नोगथी अथवा विस्मरणथी  
 पुरःकर्म अथवा पश्चात्कर्म सुदम अतिचारोतुं सम्यक् आलोचन थयेल  
 न होय तेतुं प्रतिक्रमण करवाने अर्थे 'इहामि पक्कमिठं गोयर-  
 चरिआए ।' नो पाठ कही कायोत्सर्ग करे ॥ कायोत्सर्गमां 'अदो'  
 आश्चर्य ठे के श्री जिनेश्वरज्ञगवाने सम्यक् दर्शन-ज्ञान-चारित्रना  
 साधनचूत साधुना शरीरने धारण करवा साधुठनी असावध वृत्ति  
 कही ठे. आ गाथानुं स्मरण करी 'नमो अरिहंताय' कही कायोत्सर्ग  
 पारी 'लोगस्सुद्धोश्चरे' कहे.

प्र०-११६-काचा पाणीमां गोळ, खान, साकर आदि नाखनाथी  
 प्रासुक-अचित्त थयेला पाणीनो काळ केटलो समजवो ?

उ०-काचा पाणीमां गोळ, खान, साकर विगेरेला, पकवाथी वर्ष  
 गंध, रस अने स्पर्शना थयेला परिकर्तनता, प्रजावथी के प्रासुक थयेला  
 पाणीनो काळ चोमासामां त्रण प्रहर, शियाळामां चारं प्रहर अने  
 उनाळामां पांच प्रहरनो जाववो. श्रीलघुप्रबंधनसारोद्धारमां कहेल  
 ठे के-

“ तिचवप्यणजाम, उसिणनीरस्स ।

वासोइसु तम्मार्ण, फासुजलस्सावि एमेव ॥ ८६ ॥ ”

सारांशः-उष्य पाणीनो, काळचर्षा ऋतुमां त्रण पदोरे, शियाळामां

चार पहोर अने उनाळामां पांच पहोरनो जाणवो. फ्रासुक ( फ्रासु ) जलनो पण काळ उना पाणीना जेटलोज जाणवो. फ्रासु पाणी कोने कहेतुं ? उत्तर-श्रीलघुप्रवचनसारोकारमां कथ्यं ठे के:-

“ वन्नरसगंधपज्जव-भेयविमिस्सं खु हवइ फ्रासुजलं ।

सकरगुहखंडाई, वत्थुविभेएहि परिणमिथं ॥ ९५ ॥ ”

सारांश:-वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, पर्यायना जेदथी निश्चय फ्रासु जळ थाय, ते वर्णादि पर्यायोनो जेद साकर, गोळ, खांद आदि वस्तुना जेदे करीने परिणत थवाथी थाय ठे.

प्र०-११९-श्रीजिनर्षिवनी दृष्टि द्वारना कया जागमां राखवी ?

उ०-बारसाखना आठ जाग करतां उपरनो जे सातमो जाग आवे तेना पाठ आठ जाग करवा तेमां उपरनो जे सातमो जाग आवे ते जागमां दृष्टि राखवी. जेमके चार हाथनी बारसाख ठे तेना आठ जाग करतां अर्धो हाथ आवे तेना आठ जाग करतां दोढ अंगुल आवे तो इवे नीचेना ठ जागना अर्धहाथ अने दोढ अंगुलना हीतावे त्रण हाथ अने नव अंगुल थाय तेमां जो दृष्टि आवे तो ते अधोदृष्टि समजवी अने उपरनो अर्धहाथ अने दोढ अंगुलमां दृष्टि आवे तो ते उर्ध्वदृष्टि समजवी तेथी उपर तथा नीचेनो जाग ठोनी वचला सातमा जागना दोढ अंगुलमां दृष्टि आवे ते समदृष्टि होवाथी वचला जागमांज श्रीवीतराग देवनी दृष्टि राखवी. परम जैन ठकुर फेरु कृत वास्तुशास्त्रमां कथ्यं ठे के:-

“ सासणसुर सत्तमए, सत्तमसत्तमि वीयरायस्स । ”

सारांश:-श्रीजिनशासनना अभिष्टायक देवदेवीनी दृष्टि बारसाखना दश जाग करीए तेना सातमा जागमां आवे. श्रीवीतराग-जगवान्नी दृष्टि बारसाखना आठ जाग करीए तेमां जे उपरनो

सातमो जाग तेना पाठा आठ जाग करीए तेमां जे उपरनो सातमो जाग ते स्थानमां राखवी.

प्र०-११७-श्रीमेघकुमारनी माता धारिणीदेवीने पुत्र केटला ?

उ०-श्रीज्ञातासूत्रमां श्रीमेघकुमारनी दीक्षा अबसरे तेमनी माताजीने एकज पुत्र जणावेल ठे अने श्रीअनुत्तरोपपातिकसूत्रमां महाराजा श्रेणिकनी राणी धारिणीदेवीने १ जाली, २ मयाली, ३ उवयाली, ४ पुरुषसेन, ५ वारिसेन, ६ दीहदंत अने ७ लघुदंत आ नामना सात पुत्रो कहेछा ठे, परंतु श्रीमेघकुमारनी माता धारिणीदेवी अने जास्रि, मयास्रि आदि सात पुत्रोनी माता धारिणी जिन्न जिन्न होवानो संजव ठे कारण श्री श्रेणीक महाराजाने घणी राणीठ होवाथो एकज नामनी बे राणीओ होय तेमां बिरोध नथो जणातो अथवा श्रीमेघकुमारनी दीक्षा पढी पण बीजा पुत्रो थया होय एम मानवामां पण बाधक नथी लागतो पढी तत्व तो तत्वज्ञानी महापुरुषो जाणे.

प्र०-११८-अप्रब्य आत्माठेने कई कई वस्तुठेनी प्राप्ति न थाय.

उ०-अप्रब्य आत्माठे इंड, अनुत्तर विमानना देव, शिखाका पुरुष अने नारद न थाय. तेठे केवल ज्ञानी तथा गणधरदेवना हस्ते दीक्षा न पामे. तेठेने श्रीतीर्थकर महाराजाए आपेख सांवत्तरिकदाननी प्राप्ति पण न थाय. ते आत्माठे प्रवचनअधिष्ठायक देव देवी, लोकांतिक देवना स्वामी, प्रायस्त्रिंशकदेव, परमाधार्मिकदेव अने युगक्षिकमनुष्यपणुं आदि घणी घणी वस्तुठेने प्राप्त न करे श्रीसंबोधप्रकरणमां जगवान् श्रीहृरिजसूरीश्वरजी महाराजा कहे ठे के-

“ जह अमधियजोवेहिं, न फासिया एवमाहया भावा ।

ईवंसमनुत्तरसुर-सिलायपुरिसनवनारथसं च ॥ २९० ॥

केवल्लिगणहरहत्ये, पवजा नित्यवच्छरं दार्ण ।

पवयणसुरीसुरसं, लोगतियवेवसामिचं ॥ २९१ ॥

तायत्तीससुरत्तं, परमाहम्मियजुयलमणुयत्तं ।  
 संमिन्नसोय तह, पुवधराहारयपुलायत्तं ॥ २९२ ॥  
 महनाणाहसुलकी, सुपत्तदाणं समाहिमरणत्तं ।  
 धारणदुगमहुसप्पिय-खीरासवाखीणठाणं वा ॥ २९२ ॥  
 तित्थयरत्तित्थपडिमा-तणुपरिभोगाहकारणे वि पुणो ।  
 पुढवाइभावमवि, भभवजीवेहिं नो पत्तं ॥ १९४ ॥  
 चउदस रयणत्तणेवि, पत्तं न पुणो विमाणसामित्तं ।  
 समत्तनाणसंजम-तवाइ भावा न भावहुगे ॥ २९६ ॥  
 अणुभवजुत्ता भत्ती, जिणाण साहम्मियाण वच्छलं ।  
 नय साहेइ भवो, संविग्गत्तं च तप्पक्खं ॥ २९६ ॥  
 जिणजणयजणणी जाया, जिणभिक्षादायगा जुगपहाणा ।  
 आयरियपयाइदसर्गं, परमत्थणुणहुदमपत्तं ॥ २९७ ॥

सारांशः—अज्ञव्य जीव आ दर्शावैल जावोने प्राप्त थतो नथी, इन्द्रपणुं, अनुत्तर विमानना देवपणुं, शिलाका पुरुषपणुं, नव नारदपणुं, श्री केवलज्ञानी तथा श्रीगणधरदेवना हाथे दीक्षा, श्रीतीर्थकर महाराजाए आपेल वार्षिक दान, श्रीप्रवचनना अधिष्ठायक देव देवोपणुं, भौकांतिक देवना स्वामीपणुं, त्रायत्रिंशक देवपणुं, परमाधार्मिक देवपणुं, युगलिक-मनुष्यपणुं, संजिन्नश्रोतलब्धि, पूर्वधरलब्धि, आहारकलब्धि, पुलाक-लब्धि, मतिज्ञानादिलब्धि, सुपात्रमां दान, समाधिमरण, जंघाचारणल-ब्धि, विद्याचारणलब्धि, मधुराभवलब्धि, घृताभवलब्धि, क्षीराभवलब्धि अधिष्ठानमाहनसीलब्धि, श्रीतीर्थकर महाराजना तथा श्रोतीर्थकर महाराजनी प्रतिमाना परिजोगमां आवे एवुं पृथिवीकायादिकरणुं आ सर्व जावोने कही पण अज्ञव्य जीवो प्राप्त भता नथी. चक्रवर्तिनाचौद् रस्नपणुं, विमाननुं स्वामिपणुं, सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र अने सम्यक् तप आदि जावो, उपशमिक जाव, क्षायिकजाव, अनुज्ञवयुक्त श्रीजि-नेश्वरदेवनो जक्ति, स्वाधर्मिकवात्सल्य आ जावोने अज्ञव्य आत्मान

साधे. संविघ्नपणुं, संविघ्नपक्षीपणुं, श्रीजिनेश्वर जगवान्ना पिता, माता, स्त्री, श्रीजिनेश्वर जगवान्ने जिह्वादाता, युगप्रधान, परमार्थ गुणे करीने युक्त श्रीआचार्यादि दश पद आदि जावोने अजन्म जीवो कदापि प्राप्त अता नथी.

प्र०-१२०-मोटा रोगो कया कया ?

उ०-श्यास १, खांसी २, ज्वर आदि सोळ मोटा रोगो ठे. श्री विपाकसूत्रना प्रथम अध्ययनमा कहुं ठे के:-

“ सास १ कासे २ जरे ३ दाहे ४ कुच्छिसूले ५ भगंदरे ।  
अरिसा ७ अजीर ८ दिष्टी ९ सुब्बसूले १० अकारप ११ ॥ १ ॥  
अच्छिवेयणा १२ कन्नवेयणा १३ कंहु १४ लदरे १५ कोठे १६ ॥ ”

सारांस:-१ श्यास, २ खांसी, ४ ज्वर, ४ दाह, ५ कुक्षिशूल, ६ जगंदर, ७ अळस, ८ अजीर्ण, ९ दिष्टिशूल, १० मस्तकशूल, ११ अरुचि, १२ अक्षिवेदना, १३ कानवेदना, १४ खाज, १५ जखोदर अने १६ कोठ. आ सोळ रोगो मोटा ठे.

प्र०-१२१-श्या अवसर्पिणी कालमां थयेला नवे वासुदेवोतुं शारीरिक बल सरखुंज होय के केम ?

उ०-अवसर्पिणीकालमां वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, संस्थान, शक्ति आदि हीन हीनज थाय, एटले नवे वासुदेवोतुं शारीरिकबळ घटतुंज होय. कालकालसर्वज्ञ जगवान् श्री हेमचंद्रसूरोश्वरजो महाराजा त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रमा कहे ठे के:-

“ तां मुजाभ्रे दधौ विष्णु-राधो मूर्ध्नि त्रितोयकः ।  
कंठे तृतीयस्तुर्थ-स्तुरः स्थले पंचमो हृदि ॥ ६१ ॥  
षष्ठः कट्यां षडधिक-स्तूर्वोराजानु चाष्टमः  
चतुरंगुलमन्थोऽथ-सर्पिण्यां ते पतद्बलाः ॥ ६२ ॥ ”

सारांश:-प्रथम वासुदेवे कोटिशिला स्वजुजाप्रसुधो उंची उयासी,

बीजाए एज कोटीशिला पोताना मस्तक सुधी, त्रीजाए कंठसुधी, चोथाए उरस्थलसुधी, पांचमाए नाजिसुधी, ढहाए कटिजागसुधी, सातमाए साथळसुधी, आठमाए जानुसुधी अने नवमाए एज को-  
टिशिला जमीनथी मात्र चारज अंगुल उंची करी. कारण अवस-  
र्पिणीमां तेढ हीन हीन बलवाळा होय ठे.

प्र०-११५-श्रीशान्तिनाथस्वामिनी माताए केटळां स्वप्नो जोया ?

उ०-श्रीशान्तिनाथस्वामिनी माताए चौद स्वप्नो जोयां पण ते  
बे बखत जोयां, एक बखत तो श्रीतीर्थकरपणाने सूचवनारां अने  
बीजी बखत चक्रवर्तिपणाने सूचवनारां जोयां. आचार्यजगवान् श्री  
धनेश्वरसूरीश्वरजी शत्रुंजयमहात्म्यना आठमा सर्गमां लेखे ठे के:-

“ बभूव भारते क्षेत्रे, पुरे गजपुरे वरे ।

जितविश्वविश्वसेनो, विश्वसेनो महीधवः ॥ ७३ ॥

अचिरा नाम तत्पत्नी, शीललीलासमुज्ज्वला ।

सा द्विश्वतुर्दश स्वप्नान्, निशाक्षेपे व्यलोकयत् ॥ ७४ ॥

सर्वार्थसिद्धिः स्वामी, मासे भाद्रपदेऽसितौ ।

ससम्यां च भरण्यां मे, तस्याः कृक्षाववातरत् ॥ ७५ ॥

द्विस्वप्नदर्शनादर्ह-सक्रिजन्मसुनिश्चया ।

रत्नगर्भेव सा गर्भे, बभार शुभदोहदा ॥ ७६ ॥ ”

सारांशः-जरतक्षेत्रने विषे श्रेष्ठ गजपुर नामा नगरमां संपूर्ण जग-  
तना सैन्यने जितनार विश्वसेन नामा राजा थया. तेसुनी शीललीलाए  
करीने उज्ज्वल अचिरा नामा राणी ते राणीए पाठलीं रात्रिने विषे बे  
वार चढद स्वप्नो जोयां. श्रीशान्तिनाथस्वामी सर्वार्थसिद्ध नामा विमानधी  
चवीने जाडवा (गुजराती श्रावण)वदी सातमनी रात्रिए जरणी नामा  
नक्षत्रे श्रीअचिरा मातानी कुक्षीने विषे उत्पन्न थया. बे वार चढद  
स्वप्नोना देखवाधी श्रीतीर्थकर महाराजा तथा चक्रवर्तिना जन्मनो



निश्चयवाली अने शुभदोहलावाली श्रीश्चिरा माताए रत्नोने पृथ्वी जेस धारण करे तेस रत्नसमान गर्जने धारण कर्यो.

प्र०-१३३-तिविहार उपासमां पाणहार पौरुषी आदि कर-  
वामां आवे ठे तेस पाणहार नवकारसी पण थाय था नहि ?

उ०-पाणहार नवकारसी थाय. श्रीप्रत्नाख्यानज्ञाप्यनी श्रव-  
चूरीमा 'पाणहार नमुक्कारसहितं' आ प्रभाषे स्पष्ट पाठ ठे.

प्र०-१३४-श्रीब्राह्मीजी अने श्रीसुंदरीजी आवे मदासतीठ  
कुंवारिका इती या विवाहिता ?

उ०-श्री श्रावण्यकसूत्रनी टीकामां पूज्यपाद श्रीमलयगिरिजी  
महाराजा छेठे ठे के-श्रीचरतजीनी जगिनी श्रीब्राह्मीजीनो विवाह  
श्रीबाहुबलीजीसाथे अने श्रीबाहुबलीजीनी जेन सुंदरीजीनो विवाह  
श्रीचरतमहाराजानी साथे श्रीऋषजदेव जगवाने युगलिकधर्म निवा-  
रण करवाने अर्थे विपरीतपणे कर्यो ठे.

प्र०-१३५-मनुष्यलोकनी बहार कइ कइ वस्तु न होय ?

उ०-नदी, इह, मेघनो गर्जारव, वादरअभि, चक्रवर्ती, वासुदेव  
आदि उत्तम पुरुषो, मनुष्यनुं जन्म अने मरण तेमज रात्रि, दिवस,  
पक्ष, मासादिरूप काळ आदि वस्तुं मनुष्यलोकनी बहार न होय.  
क्षेत्रसमास प्रकरणमां पूज्य श्रीरत्नबोस्वरसूरिजी महाराज कहे ठे के-

“ नहइइवणयणियागणि-जिणाइ नरजम्ममरणकाळाई ।

पणयाळलकजोयण-नरखिर्षं सुपु नो पुरभो ॥ २५६ ॥ ”

सारांशः-पीसताखीस काळ योजन मनुष्य क्षेत्रने ठोनी श्राग-  
खना क्षीप समुद्रमां नदी, इह, मेघ गर्जारव, अभि, श्रीतीर्थकरादि-  
उत्तम पुरुषो, मनुष्यनो जन्म, मनुष्यनुं मरण अने काळादि होय  
नहि. ॥ ३५६ ॥

प्र०-१२६-छादशांशीरुप प्रवचनना प्रणेता, सकल प्रज्ञापनीय-  
ज्ञावपरिज्ञायुक्त अने सर्वज्ञसदृश एवा श्रीगौतमस्वामिजी महाराजा  
प्रश्नो पूढे एनो हेतु शो ?

उ०-पोताना प्ररुपेला पदार्थो यथास्थित ठे एवी पोताना शिष्योने  
प्रतीति कराववाने अर्थे जगवान् श्रीगौतमस्वामिजी परमगुरु श्री  
महावीरस्वामिजीने प्रश्नो पूढे, अथवा श्रीगौतमस्वामिजीना प्रश्न अने  
परमगुरु श्रीमहावीरस्वामिजीना उत्तररुपे रचना करी ठे.

श्रीनंदीसूत्रनी टीकामां चौदसो ग्रंथरत्नोना रचयिता जगवान्  
श्रीहरिश्चन्द्रसूरीश्वरजी महाराजाए कहेल ठे के:-

“ गौतमाऽपि सूत्रतः प्रवचनप्रणेतृत्वात्तुर्दशपूर्वधरत्वात् सकलप्रज्ञा-  
पनीयभावपरिज्ञानयुक्तत्वात्सर्वज्ञकल्प एव उक्तं च

‘ संख्यातीतेषु भवे, साद्गृहं जं वा पुरो उ पुच्छेज्जा ।

न य र्ण अणाइसेसी, वियाणइ एस उवमत्यो ॥ १ ॥ ’

अतः किमर्थं पृच्छति अत्रोच्यते कुतश्चिदभिप्रायान् जानान एव  
स्वशिष्येभ्यो वा प्ररुप्य तत्संप्रत्ययनिमित्तं सूत्ररचनाकल्पतो वेति न  
दोषः । ”

सारांशः-सूत्रथी प्रवचनना प्रणेता चउदपूर्वधर संपूर्ण प्रज्ञाप-  
नीय ज्ञावोना जाण होवार्थी श्रीगौतमस्वामिजी महाराज सर्वज्ञ  
सदृशज ठे. कहुं ठे के-असंख्याता जवोने अथवा बीजो जे पूढे तेने  
कथन करे पण अतिशय ज्ञानथी रहित होय ते न जाणे के आ उ-  
द्मस्थ ठे. आवा ज्ञानी श्रीगौतमस्वामिजी महाराज प्रश्नो शा माटे  
पूढे ? अत्र उत्तर क्यांकथी अत्रिप्रायोने जाणीने अथवा पोताना  
शिष्योने प्ररुपणा करी तेनी प्रतीति कराववाने अर्थे अथवा श्री  
गौतमस्वामिजीना प्रश्न अने जगवान् श्री महावीरस्वामिजीना

उत्तर रूप सूत्ररचनानो कल्प होवाची ते प्रमाणे प्रश्नोत्तररूप रचना करेली ठे तेथी दोष नथी.

प्र०-१२७-‘ऊंकारारावसारा’ थी लहने ‘देहि मे देवि सारम्’ सुधीनां त्रय पदो सघळा एकत्रित थइने उंचा स्वरथी बोखे ठे तेनुं कारण शुं ?

उ०-‘ऊंकारारावसारा’ थी आरंजीने ‘देहि मे देवि ! सारम्’ पर्यंतनां त्रय पदो पाक्षिक, चातुर्मासिक अने सांवत्सरिक प्रतिक्रमणां दरेके एकसाथे उंचा स्वरे बोखतां ते पदो मंत्ररूप होवाची छुद्र नीच मिथ्यादृष्टिदेव उपद्रव करवामाटे वस्तीमां आवेल होय तो जागी जाय, ए कारणे परंपराथी ते प्रमाणे बोखाय ठे. पंक्तिप्रवर-श्री वीरविजयजीए स्वकृतप्रश्नोत्तरचिंतामणिमां खुलासो करेल ठे के:-

“ऊंकारारावसारेत्यादिनां देहि मे देवि ! सारमित्यन्तं यावत्पाक्षिका-विषु त्रिषु प्रतिक्रमणेषु उच्चैस्तरस्वरेण शिष्यादिकैः समग्रैश्चक्षुष्यमिति परंपरया दृश्यते श्रूयते च, तद्रहस्यं त्रयं-यदि कश्चित् मिथ्यादृष्टिव्यंतरः सा-ब्धादिकानुपद्रवं करिष्यामीति बुद्ध्या वसतौ स्थितः प्राग्, अत्रान्तरे ‘ऊंकारारावसारा’ इत्यादिकं महापुरुषप्रणीतमक्षराणुयोगं भाषैरुचैःस्वरेण पठयमानं निशाम्याकस्माद् भयभ्रांतो हि स च व्यन्तरस्तस्मात्स्थानकात् झदिति नङ्गाऽन्यत्र ब्रजेत्, तेन हेतुना प्राणुरूपकारेण पठितव्यमिति बुद्ध्याः । इत्यमस्मद्गुरुणामन्तिके यथा मया श्रुतं तथाऽत्र निवेदितं ऊंकारारावसा-रेत्यत्र अमरहंसव्याराववर्णनोऽस्ति तदुत्कर्षहेतुत्वाद्भ्रैताववक्तव्यं नैव श्लोकचतुष्टयमिति ॥ ४६ ॥ ”

सारांशः-‘ऊंकारारावसारा’ इत्यादिथी ‘देहि मे देवि सारं’ इत्यंत सुधी पाक्षिक, चातुर्मासिक अने संवत्सरिना प्रतिक्रमणोने विषे सर्व शिष्यादिकोए उंचे स्वरे बोखवुं जोइए ठे एम परंपराथी देखीए ! बीए अने सांजळीए बीए. तेनुं रहस्य ए ठे के साधु आदिने उंच-

द्वव करीश एवी बुद्धिथी प्रथम वसतिमां कदाचित् कोइ मिथ्या-  
दृष्टि व्यंतरदेव रहेल होय आ अवसरे ' जंकारारावसारा ' इत्यादिक  
महापुरुष प्रणीत अक्षरानुयोगने उंचा स्वरे करीने श्रावको बोले ते  
सांजळी अकस्मात् जयत्रांत थइ ते व्यंतरदेव ते स्थानथी जलदीथी  
नाशी वीजे स्थाने चाढ्यो जाय ते हेतुथी प्रथम कहेल उंचा स्वरे  
बोलवानी रीतिथी बोलवुं एम वृद्ध पुरुषो कहे बे. अमारा गुरुमहा-  
राज पासेथी आ प्रमाणे जेम में सांजळ्युं बे तेम कहुं. 'जंकाराराव-  
सारा' आ ठेकाणे जमरना समूहना शब्दनुं वर्णन ठे ते उल्कर्षनो  
हेतु होवाथी आटला सुधीज गुरुप बोलवुं पण चारे श्लोको न बोलवा.

प्र०-२१७-श्रीकृष्णमहाराजाना जवो फेटला ?

उ०-प्रथम जव श्रीकृष्णमहाराजनो, वीजो नारकीनो, त्रीजो  
मनुष्यनो जव पामीने तेमां तीर्थकर नामकर्मने निकाचित करी चोथो  
वैमानिकदेवनो जव अने पांचमे जवे श्री अमम नामना वारमा तीर्थ-  
कर थशे पटले तेज जवमां मोक्षे जशे:

जगवान् श्री संघदास गणी महाराजे श्रीवसुदेवर्हिणीमां कहुं ठे के:-

“ कन्हां तइयाए शुद्धोए उवद्विता इहेव भारहे वासे सयवुचारे नयरे  
जियसत्तुस्स रज्जो पुत्तनाए उववज्जिऊण पत्तमंडलिअ भावो पदब्बं पडिवज्जिअ  
तित्थयरनामकम्मं ससुब्बणिता वंभलोए कप्पे दससागरोवमाऊ होऊण  
तओ चुओ वारसमो अममो नाम अरहा भविस्ससि । ”

सारांश:-श्रीकृष्ण महाराजा त्रीजो नारकीमांथी नोकळो आज  
अरतक्षेत्रमां शतडुवार नामा नगरमां जितशत्रु राजाना पुत्रपणेउत्पन्न  
थइने मंडलिक जावने पामी दीक्षा अंगीकार करी श्रीतीर्थकर नाम-  
कर्म उपार्जन करी ब्रह्म देवलोकमां दश सागरोपमना आयुष्यवाळा  
थइ त्यांथी चवीने वारमा अमम नामा तीर्थकर थशे. तथा श्रीरत्न-  
संचय' नामा प्रथमां पण कहुं ठे के:-

“ निरयाधो नरमर्षमि देवी, होऊण पंचमे कये । ”

आ गाथा तथा श्री कर्मप्रकृतिनी टीकामां पण पांच जव ठे—आ वझे पाठो पश मा प्रश्नमां आवी गयेला ठे. तेथी अर्ही लखवामां आवेळ नथी. श्रीश्रंतंगकदशांगसूत्रमां त्रण जव पण कहेला ठे.

प्र०—१३९—देवताथो श्रवधिज्ञानथी कर्मपुद्गलोने देखे ?

उ०—अनुत्तरविमानना पर्यासा अने उपयोगवाळा देवताळं श्रवधिज्ञानथी कर्मपुद्गलोने जाणे अने देखे परंतु प्रैवेयकसुधीना देवताळं तो न जाण के न देखे. आहारना पुद्गलो बादर ठे तेने पण ज्यारे नदेखे अने न जाणे तो पठी कर्मपुद्गलो तेना करतां सूक्ष्म ठे तेने केवी रीते देखे अने जाणे? आहारना पुद्गलो व्यंतर, जवनपति, ज्योतिषी अने मिथ्यादृष्टि वैमानिकदेव न जाणे नदेखे. सम्यग्दृष्टि वैमानिकदेव जाणे अने देखे. मतांतरथी व्यंतरना देवोथी आरंजी नवमा प्रैवेयक सुधीना देवो न देखे अने न जाणे. मलधारगह्नीय-श्रीमान् चंद्रसूरीश्वरजी कृत संप्रहणी सूत्रनी ‘ श्रोयाहारा सवे ’ नी टीकामां श्री देवचंद्रसूरीश्वरजी महाराजे कळुं ठे के:-

“देवानां प्रनसा परिकल्पिताः शुभाः पुद्गलाः सर्वेणैव कायेनाहारतया परिणमन्ति नारकाः त्वशुभाः इति, तांश्चाहार्यमाणपुद्गलान् विशुच्चावधि-चक्षुर्भावावनुत्तरसुरा एव जानन्ति पश्यन्ति न पुननारकप्रैवेयकान्तदेवाः।”

सारांशः—देवताळने मने करीने परिकल्पित शुभ पुद्गलो संपूर्ण काथाए करीने आहारपणे परिणमन थाय ठे अने नारकीळने अशुभ पुद्गलो परिणमन थाय ठे. निर्मल श्रवधि ज्ञान रुपी चक्षु होवाथा अलुत्तर विमानना देवोज ते आहारपणे परिणमन थता पुद्गलोने जाणे अने देखे पण नारकी अथवा व्यंतर, जवनपति, ज्योतिषी या-वत् नवमा प्रैवेयक सुधीना देवो जाणे नहि तथा देखे नहि. आहारना

पुद्गलोने जवनपति, व्यंतर अने ज्योतिष्कना देवो तो न जाणे अने न देखे. वैमानिकमां मिथ्यादृष्टि देवो न जाणे अने न देखे. सम्य-  
गृष्टि वैमानिक देवो आहारना पुद्गलोने जाणे अने देखे. श्रीसम-  
चार्यांगसूत्रनी टीकामां श्रीअज्ञयदेवसूरीश्वरजी महाराजा छखे ठे के:-

“ नारका यान् पुद्गलान् आहारयन्ति तानवधिनापि न जानन्ति अ-  
वधिज्ञानतो न जानन्ति, न पश्यन्ति चक्षुषाऽपि लोमाहारत्वात् तेषां, एवम-  
सुरादयः x x x x x x x x व्यन्तरज्योतिष्का नारकवत्, वैमानिकास्तु ये  
सम्यग्दृष्टयस्ते जानन्ति विशिष्टावधित्वात्, पश्यन्ति चक्षुषोऽपि विशिष्ट-  
त्वात्, मिथ्यदृष्टयस्तु न जानन्ति न पश्यन्ति, प्रत्यक्षपरोक्षज्ञानयोस्तौषाम-  
स्पष्टत्वादिति । ”

सारांशः—नारकीठं जे पुद्गलोने आहार करे ते पुद्गलोने अ-  
वधि ज्ञानथी न जाणे. ते पुद्गलोने जाणवानो नारकीना जीवोना  
अवधिज्ञाननो विषय नथी. नारकीठने लोमआहार होवाथी चक्षुष  
करीने पण जोई न शके. नारकीनी जेमज जवनपतिना असुरकुमारादि  
देवो पण न जाणे अने न देखे. x x x x x व्यंतर अने ज्योतिषी देवो पण  
नारकीनी जेम न जाणे अने न देखे. जे सम्यगृष्टि वैमानिक देवो ठे  
तेमने विशिष्ट अवधिज्ञान होवाथी ते जाणे अने विशिष्ट चक्षु हो-  
गयां देखे. मिथ्यादृष्टि वैमानिक देवो तो तेमनुं अवधि ज्ञान तथा चक्षुठं  
अस्पष्ट होवाथी न जाणे अने न देखे? कर्मण पुद्गलोने पण व्यंतर,  
जवनपति, ज्योतिषी, नवमभैवेयक पर्यंतना वैमानिक देवो न देखे  
अने न जाणे. श्रीप्रज्ञापञ्चासूत्रना पंदरमा पदना पहेळा उदेशानी  
टीकामां कहुं ठे के:-

“ वैमाणिया बुद्धिहा तं० माहमिच्छविद्धी उववत्तगा य’-  
व्याख्या—माया-सृतीयः कषाया साऽन्येषामपि कषायाणां सुपलक्ष ग माया  
विद्यते येषां ते मायिनः उत्कटरागद्वेषा इत्यर्थः ते च ते मिथ्यादृष्टयश्च मायि-

मिथ्यादृष्टयः तथारूपा उपपन्नका-उपपन्ना मायिमिथ्यादृष्ट्युपपन्नास्तद्विपरीता अमायिसम्यग्दृष्ट्युपपन्नकाः, इह मायिमिथ्यादृष्ट्युपपन्नकग्रहणेन नवमश्रैवेयक-पर्यन्ता परिगृह्यन्ते, यद्यप्यारातोयेष्वपि कल्पेषु श्रैवेयकेषु च सम्यग्दृष्टयो देवाः सन्ति तथापि तेषामवधिर्न कार्मणशरीरपुद्गलविषय इति । ”

सारांशः—माया त्रीजो कषाय तेना उपलक्षणार्थी अन्य पण कषायो ग्रहण करवा. कषाय वाळा मिथ्यादृष्टि ते मायिमिथ्यादृष्टि अर्थात् तीव्र रागद्वेषवाळा मिथ्यादृष्टि तया रूपे उत्पन्न. यथा ते मायिमिथ्यादृष्टि उत्पन्न यथा तेथी विपरीतपणे उत्पन्ना ते अमायिसम्यग्दृष्टि उत्पन्ना. अर्ही मायि मिथ्यादृष्टि उत्पन्न ग्रहण करवाथी नवमा श्रैवेयक सुधीना सर्व देवो जाणवा. जो के श्रैवेयकमां तथा कल्प देवलोकमां सम्यग्दृष्टि देवताळ ठे तो पण तेमनुं अवधिज्ञान कार्मण शरीर पुद्गल विषयक होतुं नथी अर्थात् श्रैवेयक सुधीना देवो अवधि-ज्ञानथी कार्मण पुद्गलोने देखे नहि.

अमायिसम्यग्दृष्टि-अनुत्तर विमानना देवो तेना वे जेद् एक अनंतर उत्पन्न थयेला अने बीजा परंपर उत्पन्न थयेला, तेमां अनंतर उत्पन्न थयेला ते न जाणे अने न देखे. परंपर उत्पन्न थयेलाना वे जेद्. एक अपर्याप्ता बीजा पर्याप्ता, अपर्याप्ता न जाणे न देखे. पर्याप्ताना वे जेद् एक उपयोगवाळा बीजा अनुपयोगी, अनुपयोगी न जाणे न देखे. जे उपयोगी पर्याप्ता अनुत्तर विमानना देवो ते देखे अने जाणे आ वास्तने स्पष्टपणे कहे ठे केः—

“ उपयुक्ता जानन्ति पश्यन्ति चावधिज्ञानेन तान्निर्जरापुद्गलानिति । ”

सारांशः—उपयोगवाळा पर्याप्ता अनुत्तर विमानना देवो अवधि-ज्ञाने करीने ते कार्मण पुद्गलोने जाणे अने देखे.

आ बन्ने पाठोथी स्पष्टपणे सिद्ध घाय ठे के नवम श्रैवेयक पर्यंतना देवो कार्मण पुद्गलोने न देखे अने न जाणे.

प्र०-१३०-लोच कयां कयां नक्षत्रोमां थइ शके ?

उ०-चरणी, कृत्तिका, विशाखा अने मघा, आ चार नक्षत्रोमां लोच करवानो निषेध ठे एटले ते शिवायनां नक्षत्रो तेमां शुच जा-  
णवां. श्रीगण्डिविज्ञापयन्नामां लखेल ठे के:-

“ शुणद्धसुणा पुस्तेण, सवणेण घणिहया ।

एएहि चरिक्खेहिं, लोयकम्माणि कारए ॥ २४ ॥

कितियाहि बिसाहाहिं, मघाहि भरणीहि य ।

एए चरिक्खेहिं, लोयकम्माणि वज्जए ॥ २५ ॥ ”

सारांश:-१ पुनर्वसु, २ पुष्य, ३ भ्रवण अने ४ धनिष्ठा आ चार  
नक्षत्रोमां लोच कर्म करवुं. १ कृत्तिका, २ विशाखा, ३ मघा अने ४  
चरणी आ चार नक्षत्रोमां लोच कर्म करवुं नहि. ॥ ३५ ॥

चार नक्षत्रोमां लोच करवो कइयो अने चार नक्षत्रोमां लोच करवानो  
निषेध करेल ठे. वाकीना उंगणीश नक्षत्रो अजिजित् गणीए तो वीस-  
नक्षत्रो रक्षां ते लोचमां मध्यम ठे एम आ पाठथी जाणवुं.

प्र०-१३१-साधु महात्माउनो स्वर्गवास कया कया नक्षत्रोमां  
थयो होय तो पुतळां करवानी जरूर पके ?

उ०-१ आर्द्रा, २ स्वाति, ३ अश्लेषा, ४ चरणी, ५ ज्येष्ठा, ६  
शतभिषा अने ७ अजिजित्, आ सात नक्षत्रोमां स्वर्गवास थयो  
होय तो पुतळां करवानी जरूर नथी. १ अश्विनी, २ कृत्तिका ३  
मृगशिरष, ४ पुष्य, ५ मघा, ६ पूर्वाफास्युनी, ७ हस्त, ८ चित्रा, ९  
अनुराधा, १० मूल, ११ पूर्वाषाढा, १२ भ्रवण, १३ धनिष्ठा, १४ पूर्वा-  
जाद्रपद अने १५ रेवती, आ पंदर नक्षत्रोमां साधु साध्वीए काळ  
कयो होय तो एक पुतळुं बनाववुं अने १ विशाखा, २ पुनर्वसु, ३  
रोहिणी, ४ उत्तराफास्युनी, ५ उत्तराषाढा, अने ६ उत्तराजाद्रपद



आ ढ नक्षत्रोमां काळधर्म पामेल होय तो वे पुतळां अवश्य करवां.  
श्री आवश्य सूत्रनी पारिष्ठापनिकानिर्युक्तिमां लख्युं ठे के:-

“ दोषि य दिवद्भलेते, दग्धमया पुत्तला ढ कायवा ।  
समलेत्तमि ढ एको, अवद्भग्भीए ण कायवो ॥ ४१ ॥  
तिन्नेव वत्तराई, पुणवसू रोहिणी विसाहा य ।  
ए ए छन्नकलत्ता, पणयालमुहुत्तसंजोगा ॥ ४२ ॥  
अस्तिणि कित्तिय मियसिर, पुसो महफणु हत्थ चित्ता य ।  
अणुराह मूल साढा, सवणवणिद्धय भद्रवया ॥ ४३ ॥  
तह रेवइत्ति एए, पन्नरस तासह मुहुत्ता ।  
नक्कत्ता नायवा, परिद्वर्णविहि य कुसलेण ॥ ४४ ॥  
सयभिसया भरणीओ, अहा अस्तेस साह जेद्धा य ।  
एए छन्नकलत्ता, पन्नरसमुहुत्तसंजोगा ॥ ४५ ॥

सारांश:-दोढकेत्री षट्ठे पीसताळीस मुहूर्तीयां नक्षत्रोमां का-  
जना वे पुतळां करवां. त्रीस मुहूर्तीयां नक्षत्रोमां एक पुतळुं काजनुं  
करवुं. पंदर मुहूर्तीयां नक्षत्रोमां तथा अत्रिजित नक्षमां पुतळुं करवुं  
नहीं ॥ ४१ ॥ ह्वे पीसताळीस मुहूर्तीयां कयां कयां, त्रीस मुहूर्तीयां  
कयां कयां अने पंदर मुहूर्तीयां कयां कया ते अनुक्रमे देखाने ठे. १  
उत्तराफळ्युनी, २ उत्तराषाढा, ३ उत्तराजाडपद, ४ पुनर्वसु, ५ रोहिणी,  
६ विशाखा, आ ढ नक्षत्रो पीसताळीस मुहूर्त्तना ठे तेमां कोई साधु  
अथवा साध्वीय काळ करेल होय तो काजनां वे पुतळां करवां ॥ ४२ ॥  
१ अश्विनी, २ कृत्तिका, ३ मृगशर, ४ पुष्य, ५ मघा, ६ पूर्वाफळ्युनी,  
७ हस्त, ८ चित्रा, ९ अनुराधा, १० मूल. ११ पूर्वाषाढा, १२ अवघण,  
१३ धनिष्ठा, १४ पूर्वाजाडपद, १५ रेवती, आ पंदर नक्षत्रो त्रीस  
मुहूर्त्तनां ठे. ते पारिष्ठापनिका विधिना कुशळ पुरुषोप जाणवा तेमां एक  
पुतळुं करवुं. ॥ ४४ ॥ १ शतजिषा, २ ज्ञरणी, ३ आर्द्रा, ४ अश्लेषा,  
५ स्वाति ढ जेष्ठा, आ ढ नक्षत्रो पन्नर मुहूर्त्तनां ठे. तेमां पुतळुं  
करवुं नहि. ॥ ४५ ॥

प्र०-१३३-श्रीतीर्थकरमहाराजा मातानी कृत्तिमां गर्भपणे अवधिज्ञान सहित जेम उत्पन्न थाय ठे तेम अन्य मनुष्य अवधिज्ञानसहित गर्जावासमां आवे या नहि ?

उ०-श्रीशान्तिनाथस्वामिनो जीव पोताना आठमा वज्रायुध नामना चक्रवतिना जवमां अवधिज्ञानसहित मातानो कृत्तिमां गर्भपणं उत्पन्न थया हुता एवुं कथन श्रीशान्तिनाथचरित्रमां ठे. श्री तीर्थकर महाराजाठं अवधिज्ञान सहित माताना गर्भमां आवो उत्पन्न थाय ठे तेम बीजा पय उत्तम पुरुषो उत्पन्न थाय.

श्री प्रज्ञापन्ना सूत्रना पांचमा पदनी टीकामां उल्लेख ठे के-

“ तिर्हि नाणेर्हि ” ति, यदा कश्चित् तीर्थकरो अनुत्तरोपपातिकदेवो वा अमतिपतितेनावधिज्ञानेन जघन्यामवगाहनायामुत्पद्यते तदाऽवधिज्ञानमपि उभ्यते इतीह त्रिभिर्ज्ञानैरित्युक्तम् । ”

सारांशः-जघन्य अवगाहना मनुष्यमां ' तिर्हि नाणेर्हि ' आ सूत्रनी व्याख्या करतां टीकाकार महाराज श्रीमलयगिरिजी जगवान् कहे ठे केः-ज्यारे कोई तीर्थकरदेव अथवा अन्य कोई अनुत्तरोपपातिक देव अवधिज्ञानसहित जघन्य अवगाहना मनुष्यमां उत्पन्न थाय त्तारे अवधि ज्ञान पण लाजे तेथी अर्ही त्रण ज्ञान कक्षां.

तथा श्रीजगवती सूत्रना त्रीजा शतकना त्रीजा उद्देशानी टीकामां कछुं ठे के-

“ अवधिज्ञानं क्षेत्रतः कियच्चिरं भवति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि कालतस्तु सातिरेका षट्षष्टिरिति । ”

सारांशः-अवधि ज्ञान क्षेत्रथी केटला काल होय ? तेत्रिंश-सागरोपम, कालथी अवधि ज्ञान केटला काल ? ठासठ सागरोपमथी अधिक काल आ पाठथी पण श्रीतीर्थकर महाराज शिवाय अन्य

પણ ઉત્તમ પુરુષો અવધિજ્ઞાન સહિત ગર્જાવાસમાં આવે યમ સિદ્ધ થાય છે.

પ્ર૦-૧૩૩-અવધિજ્ઞાનનો વિષય રૂપી પદાર્થને જાણવાનો છે અને મનઃપર્યાય-જ્ઞાની પણ મનોવર્ગણાના પુદ્ગલોનેજ જાણે છે તેમજ મનોવર્ગણાનાં પુદ્ગલો રૂપી પણ છે તો પઠી મનઃપર્યાયજ્ઞાનને જુદું માનવાની જરૂર શી છે ? અવધિજ્ઞાન અસંખ્યાત જેદે છે તેમાં તેનો સમાવેશ કરવામાં બાધક શું ?

ઉ૦-મનઃપર્યાયજ્ઞાન દર્શન વિના કેવલ મનોદ્રવ્યનુંજ પ્રહ્ણ કરે છે. અવધિજ્ઞાન દર્શનપૂર્વક કોઈક મનોવ્યતિરિક્તગ્રાહી અને કોઈક ઉજયગ્રાહી હોવાથી જિજ્ઞ છે. શ્રીજગવતી સૂત્રના પ્રથમ શ્લોકના ત્રીજા ઉદ્દેશનાની ટીકામાં કહ્યું છે કે:-

“ મનઃપર્યાયજ્ઞાનં મનોમાત્રદ્રવ્યગ્રાહકમેવાદર્શનપૂર્વકં ચ, અવધિજ્ઞાનં તુ કિષ્કિન્મનોવ્યતિરિક્તદ્રવ્યગ્રાહકં કિષ્કિન્બોમયગ્રાહકં દર્શનપૂર્વકં ચ । ”

સારાંશઃ-મનઃપર્યાયજ્ઞાન, કેવલમનોદ્રવ્યને પ્રહ્ણ કરનાર હોય અને દર્શનથી રહિતજ હોય. અવધિજ્ઞાન દર્શનપૂર્વક હોય અને કોઈક અવધિજ્ઞાન મનઃપર્યાય દ્રવ્યથી વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યને પ્રહ્ણ કરે અને કોઈક અવધિજ્ઞાન મનોદ્રવ્ય તથા અન્ય દ્રવ્યને ઉજયને પ્રહ્ણ કરનાર હોવાથી મનઃપર્યાય જ્ઞાનથી અવધિજ્ઞાન જિજ્ઞ છે, તથા અવધિજ્ઞાનના સ્વામી શ્વરે ગતિના જીવો છે અને મનઃપર્યાય જ્ઞાનના સ્વામી તો સાધુ મહર્ષિઉંજ છે.

શ્રી પ્રહ્ણાપત્તા સૂત્રના પાંચમા પદની ટીકામાં કહેલ છે કે:-

“ ચારિત્રિણામેવ મનઃપર્યાયજ્ઞાનસદ્માવાત્ । ”

સારાંશઃ-ચારિત્રપાત્ર મહર્ષિ મહાત્માઉંનેજ મનઃપર્યાયજ્ઞાનનો સદ્જાણ હોવાથી, શ્રીનંદીસૂત્રની ટીકામાં તથા શ્રીપ્રહ્ણાપત્તા

सूत्रनात्रीजा पदनी टीकामां पण 'आमर्षोषध्यादि लब्धिवंत महर्षि-  
र्त्तने मनःपर्यायज्ञान उत्पन्न थाय' एवा स्पष्ट उल्लेखो ठे ते पाठो प्रश्न  
१ए मां लखेखे होवाथो अहीं लखेल नथी.

प्र०-१३४-देवो मद्यमांसादि पदार्थोतुं जक्षण करे ?

उ०-देवोने आहारनी झ्हा थाय के तरतज सारपुद्गलो सर्वांगे  
परिणत थाय ठे. देवोने कवलाहार होतो नथी. जे चंकिना, महा-  
काळी आदि हिंसक देवो ठे ते पूर्वजवना अज्यासथी मद्यमांसादि-  
कनी आहुतिने मात्र देखवाथोज संतुष्ट थाय ठे पण जोजन करता  
नथी. श्रीश्लोकप्रकाशना वारमा सर्गमां महोपाध्यायजी श्रीमान्  
विनयविजयजी महाराजे स्पष्ट उल्लेख करेलो ठे के:-

“ आहारे चित्तसंकल्पो-परिणताः सारपुद्गलाः ।

सर्वांगेषु परिणमं-त्येषां कावलिकस्तु न ॥ ६५ ॥

ये तु हिंसाः सुरा वीर-चंडिकाकालिकादयः ।

मद्यमांसायाहुतिभि-स्तुष्यन्ति तपिता इव ॥ ६६ ॥

तेऽपि पूर्वमथाभ्यासात्, पापा मिथ्याभवमोहिताः ।

मद्यमांसादि चिन्त्यैव, तुष्यन्ति न तु मुंजते ॥ ६७ ॥ ”

सारांशः-देवतात्तने कवलाहार होतो नथी. आहार करवानो  
मनमां संकल्प मात्र थवाथी सारपुद्गलो उपस्थित थइ सर्व अंगोमां  
परिणत थाय ठे. वीरचंकिना, काळिकादिक जे हिंस्रदेवो मद्यमां-  
सादिकनी आहुतिथी तृप्तनी जेम संतोष पामे ठे ते पण मिथ्यात्वथी  
मोहित थयेला पापी देवो पूर्व जवना अज्यासथी मद्यमांसादिकने  
देखीनेज संतुष्ट थाय ठे पण कवलाहार तेमने न होवाथी तेठ  
खाता नथी.

प्र०-१३५-वर्त्तमान समयमां कोईक साधु तथा कोईक श्रावक कहे  
ठे के 'श्रीजिनागममां ज्यां ज्यां प्रतिमापूजाना पाठ ठे त्यां केवल चंदन-

पूजानुंज वर्णन आवे ठे पण केशरनुं वर्णन आवतुं नथी' आ प्रमाणे कही श्री जिनपूजामां केशरनो निषेध करे ठे ते योग्य ठे ?

उ०—' श्री जिनेश्वरदेवनी पूजामां शास्त्रमां केशरनुं वर्णन नथी एम कहेनार साधु के एहस्थे जैनशास्त्र कोइ बखत बांचेल होय अथवा सांजलेख होय एम संजवतुं नथी अन्धथा आ प्रमाणे मिथ्या-जाषण केम करे ? शास्त्रमां स्थान स्थानमां पूजामां केशरनुं विधान ठे. ते संबंधी केटलाक पाठेनुं दिग्दर्शन करावुं ठुं. महोपाध्यायजी श्री मानविजयजी महाराज श्रीधर्मसंप्रहमां लखे ठे के:-

“शुद्धगन्धोदकप्रक्षालनकुंकुममिश्रगोशीर्षचन्दनविलेपनाङ्गीरचनगोरो-  
चनसुगमदादिपत्रमङ्गकरणानाजातीयपुष्पमालारोपणचीनांशुकवल्गुपरि-  
धापनकृष्णाद्युक्तमिश्रकर्पूरदहनानेकदीपोद्योतनस्वच्छालस्रष्टाक्षताष्टमङ्गलाले-  
खनत्रिचित्रपुष्पगृहरचनादि विवेकम्”

सारांश:-शुद्ध अने सुगन्धि जळे करीने प्रक्षालन, केसरमि-  
श्रित गोशीर्ष चंदने करी विलेपन, आंगीनुं रचवुं तथा गोरोचन,  
कस्तुरी वगैरेथी पत्रादि ( बुटा )नी रचना, अनेक जातिना पुष्पोनी  
मालानुं चढाववुं, चीनाइ वल्लनुं पहेराववुं, कृष्णागरु मिश्र कर्पूरनो  
धूप, अनेक दीपकोनो प्रकाश अने स्वड्ड, अलंकार चोखाथो अष्टसं-  
गलनुं आलेखन तेमज त्रिचित्र पुष्पगृहनी रचना करवो. श्रीज्ञान-  
सारमां न्यायाचार्य श्रीयशोविजयजी महाराजे कथुं ठे के:-

“भक्तिभक्तानघुष्टगोन्मिश्रपाटीरजद्रवैः ।”

श्रीन्यायाचार्य पोतेज बनावेख ज्ञानसारना टत्रामां उपरोक्त  
पूर्वार्द्धनो अर्थ नीचे प्रमाणे कर्यो ठे:-

जक्ति क० आराध्यता ज्ञान, भक्तान क० ' एत अष्टे ' एह्वी  
सद्दृष्टा ते रूप जे ' बुद्धगोन्मिश्रपाटीरजद्रवैः ' क० केसरमिश्रित  
चंदनरस तेषे करी.

- १ "असंसकशोषितजात्यकेसरकर्पूरादिभिश्चोसंबधर्षणं "
- २ " कर्पूरकुंडुमादिभिश्चोशीर्षचन्दनविलेपनाङ्गीविधानादि "
- ३ " केसरबहुलचन्दनविलेपनेन "

सारांशः—१ जंतु रहित अने साफ करेहुं उत्तम जातिनुं केसर अने कर्पूरादिके करीने मिश्रित चंदननुं घसवुं. २ कर्पूर अने केसरादियो मिश्रित गोशीर्ष चंदननुं विलेपन अने आंगोनी रचना करवी विगेरे. ३ केसर मिश्रित चंदनना विलेपने करीने. आ प्रमाणे श्री आरूविधिमां त्रण पाठो ठे.

श्री आचारोपदेशमां श्रीमान् चारित्रसुंदरगणीजोष कहेल ठे कैः—

“ सधंदनं सकाश्मीरं, विनार्चां न विरच्यते ” ।

सारांशः—१ केसरे करीने सहित एवा शुद्ध चंदन विना जि-  
नेश्वर देवनी अर्चा नाम पूजा अह शक्रे नहि.

“ गन्धोदकादिभिः स्नपनं, सुरभिसुकुमालवक्षेणांगदुच्छनं, घनसार-  
कुंडुमादिभिर्विलेपनांग्यादिविधानं ” इति—( श्रीसंघाचार भाष्ये श्रीमद्भरि-  
मद्रसूरीश्वरादिसंघन्यश्रीललितविस्तराद्यन्तर्गत—“पुष्पामिषस्तोत्रप्रतिपत्ति-  
पूजानां यथोत्तरं प्राधान्यमिति ” एतत्पाठाशयाविष्करप्रसंगे श्रीधर्मबोध-  
धरयः )

सारांशः—सुगंधी जलादिष करीने स्नान कराववुं, सुरजि अने सुकोमल वस्त्रे करीने अंगसुंठन करवुं. बरास अने केसर विगेरे करीने विलेपन अने आंगी आदिनुं रचवुं. आ प्रमाणे श्री संघाचारं ज्ञाप्यमां श्रीमान् हरिजसूरीश्वरजी महाराजा विगेरेष घनावेश लत्रित विस्तरा आदि ग्रन्थोमां आवताः—

“ पुष्पामिष स्तोत्रप्रतिपत्तिपूजानां यथोत्तरं प्राधान्यमिति ”

आ पाठनो आशय प्रगट करवाना प्रसंगे श्रीमान् धर्मबोध-  
सूरिजी महाराज कहे ठे.

श्रीयोगशास्त्रमां कलिकालसर्वज्ञ जगवान् श्रीमद्धेमचन्द्रसूरी-  
श्वरजी महाराजाय कथं ठे के:-

“सर्वौषधिकर्पूरकुंकुमश्रीखण्डागरुमृत्तिभिर्जलमिश्रैर्घृतदुग्धप्रभृतिभिः  
स्नात्रकरणम्” इति—

सारांशः—सर्वौषधि, कर्पूर, केसर, चंदन अने अग्ररु वगैरेची  
तेमज जळमिश्रित घी अने दुध वगैरेची स्नात्र करवुं.

श्री पंचस्तुमां तथा तेनी टीकामां जगवान् श्रीहरिजडसूरी-  
श्वरजी महाराजाय कथं ठे के:-

“सुगंधघृषूपपाणिभ्रसखोसहिमाहृदि य ण्ववर्ण

कुंकुमगाहविलेपणमसुरहिं मणहरं मछं ॥ ३२ ॥” इति-

तद्वृत्तौ च “शुभगन्धघूपानीयसर्वौषध्यादिभिस्तावत् स्नपनं प्रथममेव  
स्यः कुंकुमादिभिलेपनं तदतिसुरभिगन्धेन मनोहारि दर्शनेन च माल्यमिति”

सारांशः—सुगंधवाळुं अने घूपची घूपित यवुं पाणि अने दरेक  
जातनी श्रौषधि वगैरे करीने प्रथम स्नान कराववुं त्यारवाद केसर  
आदिघ करीने विलेपन करवुं अने गंधे करीने अति सुगंधवाळी तेमज  
दर्शने करीने मनोहर पवी माळानुं चढाववुं.

श्रीमान् पूज्यपाद् श्रीदेवेंद्रसूरीश्वरजी महाराज श्रीभारूदिन-  
कृत्य नामा ग्रंथमां खखे ठे के:-

“दुसिणकप्पूरमीसं, कावं गंधोदगे वरं ।

तन्नो शुवणनाष्टे ष, न्हवेह मत्तिसंशुत्तो ॥ ५८ ॥

कप्पूरमीसियं कावं, कुंकुमं चंदनं तदा ।

तन्नो य जिणर्विबाणि, भावेण मणुलिंपए ॥ ३१ ॥”

सारांशः—केशर अने कपूरे करीने मिश्र श्रेष्ठ सुगंधी जस करीने  
ते पढी जकिवान् आस्मा त्रण शुवनना स्वामिने स्नान करावे ॥५८॥  
केशर तथा चंदनने बरासथी मिश्रित करीने ते पढी जावपूर्वक

श्रीजिनेश्वर जगवन्तना विंशोने विखेपन करतुं. ॥ ६१ ॥

श्रीधर्मरत्नप्रकरणनी स्वोपद्द टीकामां पूज्य श्रीशांतिसूरिजी महाराजे श्रीतत्त्वार्थसूत्रादि पांचसो ग्रंथना कर्त्ता श्री उमास्वातिवाचक महाराजकृत पूजाविधितुं केसरने विहित करतुं काव्य लखेख ठे:-

“ सर्पिंदुग्धदधिप्रनुद्धकुसुमैधुंपाम्बुदीपैस्तथा,  
गन्धस्नात्रसुगन्धचन्दनरसैः प्रत्यग्रसत्कुंकुमैः ।  
पूजां निर्जितद्विषोऽमलधियः कुर्वन्ति ये भावतो,  
शुक्त्वा सौख्यमिहामरं च सततं ते यान्ति शीघ्रं शिवम् ॥ १ ॥  
इति श्री उमास्वाति वाचककृतपूजाविधौ इत्युक्तमस्ति ।”

सारांशः-धी, दुध, दर्ही, प्रफुल्लित कुसुम, धूप, जख अने दीवाप करीने तथा गंधस्नात्र तथा सुगंधी चंदननो रस अने स्वह्म-श्रेष्ठ केशरे करीने श्री वीतरागदेवनी जे निर्मल बुद्धिवानो जावथी पूजा करे ठे ते देवताना सुनिरंतर सुखोने जोगवीने अविखंबे मोक्षमां वीराजमान घाय ठे ॥ १ ॥ आ प्रमाणे श्री उमास्वाति वाचक महाराजकृत पूजाविधि नामा प्रकरणमां केशरतुं प्रतिपादन करेख ठे. संमाननीय श्रीसंमतितर्कनो वृत्तिमां पण कहुं ठे के:-

“ भगवत्प्रतिमाया भूषणाधारोपणं कर्मक्षयकारणं कर्तृमनप्रसादजनकत्वात् कुंकुमाथालेपनवत् ॥”

सारांशः-श्रीजिनेश्वर जगवान्नी प्रतिमाने आचूषण आदिनुं आरोपण केसरना विखेपननो माफक (आदि शब्दथी चहु, तिलक, आंगीरचना) चूषण चक्रावनारना मनने प्रसाद उत्पन्न थवानुं कारण होवाथी, कर्मक्षयनुं कारण ठे.

आ पाठमां श्रेतांबर दिगंबर बसे पक्षने प्रमाणभूत केशर पूजाना दृष्टांतथी आभूषणनो सिद्धि करी ठे. वर्त्तमान कालमां केटलाक श्रद्धाहिनो चहु, तिलक, आचूषण श्रोवत्स आदि विष नाना



प्रकारनी शंकाळ करे ठे तेमने आ संमतिसुत्रनी वृत्तिना पाठथी असत्य शंकाळ करी आत्मानुं ग्रधःपात्र न थाय तेम वर्त्तन करवा जरू ठे. तथा 'श्रीसुपासनाहचरिय' त्ना द्वितीय प्रस्तावमां लखेध ठे के:-

“ तित्येसरस्स वेहं, जयणाए ल्हिऊण सव्वत्तो ।

अव्वह य सुरहिगोसीसचंदण-संमीसव्वसिण्णं ॥ २८२ ॥ ”

सारांशः-यतनापूर्वक अंगलुणाए करीने चारे वाजुएथी श्रीती-  
र्थकर महाराजना शरीरने साफ करीने गोशोर्वचंदन मिश्रित केशरे  
करीने पूजा करे. ॥ २८३ ॥

श्रीतिलकाचार्यकृत प्रतिष्ठाकल्पमां पण उल्लेख ठे के:-

“ काश्मीरनीरपूरैः, क्रियमाणस्नात्रमत्र जिनबिम्बम् ।

मव्यजनचित्तर्गे-रिव रक्तं हरतु इरितानि ॥ १ ॥ ”

सारांशः-जव्य जनोना मनना रागे करीने रक्त एवा केशरना  
जखना समूहे करीने स्नात्र करावातुं श्रीजिनेश्वर जगवंतनुं बिम्ब जव्य-  
जनोना पापोने हरण करो.

षतुर्दश पूर्वश्वर श्रुतकेवली जगवान् श्री जडवाहुस्वामिनी  
महाराजे पण श्रीपूजापंचाशिकामां लखेध ठे के:-

“ सुहृदवं हि बरासं, कुंकुमधर्षं सुगिन्हृए काले ।

चंदणसुगवसहियं, विलेचणं वि य फलं सेर्य ॥ १२ ॥ ”

सारांशः-श्रीजिनश्वरदेवने शिष्मकाष्ठमां शुज डव्य चंदननो  
सुगंध सहित बरास अने अल्प केशरनुं विलेपन पण मोक्षना फलने  
आपे ठे.

आ शिवाय अन्य ग्रंथोमां केशरना पाठो घणाज ठे माटे जे  
कोइ केशरनो निषेध करे ठे ते श्रीजिनेश्वरदेवनी पूजामां अंतराय  
करनार ठे. श्रीजिनेश्वरदेवनी पूजामां अंतराय करवाथी महा कदवा  
विपाक जोगववा पने ठे तेनाथी करनार जव्यजनोए केशरनो निषेध  
करवो योग्य नथी.

प्र०-१३६-आलोकने अर्थे व्याधिना प्रतिकारने माटे वैद्यादिकनी चिकित्साकारनी जेम प्रज्ञावशाळी यद् यक्षिणीनी कोई मानता पूजा करे तो कंई बाधक आवे ?

उ०-वर्तमान काळमां आ लोकना कार्यने अर्थे प्रज्ञावशाळी यद् यक्षिणी आदि देवोनी पूजा मानता करवाची वक्र अने जरूजीवोने मिथ्यात्वनुं कारण थवाची मिथ्यात्व लागे अने तेथी परजवमां दुर्लभबोधपणाने प्राप्त थाय.

श्रीशारूप्रतिक्रमणसूत्रनी वृत्तिमां कहुं ठे के:-

“ यथा वैद्यादयो व्याधिप्रतिकारार्थं धनभोजनवसनादिना बहु मन्यन्ते तथा सप्रभावयक्षयक्षिण्यादीनामप्यैहलौकिकफलार्थं पूजोपयाचितादौ को दोषः ? मिथ्यात्वं हि तदा स्याद्यदि मोक्षप्रदोऽयमिति बुद्ध्याऽऽराध्येत यदाहुः—

‘ अदेवे देवबुद्धियां, शुकवीरशुरौ च या ।

अधर्मे धर्मबुद्धिश्च, मिथ्यात्वं तद्विपर्ययात् ॥ १ ॥ ’

श्रूयते च-विशुद्धसंन्यक्त्वा रावणकृष्णभेणिकाभयकुमारादयोऽपि शत्रुं-जयपुत्रप्राप्त्याद्यैहिककार्यार्थं विद्यादेवतापाराधनं कृतवन्त इति, ततश्चेहलौकार्थं यक्षापाराधनेऽपि किं नाम मिथ्यात्वं ? सत्पद्म, तत्त्ववृत्त्याऽदेवस्य देवत्वबुद्ध्याऽऽराधन एव मिथ्यात्वं तथाऽपि यक्षापाराधननिहलौकार्थमपि आबकेण वर्जनीयमेव, प्रसंगाद्यनेकदोषसंभवात् । प्रायो हि जीवा मन्दबुद्धवक्रबुद्धयः, सम्प्रति च विशिष्य ते ह्येवं विशुद्धान्ति-यद्यनेन विशुद्धसंन्यक्त्वेन महात्मना यक्षापाराधनं विधियते तदा नूनमयमपि देवो मोक्षप्रदतया सम्यगाराध्य इत्यादिपरम्परया मिथ्यात्वबुद्धिस्थिरीकरणप्रसंगः । तथा वैहिकफलार्थमपि यक्षापाराधकस्यापि प्रेत्यबोधिदुःप्रापः । उक्तं च-

‘ अज्ञेसि सत्ताणं, मिच्छत्तं जो जणेहं सूहपा ।

सो तेण निमित्तेण, न लहइ बोहिं जिणाभिहिं ॥ १ ॥ ’

रावणकृष्णादिभिश्च तत्समयेऽहं धर्मस्येतरधर्मेभ्योऽतिशायिमया सर्वप्रतीतत्वेनापवादपदे यदि विद्याराधनादि कृतं तथापि तदालम्बनग्रहणं नो चिन्म । यतः-

‘ जाणिल्ल मिच्छदिहो, जे य परालंबणाह विपंति । ’ ॥ ”

सारांशः—जेम व्याधिना प्रतिकारने अर्थे धन, चोजन अने व-  
 छादिकोए करीने वैद्यादिकोने बहु मानीए ठीए तेम प्रजावशाळी  
 यक्ष यक्षणीर्तने पण आ लोकना फळने अर्थे पूजा मानतादि कर-  
 वामांशो दोष ठे ? मिथ्यात्व दोष तो त्यारे लागे के जो मोक्षना दाता  
 आ देव ठे एवी बुद्धिची आराधन करीए. कष्टं ठे के—अदेवमां जे  
 देवबुद्धि तथा अगुरुमां जे गुरुबुद्धि अने अधर्ममां धर्मबुद्धि आ  
 प्रमाणे विपरीतपणाची मिथ्यात्व कह्णीए. सांजळीए ठीए के निर्मल  
 हठ सम्यग्दृष्टि श्रीरावण, श्री कृष्णमहाराज, श्रीश्रेणिक महाराजा  
 अने श्रीअज्ञयकुमारादिकोए पण शत्रुना जयने अर्थे, पुत्र प्राप्ति आदि  
 आलौकिक अर्थे विद्यादेवतादिनुं आराधन कोल ठे. तो पढी आ  
 लोकना अर्थनी सिद्धि माटे यक्षादिनुं आराधन करवुं एमां मि-  
 थ्यात्व केवी रीते ? सत्य ठे. तत्व वृत्तिषो अदेवने देवनी बुद्धिची  
 आराधन करवुं तेज मिथ्यात्व ठे तो पण यक्षादिनुं आ लोकने  
 अर्थे आराधन करवुं प्रसंगादि अनेक दोषोनो संभव होवाची आ-  
 वकोने वर्जनीय ठे. प्राय मंदबुद्धि, मुग्ध अने वक्रबुद्धि जीवो वर्त-  
 मान कालमां विशेष करीने ठे, तेठ आ प्रमाणे विचार करे के—आ  
 विशुद्ध सम्यक्त्ववंत महात्मा यक्षादिनुं आराधन करे ठे त्यारे नि-  
 श्चयची आ देव पण मोक्षनो दाता अने आराधन करवाने योग्य  
 ठे. इत्यादि परंपराए करीने मिथ्यात्वनो वृद्धि अने (मुग्ध लोकोने)  
 मिथ्यात्वमां स्थिर करवानो प्रसंग आवे. तेची आलोकना फळने  
 अर्थे पण यक्षादिनुं आराधन करनार परजवमां दुर्लभबोधी थाय ठे.  
 कष्टं ठे केः—अन्यजीवोने मिथ्यात्व जे मूर्ख आत्मा पेदा करे ते जीव  
 अन्यने मिथ्यात्व पेदा करवाना कारणची श्री जिनेश्वर जगवाने क-

हेल बोधिने प्राप्त न थाय. श्रीरावण अने श्रीकृष्णमहाराजादि-  
कोष ते काळसां अन्य धर्मोत्थी श्री अर्हत् जगवान्ना धर्मतुं अति-  
शायीपणुं सर्व जनोमां प्रतीत होवाथी अपवादथी विद्यातुं आराधन  
कर्यु तो पण तेमतुं आखंबन ग्रहण करतुं उचित नथो. कहुं ठे के:-  
जे पन्वाने माटे बीजानुं आखंबन ग्रहण करे ते मिथ्यादृष्टि जाणवो.

प्र०-२३७-श्रीजिनेश्वरदेवनी नवांगे पूजा करवानुं शास्त्रोक्त ठे ?

उ०-२ अंगुठे, २ ढींचणे, ३ हस्ते, ४ खजे, ५ मस्तके, ६ क-  
पाले, ७ कंठे, ८ हृदये, ९ उदरे आ नव अंगे पूजा करवानुं श्रीप्र-  
ज्ञापक्षा सूत्रना रचयिता श्रीश्यामाचार्य महाराजना गुरु अने श्रीतत्त्वा-  
र्थमहासूत्रादि पांचसो ग्रंथना कर्ता श्री उमास्वाति वाचक महाराजे  
पूजाप्रकरणमां कहुं ठे के:-

“ अत्रिजातुकरासेषु, सृष्टिं पूजा यथाक्रमम् ।

भाले कंठे हृदांभोजो-दरे तिलककारणम् ॥

नवमिस्तिलकैः पूजा, करणीया निरन्तरम् । ”

सारांश:-१ चरण अंगुठे, २ ढींचणे, ३ हस्ते, ४ खजे, ५ मस्तके,  
६ कपाले, ७ कंठे, ८ हृदये अने ९ उदरे आ प्रमाणे क्रमे करीने तिलक  
करवां. आ प्रमाणे नव तिलकोथी निरंतर पूजा करवी.

आपाठथी “ प्रजुना सर्वांगे मस्तकथी चरण पर्यंत उक्त शीतळ  
द्रव्योवती ज्ञाविकजनोए सदाय विलेपन करतुं जोइए मात्र अमुक  
अंगे तिलक करवा करतां सर्वांगे सर्वोत्तम शीतळ द्रव्योवती विलेपन  
करवामां अन्यास जविकजनोए राखवो जोइए ” आ प्रमाणे विरुद्ध  
खनार तथा बोलनार शास्त्रना उत्यापक ठे ए स्पष्ट ठे तथा श्री  
चण्द पूर्वधर श्रुत केवली जगवान् श्रीजगद्गुरु स्वामिजी महाराजे  
पण पूजापंचाशिकामां खखेल ठे के:-

“नृवणे पच्छा तिलथं नव अंगमि य तेरसे ठाणे ”

सारांशः—ज्ञान विगेरे कर्या पढी प्रजुना नव अंगे अने तेर स्थाने तिलक करवां १ चरणना बे अंगुठे, बे डींचणे, ३ बे हाथे, ४ बे खजे, चार अंगना आठ स्थानोमां अने बाकी ५ मस्तक, ६ कपाळ, ७ कंठ, ८ हृदय अने एनात्रि आ पांच अंगोना पांच स्थान मली नव अंगना तेर स्थानमां तिलक करवां.

प्र०-१३७-श्रीअरिहंत जगवान्ना मंदिर उपर रहेल ध्वजानी ठाया पदस्थना घर उपर पके तेनुं शुं फळ ?

उ०-दिवसनो प्रथम पहोर अने चोषा पहोरने वर्जी बीजा पहोरनी तथा त्रीजा पहोरनी ठाया पके ते सर्वथा सारी नहीं.

श्री वास्तुसारमां कथुं ठे के:-

“ पथमंतजाम वज्जिय, धयाइ वृत्तिपहरसंभवी छाया ।

वृक्षदाया नाथवा, तमो पजत्तेण वज्जिजा ॥ १ ॥ ”

सारांशः—दिवसनो प्रथम अने चतुर्थ पहोर ठोकी ध्वजादिनी बीजा तथा त्रीजा पहोर संबंधी ठाया दुःखदायक जाणवी ते माटे प्रयत्ने करी वर्जवी अर्थात् पहेला अने चोषा पहोरनी ठाया कंइ पण नुकशान करता नथी.

श्रीविवेकविलासना आठमा उद्धासमां पण कहेल ठे के:-

“ प्रथमांतपयामवर्जी, द्वित्रिपहरसंभवी ।

छाया वृक्षध्वजादीनां, सदा दुःखप्रदायिनी ॥ ९१ ॥ ”

सारांशः—पहेला अने अंत्य-चतुर्थ प्रहरने ठोकी बीजा अने त्रीजां पहोरमां उत्पन्न थयेली वृक्षानी अथवा ध्वजादिकनी ठाया घर उपर पके ते निरंतर दुःखदायक ठे.

प्र०-१३८-श्री वर्द्धमानतपनी उळीनी आराधना करनारा

उत्तम आत्मा के जेठ पचास, साठ के सीतेर उठ्ठी अथवा तेथी पण अधिक आगळ वधी गया हांय तेठ आर्यबिलमां ठाशथी बनेली वस्तुनो उपयोग करी शके या नहि ?

उ०-आर्यबिलमां ठाशथी बनेली कोइ पण वस्तुनो उपयोग थइ शकेज नहि. आर्यबिलमां ठाशथी बनेली वस्तुनो उपयोग करवाथी तो तेना प्रत्याख्याननोज जंग थाय. ठाशथी बनेली वस्तुनो उपयोग करीने करवामां आवता आर्यबिलनी स्थिति विष्णुना फळाहारी उपवासना जेवीज थइ जाय. श्रमण जगवान् श्रीमहावीरस्वामिना शासनमां वधारेमां वधारे बमासी तपनी आह्ना ठे तेनो आराधना कोइ दुध के ठाश पीने करवा लागे तो ते नज थइ शके, तेवीज रीतिए ठाशथी बनेली चीजनो उपयोग करीने कोइ श्री वर्द्धमान तपनी उठ्ठीनी आराधना करवा छ्हे तो ते पण थइ शके नहि, कारणके कोइ जैनशास्त्रमां तेम करवानुं फरमान नथी या प्रामाणिक परम्परा ( आची परम्परा पण श्रीजिनशासनमां आंगमवत् मनाथ ठे अने पूजाय ठे ) थी अचार पण नथी. माटे तपना अर्थि आत्माए आर्यबिलमां पण ठाशथी बनेली वस्तुने जोजनमां वापरीने तपनी आराधनाने धदखे विराधनाना जागीदार न बनवुं.

प्र०-२४०-सस्यगूढाननो आराधना माटे जे चवथ आत्माए शुक्ल पंचमीनो उपवास अंगीकार कर्यो होथ तेणे चांदरवा सुदि पंचमीना दिवसे उपवासज करवो जोइए के न करे तो पण आखे ? वळी जेने तिथिए लोजोतरीनो नियत होय तेने पांचमना दिवसे लोखुं शाक खावाने कल्पे ?

उ०-शक्ति होय तो चोथ अने पांचमनो ठठ करे, शक्ति न होय

तो चोथना दिवसे उपवास करवाथी चाखे, पांचमना दिवसे लोखो-  
तरीना नियमवाळाने जादरवा शुदी ५ मे लोखुं शाक तो खावाने  
सर्वथा न कष्टे. पादशाहप्रतिबोधक परमप्रजावक जगद्गुरु श्री-  
विजयहीरसूरीश्वरजी महाराजाएहीरप्रभमां खुलासो करेल ठे के:-

“ पर्युषणोपवासः पञ्चमीमध्ये गण्यते न वा इति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्-पर्यु-  
षणोपवासः षष्ठकरणसामर्थ्याभावे पञ्चमीमध्ये गण्यते, नान्यथेति ॥७॥ ”

सारांशः-संवत्सरी ( जादरवा शुदी ४ )नो उपवास पांचममां  
गणाय के नहि इति प्रश्न अत्र उत्तर-ठठ करवानी शक्तिना अजावे  
जादरवा शुदी चोथनो उपवास पांचममां गणाय पण ठठ करवानी  
शक्तिवाळाने गणाय नहि. ॥

आ पाठमां शक्तिवाळाने ठठ करवा ज्यारे श्री जगद्गुरु महाराज  
फरमावे ठे तो लोखुं शाक तो खवायज केम ? तथा बळी लखे ठे के:-

“ येन शुक्लपंचम्युबरिता भवति स यदि पर्युषणायां द्वितीयातोऽष्टमं  
करोति तदैकान्तेन पंचम्यामेकाशनकं करोति उत यथारुच्या इति प्रश्नोऽत्रो-  
त्तरम्-येन शुक्लपंचम्युबरिता भवति तेन मुख्यवृत्त्या तृतीयातोऽष्टमः कार्यः,  
अथ कदाचित् द्वितीयातः करोति तदा पंचम्यामेकाशनकरणप्रतिबन्धो  
नास्ति, करोति तदा भव्यमिति ॥ १४ ॥ ”

सारांशः-जेणे शुक्ल पंचमी उच्चरेल होय ते जो पर्युषणामां  
शुदी बीजथी अट्टम करे तो पांचमने दिवसे एकांते एकासणुं करे के  
जेम श्हा होय तेम करे इति प्रश्न अत्र उत्तर-जेणे शुदी पंचमी उ-  
च्चरी होय तेणे मुख्यवृत्तिथी जादरवा शुदी त्रोजथी अट्टम करवो.  
जो कदाचित् बीजथी अट्टम करे तो पंचमीना दिवसे एकासणुं कर-  
वानो प्रतिबंध नथी करे तो श्रेष्ठ ठे. ॥ १४ ॥

आ पाठमां श्रीजगद्गुरुमहाराज पंचमीनुं जेम आराधन थाय  
तेमज फरमान करे ठे. अट्टमनो तप पण मुख्यवृत्तिथी त्रोजथीज

करवा ज्यारे कहे ठे तो ते दिवसे लीलोतरोतुं शाक तो अवश्य वर्जवुंज योग्य ठे,

प्र०-१४१- 'सूक्ष्मनिगोदना जीवोने पण ज्ञान अक्षरना अनंतमा जागे तो अवश्य उघाकुंज रहे ठे' आ प्रमाणे वर्णन घणां शास्त्रोर्मा ठे तो 'अक्षरनो अनंतमो जाग' आमां आवता 'अक्षर' शब्दनो अर्थ शो ?

उ०-जीवोथी सदाकाल क्षरे नहि-नाश पामे नहि तेतुं नाम अक्षर अर्थात् ज्ञान कहीए, आ अर्थ निश्चित थाय ठे अने 'अक्षरनो अनंतमो जाग सदा उघामो रहे ठे' एटले अक्षरज्ञाननो अनंतमो जाग उघामो सर्व जीवोने सदाकाल अवश्य होयज.

श्रीवृहत्कल्पजाप्यनी पीठिकामां कहेल ठे के:-

“ अक्खरमुच्चह नार्णं, तं पुण होत्था ह्यु किं पमाणं तु ।

भन्नइ अणंतगुणिर्यं, सवागासम्पपसेहि ॥ ७१ ॥ ”

सारांश:-अक्षर एटले ज्ञान कहीए ते ज्ञान केटला प्रमाणे होय ? उत्तर सर्व आकाशप्रदेशथी अनंतगुणु-अर्थात् अक्षर एटले केवल-ज्ञान तथा श्रुतज्ञान वझे थायठे. ते ज्ञाननो अनंतमो जाग तो सदा सर्व जीवोने उघामो अवश्य होयज. जाप्यकार महाराजेज कहुं ठे के:-

“ नार्णं तु अक्खरं जेण, खरति न कयाइ तं तु जीवातो ।

तस्स उ अणंतभागो, न वरिच्चइ सबजीवाणं ॥ ७२ ॥ ”

सारांश:-जीवथी कदापि काले पण नाश न पामे ते कारणथी ज्ञानतुं नाम अक्षर कहीए; सर्व जीवोने ज्ञाननो अनंतमो जाग आढादन नज थाय-उघामोज रहे.

आ जाप्यनी गाथाउथी अक्षर शब्दनो अर्थ केवलज्ञान तथा श्रुतज्ञान वझे थायठे पण अहीं. अक्षर शब्दनो अर्थ श्रुतज्ञानज करवो. श्रीटीकाकार महाराजे स्पष्टपणे उल्लेख करेले ठे के:-



“इह यद्यपि प्रागक्षरं सर्वाकाशप्रदेशेभ्योऽनंतगुणं केवलमभिप्रेतं नि-  
स्थापावृत्तोऽनंतभागस्तस्यैव तथापि केवलज्ञानस्यैव श्रुतज्ञानस्याप्यनंत-  
भागो नित्यापावृत्त इति तेनैति योजना कृता ”

जावार्थः—अर्हीं जो के प्रथम सर्व आकाशप्रदेशको अनंतगुण  
अक्षरज्ञानं पटले केवल ज्ञानज इहित ठे, नित्य उघाको पण तेनोज  
अनंतमो जाग होय तो पण केवलज्ञाननी जेम श्रुतज्ञाननो पण  
अनंतमो जाग सदा उघाको होय तेथी अंतमां तेनी योजना करी  
अर्थात् श्रुतज्ञाननो अनंतमो जाग सदा सर्वजीवोने उघाको रहे.

अक्षरनो अनंतमो जाग पटले श्रुतज्ञाननो तथा मतिज्ञाननो  
पण अनंतमो जाग जाणवो.

श्रीनंदीसूत्रनी टीकामां जगवान् श्रीमलयगिरिजी महाराजे  
कहेल ठे केः—

“अक्षरस्य-श्रुतज्ञानस्य, श्रुतज्ञानं च मतिज्ञानाधिनाभाषि ततो मति-  
ज्ञानस्यापि अनंतभागो नित्योद्घाटितः ”

सारांशः—अक्षरनो पटले श्रुतज्ञाननो तथा मतिज्ञानना विना  
श्रुत नहोवार्थी मतिज्ञाननो पण अनंतमो जाग सदा उघाकोज होय.

जगवान् श्रीहरिचंद्रसूरी श्वरजी महाराजाय पण कहेल ठे केः—

“अक्षरस्य अनंतभागो नित्योद्घाटित इत्युपनस्तत्वात् केवलस्य चा-  
विभागसंपूर्णत्वेन निकृष्टानंतभागा संभवादवधेरप्यसंख्येयप्रकृतिभेदभिन्न  
त्वान्मनः पर्यायज्ञानस्याप्योच्यतः ऋजुविपुलभेदभिन्नत्वात् पारिधोषादका-  
रादिश्रुतज्ञानस्य निबंधनज्ञानस्य चासाविति । ”

सारांशः—अक्षरनो अनंतमो जाग सदा उघाको रहे एम कहेल  
होवार्थी केवलज्ञान, अधिज्ञान के मनःपर्यायनो तो अर्थ संजवेज  
नहि कारण केवलज्ञान विजागरहित संपूर्ण एकज होय ठे. अधि-  
धिज्ञानना असंख्यात प्रकृतिना जेदो होय ठे. मनःपर्यायज्ञानना  
ऋजुमति अने विपुलमति एम सामान्यपणे वे जेदो होय ठे. हवे

अक्षरनो अनंतमो जाग कहेवाथो शेष रहेख अकारादि श्रुतज्ञाननो तथा तेना कारणरूप मतिज्ञाननो पण अनंतमो जाग जाणवो.

प्र०-१४२-देराशरजी उपर ध्वजादंरु केटखो उंचो तथा जागो करवो ? अने ध्वजा पण केटखी लांबी तथा पहेळी करवी ?

उ०-देराशरजीनो जेटखो व्यास तेटखाज प्रमाणे ध्वजादंरु लांबो करवो, अर्थात् देरासरजीनी पाठळनी चीत वे वाजुना करानी चीत-सहित मापतां जेटखी लांबो होय तेटखो लांबो दंरु करवो. जो त्रण ग-जारा होय तो दरेक गजारांनी जेटखी जेटखी खंवाइ होय तेटखा लांबा-उंचा दंरु करवा. आ ध्वजादंरुनुं उत्तम माप समजतुं. उत्तम मापथी ध्वजादंरु बनावतां जो कदाच ते उंचाइमां वधी जतो होय तो तेनुं मध्यम माप करवानुं पण विधान ठे. देरासरनो जे व्यास होय तेनो दशमो जाग ध्वजादंरुनी उंचाइमांथी ओठो करवाथी ते ध्वजादंरु मध्यम मापनो आय ठे तथा व्यासनो पांचमो जाग ओठो करवाथी कनिष्ठ मापनो दंरु थाय ठे, परन्तु बने त्यां सुधी उत्तम प्रमाणनो दंरु करवो अथवा मध्यम प्रमाणनो दंरु करवो. हवे जो एक गज लांबो दंड होय तो दंरुनी जाकाइ पोणा अंगुळनी करवी जोइय पढी जेटखा गज लांबो वधे तेटखा अर्धे अंगुळनी जाकाइमां वृद्धि करवी, अर्थात् एक गजना दंरुनी जाकाइ पोणा अंगुळनी, वे गजना दंरुनी सवा अंगुळनी, त्रण गजना दंरुनी पोणावे अंगुळनी, चार गजना दंरुनी सवावे अंगुळनी, पांच गज लांबा दंरुनी पोणात्रण अंगुळनी अने ढ गज लांबा दंरुनी जाकाइ सवात्रण अंगुळनी ए प्रमाणे खंवाइना प्रमाणमां दंरुनी जाकाइ करवी जोइय. दंरुने बंगनीठं वे, चार, ढ, आठ, दश, बार आदि वेकी करवी जोइय पण एकी न करवी. पहेळी बंगनी को-लाबा उपर, ठेल्ली पाटलीनी नीचे अने चाकीनी वचमा होवो जोइय.

पाटलीनी खंवाइ दंरुनी खंवाइना उछा जागे करवी जोइय अने तेनी पहोळाइ पोतानी खंवाइथी अर्धी करवी जोइय पटखे जो दंरु एक गजनो खांबो होय तो पाटली चार अंगुल खांबो अने बे अंगुल पहोळी, बे गजनो खांबो होय तो आठ अंगुल खांबो अने चार अंगुल पहोळी अने दंरु त्रण गजनो खांबो होय तो पाटली अर्धगज खांबो अने पा गजनी पहोळी होवी जोइय. पहोळाइना त्रीजा जागनी पाटलीनी जाकाइ करवी. पाटलीना आगळना जागर्मा अर्धचंद्राकृति करी तेनी बाजुप घंटकीठं तथा पाटलीना उपर कळश स्थापन थवो जोइय. इवे ध्वजा तो दंरुना जेटलीज खांबो अने खंवाइना आठमा जागनी पहोळी होवी जोइय.

श्रीप्रासादमर्कनना चोथा अध्यायमां कथुं ठे के:-

“ प्रासादव्यासमानेन, दंडो ज्येष्ठः प्रकीर्तितः ।  
 मन्थो हीनो दशांसेन, पंचमांसेन कन्यसाः ॥ ४१ ॥  
 एकइस्ते तु प्रासादे, दंडं पादुनर्मण्डलम् ।  
 कुर्यादधीशुला वृद्धि-धीवत् पंचाशत्सकम् ॥ ४२ ॥  
 सुवृत्तं सारदाद्य च, श्रेणिकोटरचञ्जितम् ।  
 पर्वभिः विषमैः कार्यैः, समग्रैश्चिः सुखावहः ॥ ४३ ॥  
 दंडदीर्घपञ्चांशेन, मर्कटपर्वेन विस्तृता ।  
 अर्धचंद्राकृतिः पार्श्वे, घंटोर्ध्वे कळशास्तथा ॥ ४४ ॥  
 ध्वजा दंडप्रमाणेन, द्वेषीछांशेन विस्तारा । ”

सारांशः-देराशरनी जेटली पहोळाइ होय तेतखो दंरु उत्कृष्ट, तेनाथी दशमो जाग हीन करीए ते मन्थमान अने पांचमो जाग होन करीए ते कनिष्ठमान कहेख ठे. एक हाथनी देराशरनी पहोळाइ होय तो पोषो अंगुल दंड जागो करवो पढी पचास हाथ सुधी दंरुनी जाकाइर्मां अर्धी अर्धी अंगुलनी वृद्धि करवी. गांठो अने पोसाण रहित

गोळाकार श्रेष्ठ लाकूनानो, एकी ( १-३-५-७-९ ) पर्वो अने बेकी ( २-४-६-८-१० ) गांठो वाळो दंरु सुखदायकठे. दंरुनी खंबाईना ठठा जागनी खांबी अने खंबाईना अर्धा जागनी प्होळी पाटखी करवो. अर्ध चंद्रमानो आकृति पासे घंटनीळ तथा उपर कलश करवो. दंरुना जेटखी खांबी अने खंबाईना आठमा जागनी प्होळी नाना प्रकारना वळोनी विचित्र ध्वजा करवी.

शिखरबंधी देराशर होय तो नीचेनी खरशिखाथी कलशसुधीनुं प्रमाण करी तेना त्रीजा जागनो दंरु उंचो करवो.

प्रासादमंरुनमां कष्टुं ठे के:-

“ दंडः कार्यस्तृतीयांसा, शिलातः कलशाबधेः ।

मध्येष्टांसेन हीनोऽसौ, ज्येष्टात्पादोनकन्यसः ॥ ४१ ॥ ”

त्राचार्यः-खरशिखाथी कलश सुधीना प्रमाणना त्रीजा जागनो उक्कष्टो दंरु करवो, मध्यम दंरु तेना आठमे जागे हीन करवो, उक्कष्ट दंरुना चौथा जागे हीन जघन्यदंरु करवो.

श्रीआचारदिनकरमां कष्टुं ठे के:-

“ विप्रैवेयकशिखरः, प्रमाणमानो ध्वजस्य वै दंडः ।

दंडस्तृतीयांसोनो, भवति तथा ध्वजपटोऽर्धशुभुः ॥ १ ॥ ”

सारांशः-गळाना जागने ठोडी शिखरना प्रमाण जेवको ध्वजानो दंरु करवो. ध्वजा दंरुना त्रीजा जागे उणो खांबी अने खंबाईथी अर्धी प्होळी करवो. आ प्रमाणेनी ध्वजा कोई स्थानमां जोवामां ध्यावेस नथी.

प्र०-१४३-नरकना जीवो केटखा अने केवा केवा कारणे सा-  
तावेदनीयनो अनुभव करे ?

उ०-दाहज्वरादि विना काल करीने उत्पन्न थयेला नरकना

जीवो त्यां पोताना उत्पत्ति कालमां सातावेदनीयनो अनुभव करे ठे कारण के नरकमां उत्पत्तिना समये त्यां उत्पन्न थता जीवोने नथी होती क्षेत्रवेदना, नथी होती परस्परउदीरितवेदना के नथी होती परमाधार्मिककृतवेदना १, कोईक महर्धिक देव पूर्वजवना स्नेहने छडने त्यां जाय अने किंचित् काल कोइनी वेदना उपशान्त करे ते काले २, तथाविध शुभ अध्यवसायथी सम्यग्दर्शननो लाभ थाय ते कालमां ३, अने श्रीतीर्थकरदेवोनां जन्मादिक कल्याणको थाय त्यारे. ४. आ चार कारणोथी नरकना जीवो सातावेदनीय कर्मने वेदे. श्रीजीवाजिगमसूत्रनी त्रीजी प्रतिपत्तिमां नरकाधिकारे त्रीजा उद्देशामां कसुं ठे के:-

“ उवाचार्णं च सार्थं, नेरुओ देवकम्पुणा वाचि ।

अज्ज्ञवसायनिमित्तं, अहवा कम्पाणुभावेण ॥ २४ ॥ ”

सारांश:-१ उत्पत्ति कालमां क्षेत्रवेदना, परस्पर उदीरित वेदना तथा परमाधार्मिकनी करेखी वेदना न होवाथी पाठठना भवमां दाहज्वर अने ठेदादि विना काल करी अति संक्लिष्ट अध्यवसाय विना नरकमां उत्पन्न थयेखा नारकीउं सातावेदनीने वेदे ठे. २ पूर्वजवना स्नेहथो वउदेवजीनी जेम कोइक महर्धिकदेव नरकमां जई अहपकाल वेदनीने उपशांत करे तेथी श्रीकृष्णमहाराजादिकनो जेम साता वेदनीने वेदे ठे. ३ आ-धळाने चक्रु प्राप्त थवाथी जेम महा प्रमोद उत्पन्न थाय तेम सम्प्रकृतनी उत्पत्तिना कालमां तथा ते पढी पण श्रीतीर्थकरजगवान्ना गुणोनी अनुमोदनादि रूप तेवा प्रकारना विशुद्ध अध्यवसायथी बाह्यक्षेत्र वेदना होवाठतां पण साता वेदनीनेज वेदे ठे. ४ श्रीअरिहंतजगवान्ना जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान अने निर्वाण कल्याणकना समये श्रीजिनेश्वरजगवान्ना प्रजावथी नरकना जीवो सातावेदनी कर्मने

वेदे ठे. श्रीबृहत्कल्प जाष्यनो पिठिकामां प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्रीसंघदास गण्जि महाराजाए पण आज प्रमाणे स्पष्ट उल्लेख करेल ठे.

प्र०-१४४-गर्जारव शब्द वायुथी, पाणीथी के वायु अने पाणी उभयना संयोगथी थाय ठे ?

उ० गर्जारव शब्द जलथी उत्पन्न थाय ठे. श्रीसेनप्रश्नना बीजा उल्लासमां श्रीमान्सेनसूरिजीमहाराजाए कहुं ठे के:-

“ गर्जितशब्दो जलसमुत्थो वायुसमुत्थो वाऽन्यद्वा किमपीति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्-स्थानांगवृत्तौ स्थाने २ स्तनितादिशब्दानां व्याख्याने मेघगर्जितमित्यर्थकरणान्मेघस्य च जलमयत्वात् गर्जितशब्दो जलसमुद्भवः संभाव्यते 'वायुसमुत्थः शब्दो गर्जित' इत्यक्षराणि तु शास्त्रे नोपलभ्यन्त इति ॥५५॥”

सारांशः-गर्जारव मेघ जलथी उत्पन्न थाय ठे के वायुथी थाय ठे अथवा अन्य कइ ठे ? इति प्रश्न, अत्र उत्तर-श्रीस्थानांगसूत्रनी टीकामां बीजे स्थाने स्तनितादि शब्दोनो व्याख्यामां मेघनो गर्जारव एवो अर्थ करवाथी अने मेघ जलमय होवाथी गर्जारव शब्द जलथी उत्पन्न थयेल संभव ठे. 'वायुथी उत्पन्न थयेल शब्द गर्जारव' एवा अक्षर तो शास्त्रमां जोवामां आवता नथी.

प्र०-१४५-कुसुंजा(वा)नी चाजीनुं शाक बीजा कोइ चाजीना शाक साथे मेळाप करवामां दोष ठे ?

उ०-पालक शाकनो कुसुंजानी चाजीना शाकनी साथे मेळाप थाय तो मेळाप थतांनी साथेज सूक्ष्म जीवानी उत्पत्ति थाय ठे. श्री बृहत्कल्पजाष्यमां प्रथम खंकना अन्तमां स्पष्ट उल्लेख ठे के:-

“ पालंकलहसागा, सुगकयं चामगोरसुम्भीसं ।

संसर्जई अ अशिरा, तं पिय नियमा इ दोसाय ॥ ६० ॥ ”

सारांशः-महाराष्ट्र देशमां प्रसिद्ध पालक नामना शाकनो कुसुं-

बाना शाक साथे मेळाप थवांची तथा मगना उपलक्षणी बीजा पण छिदलनो काचा गोरस पटले दुध, दही अने ठाशनी साथे मेळाप थवाची शीघ्र सूक्ष्म जीवो उत्पन्न थाय ठे, ते निश्चये करीने संयमनो उपघात तथा आत्मानो उपघात रूप बे दोषोने उत्पन्न करे ठे.

प्र०-१४६-अलोकमां जीव तथा अजीवना जेद केटला ?

उ०-अलोकनी अंदर जीवो एक पण जेद न होय अने अजीवमां पण केवल आकाशनोज एक जेद होय. श्रीजगवतीजी सूत्रना बीजा शतकना दशमा उद्देशामां कहुं ठे के:-

“ अलोगागासे णं भंते । किं जीवा ? पुच्छा तह चेव गोयमा । नो जीवा जाव नो अजीवपसा, पगेअजीवदवसे अगुरुयलक्षुप अणंतेहिं अ गुरुयलक्षुयणुणेहिं संयुसे सवागासभर्णतभाणणे ॥ ”

साराश:-अलोकाकाशमां हे जंते ! शुं जीवो होय ?, १ जीवना देशो होय?, २ जीवना प्रदेशो होय?, ३ अजीवो होय?, ४ अजीवना देशो होय ?, ५ अजीवना प्रदेशो होय?, उत्तर-हे गौतम ! अलोकाकाशमां जीवो न होय १, जीवना देशो न होय २, जीवना प्रदेशो न होय ३, अजीवो न होय ४, अजीवना देशो न होय ५, अजीवना प्रदेशो न होय ६, आ ठमांची एक पण अलोकाकाशमां न होय. किंतु अलोकाकाशमां अनंत अगुरुसुपुपर्याय गुणे करीने संयुक्त अगुरुसुपुस्वरूप सर्वाकाशनो अनंतमो जाग ऊणो एरु अजीव अणुनो देश होय.

प्र०-१४७-लोकान्तिकदेवोना जवो केटला ?

उ०-लोकान्तिक देवो एकावतारी होय. श्रीस्थानांगसूत्रना श्रीजा स्थानना प्रथम उद्देशानी टोकांमां टोकाकार जगशान् श्रीअजयदेवसूरीश्वरजी महाराजे कहुं ठे के:-

“ लोकस्य-ब्रह्मलोकस्थान्तः-समीपं कृष्णराजीलक्षणं क्षेत्रं निवासो  
येषां ते लोकान्ते वा औदधिकभावलोकावसाने भवा अनन्तरभवे मुक्तिग-  
मनादिति लोकान्तिकाः ॥ ”

जावार्थः-लोक कहेवाथी ब्रह्मलोकनी समीपे रहेल कृष्णराजी  
लक्षण निवास स्थान जेणे ठे ते लोकांतिक देवो, अथवा त्यांथी चवोने  
अनंतर चीजा जवमां मोक्ष जवाथी लोकांते कहेतां औदधिक जाव-  
रूप लोकना अंतमां धवावाळा देवोने लोकांतिक देवो कहोए.

मतांतरथी लोकांतिक देवोना सात आठ जवनो उल्लेख पण ठे.

श्रीप्रवचनसारोद्धारना ३६९ मा द्वारमां कहेल ठे के:-

“ अद्यायरद्विष्ट्या, वसन्ति लोगंतिया सुरा तेषु ।

सत्तद्वभवभवंता, गिञ्जति इमेहि नामेहि ॥ ७४ ॥ ”

जावार्थः-सात अथवा आठ जवे जेमना संसारनो अंत ठे.

( मोक्षे जवाना ठे. ) जेमना नामो ( आदित्यादि ) आगळनी गा-  
थामां कहेवाना ठे एवा आठ सागरोपमनी स्थितिवाळा लोकांतिक  
देवो अर्चि, अर्चिमाली आदि नव विमानमां वसे ठे.

प्र०-१४८-परमाणुपुद्गलनाघर्ष रसादिक नो परावर्तन थाय ?

उ०-परमाणु पुद्गलन्युघर्ष, गंध, रस, स्पर्श आदि पर्यायोनो  
परावर्तन थाय. श्रीह्रीप्रश्नना त्रोजा प्रकाशमां जगद्गुरुश्रीगिजय-  
ह्रीरसूरीश्वरजी महाराजा फरमावे ठे के:-

“ परमाणोर्घर्षादिपरावर्तौ जायते नवेति प्रश्नोऽप्रश्नोत्तरम्-जायते  
इति ज्ञेयम् । ”

सारांशः-परमाणुना घर्षादिकनो परावर्तन थाय के नहीं इति  
प्रश्न अत्र उत्तर थाय एम जाणवुं.

प्र०-१४९-अमण जगवान् श्रीमहावीरस्वामी महाराजानो जन्म  
चैत्र शुक्ल त्रयोदशोप चयेलो ठे अने ते विश्वदोषकतुं निर्वाण आसो



वदी अमावास्याए धयेळुं होवाथो ते करुणासागर देवाधिदेव प्रभु  
श्रीश्रीरपरमात्मानुं आयुष्य संपूर्ण बहोनेर (७२) वर्षनुं कहेवाय ठे,  
तेनो संजव शी रीतिए धाय ?

उत्तर-आयुष्य जन्तदिवसथी ज नहि परंतु च्यवनथी एटले प्रभु  
जे दिवसे माताना गर्जमा आठ्या ते दिवसथी गणाय. तेनो हिंसाव  
मेळववा माटे प्रथम जैनशास्त्रमां वर्षो केटजा प्रकारनां तथा केटला  
केटला दिवसनां कहेलां ठे ते जाणी लेतुं जोइए अने ते नीचे  
मुजब ठे:-

एक युगमां संवत्सर पांच होय ठे तेनां नामो अने दिवसो नीचे  
मूकवामां आवे ठे:-

(१) पहलो त्रणसो चोपन (३५४) दिवसनो चंद्रसंवत्सर, (२)  
बीजो त्रणसो चोपन (३५४) दिवसनो चंद्रसंवत्सर, (३) त्रीजो त्रणसो  
चोरासी (३७४) दिवसनो अजिवर्धितसंवत्सर, (४) चोथो त्रणसो चो-  
पन (३५४) दिवसनो चंद्रसंवत्सर अने (५) पांचमो त्रणसो चोरासी  
(३७४) दिवसनो अजिवर्धित नामनो संवत्सर, आ प्रमाणेना एक  
युगमां पांच संवत्सर-वर्ष होय ठे

वळी १ सौर्यमास, २ चांद्रमास, ३ ऋतुमास अने ४ नक्षत्र  
मास आ मासोथी शरु थता अने एक अधिकमासवाळुं वर्ष एम  
करीने बनता पांच संवत्सरो पण कहेल ठे, तेनां पण नाम अने दि-  
वसो नीचे मुजब ठे:-

१ त्रणसो ढासठ (३६६) दिवसनुं सौर्यवर्ष, २ त्रणसो चोपन  
(३५४) दिवसनुं चांद्रवर्ष, ३ त्रणसो साठ (३६७) दिवसनुं ऋतुवर्ष  
अने ४ त्रणसो अठावीस (३२७) दिवसनुं नक्षत्रवर्ष तेमज जे वर्षमां  
अधिक मास होय ठे ते (५) पांचमुं अजिवर्धित वर्ष.

श्रीश्रयोतिष्करंरुक प्रकरणमां 'संवत्सरमानप्रमाणअधिकार' नामा वीजा प्राचृतमां कहुं ठे के:-

“ पढमविइया उ चंदा, तइयं अभिवइडियं वियाणाहि ।

चंदे चेव चउत्थं, पंचममभिवइडियं जाण ॥ १ ॥ ”

सारांश:-पहेलो चंद्रसंवत्सर, वीजो चंद्रसंवत्सर, त्रीजो अजि-  
वर्धित संवत्सर, चोथो चंद्रसंवत्सर, पांचमो अजिवर्धितसंवत्सर जाणवो.

“ चंदो अ गुणतीसं, विसट्टिभागा य थत्तीसा ।

तिन्नि अहोरत्तसया, तीसाईं चेव होइ अभिवइडे ।

धायालीसं भागा, धावट्टिकएण छेएणं ॥ १ ॥ ”

सारांश:-चंद्र मासना उंगणत्रीस दिवस अने एक दिवसना वासठ जाग करीए तेवा वत्रोस जाग अर्थात् अर्ध दिवसथो कंडक अधिक मळी सानी उंगणत्रीस दिवस थया तेने बार गुणा करवाथी ३५४ त्रणसोने चोपन दिवस एक चाडवर्षना थाय. अजिवर्धित वर्षना त्रणसोने त्यासी दिवस अने एकदिवसना वासठ जाग करीए तेवा वेतालीस जाग एटले एक दिवसमां कंडक न्यून ते मळी त्रणसोने चोरासो दिवस जाणवा.

“ आइछो उइ चंदो, रिक्खो अभिवइडिओ य पंचेए ।

संवच्छरा जिणमए, जुगस्स माणे विधीयंते ॥ १ ॥ ”

सारांश:-१ सूर्य वर्ष, २ ऋतुवर्ष, ३ चंद्रवर्ष, ४ नक्षत्रवर्ष, अने अजिवर्धितवर्ष आ पांच संवत्सरोतुं श्रीजिनेश्वर परमात्माना मतमां युगना प्रमाणमां विधान करेल ठे.

“ आइछो खलु मासो, तीसं अद्धं च सावणे तीसा ।

नक्खत्तो खलु मासो, सत्तावीसं भवे अहोरत्ता ।

अंसा य एकवीसं, सत्तट्टिकएण छेएणं ॥ १ ॥ ”

सारांश:-निश्चये करीने सानीत्रीस दिवसनो सूर्यमास, त्रीस

दिवसनो ऋतुमास अने नक्षत्र मासना सत्तावीस दिवस तथा सडस-  
ठीथा एकवीस जाग आ दिवसोने बार गुणा करवाथी वर्षोना दिवसो  
थाय. एटले सौर्यवर्षना त्रणसोने ठासठ दिवस, ऋतु वर्षना त्रणसोने  
साठ दिवस, नक्षत्र वर्षनां ३३७ दिवसमां कंडक न्यून थाय. आ  
वर्षोनां नामो तथा दिवसोनुं वर्णन श्रीसूर्यप्रज्ञप्तिना दशमा प्राचृतमां  
पण करेख ठे.

आ वात पण ध्यानमां राखी लेवानी ठे के अजिवर्धितसंवत्सर  
युगमां त्रीजो अने पांचमो होय ठे एटले जो युगनी मध्यमां वषे तो  
पोष महिनो वषे अने अंतमां वषे तो अषाढ मास वषे.

हवे श्रमण जगवान् श्रीमहावीरस्वामीजी माताना गर्जेमां अषाढ  
सुदि ६ ठठनी रात्रे आव्या एटले प्रजुअरी वीरतुं आयुष्य त्यांथी  
गणतुं अने आयुष्यनी गणना सौर्यवर्षथी करवी.

श्रीव्योतिष्करंरुक पयज्ञामां संवत्सरमान प्रमाण अधिकारनामा  
बीजा प्राचृतमां कहेख ठे के:-

“ सवे कालविसेसा, आषपमाणा ठिईअ कम्माणं ।

सवे सभा विभागा, सूरपमाणेण नायवा ॥ १ ॥ ”

सारांश:-पांच वर्ष आत्मक युग, सो वर्ष, हजार वर्ष, लाख वर्ष,  
पूर्वांग, पूर्व, अडडांग, अडडआदि पद्योपम सागरोपम आदि सर्व काल.  
देव, मनुष्य, तिर्यच, नारकी आदि चारे गतिना जीवोतुं आयुष्य, ज्ञा-  
नावरणादि आठ कर्मनी तथा तेमनी उत्तर प्रकृतिठनी स्थिति. सर्व  
काल विजाग १ सुषमसुषमा, २ सुषमा, ३ सुषमदुःखमा, ४ दुःखमसुषमा,  
५ दुःखमा, ६ दुःखमदुःखमा आदि उत्सर्पिणी अषसर्पिणी आदि  
विजागो सूर्यवर्षना प्रमाणथी जाणवा.

वळी एक वात ए पण लक्ष्यमां राखवानी ठे के परमात्मा श्री-

महावीरदेवना निर्वाणसमये श्रीकल्पसूत्रमां बीजो चंद्रसंवत्सर कक्षो  
 ठे अने युगनी आदि श्रीज्योतिष्करंरुक्मपयन्नामां अषाढ वदी एरु-  
 मधी शरु थती कही ठे, ए.कारणथी श्रमण जगवान् श्रीमहावीर-  
 स्वामिजीना च्यवन समये पांचमा अजिर्वर्धितसंवत्सरनी अषाढ सुदि  
 ६ हती एम संजवे ठे.

आ सघळी वातो ध्यानमां लीधा पती प्रभु श्रीवीरपरमात्मानुं  
 संपूर्ण बहोतेर वर्षनुं आयुष्य बराबर मळी रहे ठे. जेमके:-

प्रथम चंद्रसंवत्सरना ३५४ दिवस, बीजा चंद्रसंवत्सरना ३५४  
 दिवस, त्रीजा अजिर्वर्धितसंवत्सरना ३७४ दिवस, चोथा चंद्रसंवत्स-  
 रना ३५४ दिवस अने पांचमा अजिर्वर्धितसंवत्सरना ३७४ दिवस.  
 आ पांच संवत्सरना कुल दिवस १७३० थाय. ऋतुसंवत्सर सर्व ३६०  
 दिवसना होवाथी पांच संवत्सरना दिवसो पूर्ण १७०० थाय, आ  
 हिसावे एक मासतो फरक होवाथी श्रीवर्धमानस्वामिना च्यवनस-  
 मयनी पद्देलीं ऋतुसंवत्सरनो युग प्रथम अषाढ शुक्ल पूर्णिमाए पूर्ण  
 थइ ऋतुवर्षनो श्रावण मास शरु थइ चूक्यो हतो अर्थात् अजि-  
 वर्धितनी अपेक्षाए प्रभु श्रीवीरनो च्यवनसमय बीजा अषाढ सुदि ६  
 नो कहेवाय पण ऋतुमासनी अपेक्षाए ते समय श्रावण सुदि ६ नो थाय.  
 आ रीते दरेक आदित्ययुगमां ऋतुयुगनो एक मास वधे तो चउद यु-  
 गमां चउद मास वधवाथी ऋतुमासनी अपेक्षाए सीत्तेरमा वर्षना आ-  
 सो सुदि ६ ना दिवसे आदित्यमास-सौर्यमासनी अपेक्षाए चउद युग  
 पटले पूर्ण सीत्तेर ( ७० ) वर्ष थयां. ते षढो वे चंद्रवर्षना आसो  
 सुदी ६ ना दिवसे सूर्यमासना वे वर्षमां चोवीस दिवस घटे ते  
 चोवीस दिवस मेळवतां आसो वदी अमावास्याना दिवसे सौर्यमासनी  
 अपेक्षाए संपूर्ण बहोतेर (७२) वर्ष थाय, आ प्रमाणे गणत्री संजवे ठे.

दिवसनो ऋतुमास अने नक्षत्र मासना सत्तावीस दिवस तथा सडस-  
ठीया एकवीस ज्ञाग आ दिवसोने बार गुणा करवाथी वर्षोना दिवसो  
थाय. एटखे सौर्यवर्षना त्रणसोने ठासठ दिवस, ऋतु वर्षना त्रणसोने  
साठ दिवस, नक्षत्र वर्षनां ३३७ दिवसमां कंडक न्यून थाय. आ  
वर्षोनां नामो तथा दिवसोनुं वर्णन श्रीसूर्यप्रहसिना दशमा प्राचृतमां  
पण करेख ठे.

आ वात पण ध्यानमां राखी खेवानी ठे के अजिवर्धितसंवत्सर  
युगमां त्रीजो अने पांचमो होय ठे एटखे जो युगनी मध्यमां वधे तो  
पोष महिनो वधे अने अंतमां वधे तो अषाढ मास वधे.

हवे श्रमण जगवान् श्रीमहावीरस्वामीजी माताना गर्जमां अषाढ  
सुदि ६ ठठनी रात्रे आख्या एटखे प्रभुश्री वीरनुं आयुष्य त्यांथी  
गणवुं अने आयुष्यनी गणना सौर्यवर्षथी करवी.

श्रीऽथोऽतिष्करंरुक पयझामां संवत्सरमान प्रमाण अधिकारनामा  
बीजा प्राचृतमां कहेख ठे के:-

“ सवे कालविसेसा, भावपमाणा ठिईअ कम्मार्ण ।

सवे समा विभागा, सूरपमाणेण नायवा ॥ १ ॥ ”

सारांश:-पांच वर्ष आत्मक युग, सो वर्ष, हजार वर्ष, लाख वर्ष,  
पूर्वांग, पूर्व, अडहांग, अडहाआदि पढ्योपम सागरोपम आदि सर्व काल.  
देव, मनुष्य, तिर्यक्ष, नारकी आदि चारे गतिना जीवोनुं आयुष्य, ज्ञा-  
नावरणादि आठ कर्मनी तथा तेमनी उत्तर प्रकृतिठनी स्थिति. सर्व  
काल विजाग १ सुषमसुषमा, २ सुषमा, ३ सुषमदुःखमा, ४ दुःखमसुषमा,  
५ दुःखमा, ६ दुःखमदुःखमा आदि उत्सर्पिणी अवसर्पिणी आदि  
विजागो सूर्यवर्षना प्रमाणथी जाणवा.

वळी एक वात ए पण खद्यमां राखवानी ठे के परमात्मा श्री-

महावीरदेवना निर्वाणसमये श्रीकल्पसूत्रमां बीजा चंद्रसंवत्सर कक्षो  
 ठे अने युगनी आदि श्रीज्योतिष्करंरुकपयन्नामां अषाढ वदी एरु-  
 मथी शरु थती कही ठे, ए कारणथी श्रमण जगवान् श्रीमहावीर-  
 स्वामिजीना च्यवन समये पांचमा अज्जिवर्धितसंवत्सरनी अषाढ सुदि  
 ६ हती एम संजवे ठे.

आ सघळी वातो ध्यानमां लीषा पढी प्रभु श्रीवीरपरमात्मानुं  
 संपूर्ण बहोतेर वर्षनुं आयुष्य बराबर मळी रहे ठे. जेमके:-

प्रथम चंद्रसंवत्सरना ३५४ दिवस, बीजा चंद्रसंवत्सरना ३५४  
 दिवस, त्रीजा अज्जिवर्धितसंवत्सरना ३७४ दिवस, चोथा चंद्रसंवत्सर-  
 रना ३५४ दिवस अने पांचमा अज्जिवर्धितसंवत्सरना ३७४ दिवस.  
 आ पांच संवत्सरना कुल दिवस १७३० थाय. ऋतुसंवत्सर सर्व ३६०  
 दिवसना होवाथी पांच संवत्सरना दिवसो पूर्ण १७०० थाय, आ  
 हिसावे एक मासनो फरक होवाथी श्रीवर्धमानस्वामिना च्यवनस-  
 मयनी पहेलां ऋतुसंवत्सरनो युग प्रथम अषाढ शुक्ल पूर्णिमाए पूर्ण  
 थइ ऋतुवर्षनो श्रावण मास शरु थइ चूक्यो हतो अर्थात् अज्जि-  
 वर्धितनी अपेक्षाए प्रभु श्रीवीरनो च्यवनसमय बीजा अषाढ सुदि ६  
 नो कहेवाय पण ऋतुमासनी अपेक्षाए ते समय श्रावण सुदि ६ नो थाय.  
 आ रीते दरेक आदित्ययुगमां ऋतुयुगनो एक मास वधे तो चउद यु-  
 गमां चउद मास वधवाथी ऋतुमासनी अपेक्षाए सीत्तेरमावर्षना आ-  
 सो सुदि ६ ना दिवसे आदित्यमास-सौर्यमासनी अपेक्षाए चउद युग  
 एदळे पूर्ण सीत्तेर ( ७० ) वर्ष अयां. ते षढी वे चंद्रवर्षना आसो  
 सुदी ६ ना दिवसे सूर्यमासना वे वर्षमां चोवोस दिवस घटे ते  
 चोवीस दिवस मेळवतां आसो वदी अमावास्याना दिवसे सौर्यमासनी  
 अपेक्षाए संपूर्ण बहोतेर (७२) वर्ष थाय, आ प्रमाणे गणत्री संजवे ठे.

श्रीमान् महावीर परमात्माना ३२ वर्षना आयुष्यनो गणना अषाढ शुदी ६ थी गणवामां तथा लौकिकरुति प्रमाणे जन्म दिवस चैत्र शुदी तेरसथी गणवामां पण बाधक नथी. बझे रीतिथो संपूर्ण आयुष्य थाय डे.

श्रीसेनसूरीश्वरजी महाराजे श्रीसेनप्रश्नना प्रथम उल्लासमां कहेख डे के:-

“श्रीवीरतीर्थकृतो द्विससति वर्षायुर्मानुष्यकं तज्जन्मदिनाद्वा गर्भोत्पत्तेर्षा तदायुर्विचार्यमाणं मिथो विषदते तत्किमिति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्-जन्मपत्राद्यपेक्षया तु जन्मनः परमार्थस्तु गर्भोत्पत्तिर्न आयुष्परिमाणं गण्यते, द्वाससत्यादिवर्षमानप्रतिपादनं तु न्यून्याधिकमासदिवसानामविवक्षणात्त विसंवदतीति ॥ ६४ ॥ ”

सारांशः-श्रीमहावीर तीर्थकर परमात्मानुं बहोत्तर वर्षनुं आयुष्यमान कहुंडे ते तेमना जन्म दिवसथी अथवा गर्ज उत्पत्तिना दिवसथी विचार करतां परस्पर विरोध आवेडे तेनुं केम ? इति प्रश्न अत्र उत्तर-जन्मपत्रादिनी अपेक्षाए जन्मथी, परमार्थथी तो गर्जमां उत्पन्न थया ते दिवसथी आयुष्यनुं परिमाण गणाय. बहोत्तर वर्षनुं मान प्रतिपादन कर्तुं ते तो न्यून तथा अधिक मास अने तीथीठनी विवक्षा न करवाथी विरोध नथी.

चैत्र शुदि त्रयोदशीथी पण गणनां श्रीवीरपरमात्मानुं बहोत्तर वर्षनुं आयुष्य पूर्ण थाय डे ते आ प्रमाणे-

तीथी पत्रमां वर्ष मध्ये सवाअगीयार दिवस वधे अने नव दिवस घटे तेथी सवा अगीयारमांथी नत्र वाद करतां सवा वे दिवस एक वर्षमा वधे तेने बहोत्तर गुणा करतां एकसो वासठ दिवस घटले पांच महिना अने चार दिवस बहोत्तर वर्षे वध्या ते गणत्रीमां खेचाना न होवाथी चैत्र शुदी त्रयोदशीमांथी वाद करतां कारतक शुदी

एकम श्रावे अने अमावास्यानी रात्रि अल्पज बाकी होवाची ते एकमज गणाय.

पंकितप्रवरश्रीवीरविजयजीए प्रश्नोत्तरचिंतामणिमां खखेल ठे के:-

“ अंतिमतीर्थकृतः श्रीमहावीरस्य द्वासप्ततिवर्षापुरागमे अभिहितं परं त्वाषाढशुक्लषष्ठ्यां च्यवनं जातं, ततः परमाश्विनमासस्यामावास्यायां झुक्तिरितिच्यवनदिनादारभ्य झुक्तिदिनं यावद्दिनगणनायां तु सार्धैकसप्ततिवर्षाणि किञ्चिदधिकानि जायन्ते, तेनात्र द्वासप्ततिपूर्णवर्षायुः कया रीत्या भवति ? ३०-द्वासप्ततिवर्षायुर्मेलस्यायमान्नायः-तिथिपत्रेषु वर्षं प्रति पंचदशघटिकाधिकान्येकादश दिनानि वर्धन्ते, तथैव वर्षं प्रति नव दिनानि हापयन्ति, ततः सपादैकादशचत्वेभ्यो नवदिनेषु हृतेषु सत्सु शेषोद्धृतौ सपादद्वयबासरी तेनैतौ सपादौ द्वौ द्वासप्ततिगुणौ क्रियेते, तथा पञ्चमासोपरि द्वादश दिनानि जायन्ते, सर्वमिलने द्वासप्ततिवर्षाणि परिपूर्णानि स्युः । ”

सारांशः-चरम तीर्थंकर श्रीमहावीर स्वामी परमात्मानुं बहो-  
तेर वर्षनुं आयुष्य श्रीसिद्धांतमा कहेल ठे परंतु श्रषान शुदी ठे  
च्यवन अयुं अने आसो वदी अमावास्याए मोक्षे पधार्या. च्यवन  
दिवसथी मोक्षदिवस सुधी गणतां चार मास अधिक बहोतेर वर्ष थाय,  
तथा चैत्र शुदी तेरसे श्रीमहावीरपरमात्मानो जन्म ते दिवसथी मोक्ष  
दिवस सुधी गणतां तो सानीयकोतेर वर्षथी कंइरु अधिक थाय.  
तेथी अहीं बहोतेर वर्षनुं संपूर्ण आयुष्य कइ रीतिए थाय. ? उत्तर  
बहोतेर वर्षना मेलनो आम्नाय आ प्रमाणे ठे के:- (तिथिपत्रेमां  
प्रतिवर्षे अग्यार दिवस अने पंदर घनी बधे ठे तेमज प्रतिवर्षे नव दि-  
वसो घटे ठे तेथी सवाअगीबार दिवसमांथी नव दिवसो वाद करतां  
सवाबे दिवस शेष रखा ते सवाबे दिवसने बहोतेर गुणा करीएत्यारे  
पांच महिना अने बार दिवसो थाय, सर्व मलीने बहोतेर वर्षो पूर्ण थाय.



श्रीवीरप्रभु निर्वाण थया त्यारे अमावास्यानी रात्रि चार घनी-  
ज बाकी हती. श्री कल्पसूत्रमां कहेख ठे के:-

“ पशुसकालसमयांस ××× ‘सवद्वसिद्धे मुहुत्ते. ”

सारांश:-प्रातःकालमां×××एक अहोरात्रिनां त्रीस मुहुत्त ठे तेमां  
सर्वार्थसिद्धनामा मुहुत्त लंगणत्रिसमो ठे ते चार घनी रात्रि बाकी रहे  
त्यारे शरु थाय ठे. ते सर्वार्थसिद्धमुहुत्तमां प्रभु मोके पधार्या ठे पटले  
एकम गणवामां बाधक न आवे.

प्रश्न-१५०-नव अंगसूत्रो उपर वृत्तिना रचयिता सुप्रसिद्ध  
पूज्यपाद श्रीमान् अजयदेवसूरीश्वरजी महाराज कया गहमां थया ?  
तथा श्रीजिनेश्वरसूरिजी महाराजा के जेठ एज श्रीअजयदेवसूरि-  
जीना गुरु ठे तेज्जश्रीने दुर्लभचराजाए खरतर बिरुद आप्युं एवुं केट-  
लाक कहे ठे ते शुं सत्य ठे ?

उ:-श्रीस्थानांगसूत्र, श्रीसमवायांगसूत्र, श्रीजगवतीजीसूत्र,  
श्रीज्ञातासूत्र, श्रीउपासदकदशांग, श्रीअंतकृतदशांग, श्रीअनुत्तरो-  
पपातिकदशांगसूत्र, श्रीप्रश्नव्याकरणसूत्र, श्रीविपाकसूत्र, श्रीऔप-  
पातिकसूत्र अने श्री पंचाशक आदि ग्रंथो उपर श्रीअजयदेवसूरिजी-  
महाराजाए रचेखी टीकाठ विद्यमान ठे तेनी अंतमां ‘चांद्रकुलमां  
श्रीवर्धमानसूरिशिष्य श्रीजिनेश्वरसूरिशिष्य श्रीअजयदेवसूरि’ आ  
प्रमाणे लेखेख ठे पण कोई गहमो उल्लेख तेज्जश्रीए करेख नथी. श्री  
जिनेश्वरसूरिजी महाराजाए के श्रीबुद्धिसागरजी महाराजे पण पो-  
ताना ग्रंथमां गहमो उल्लेख करेखो जोवामां आवतो नथी ते कार-  
णथी तेज्जश्रीनो कयो गह ? ए कहेवुं शक्य नथी.

खरतर नामनो कोईपण गह धारमा सैकाना अंत सुधी न हतो

एम कहेतुं अशक्य नथी कारणके ' श्री जिनेश्वरसूरिजी महाराजने दुर्लभराजाए खरतर विरुद आप्युं. ' एवा अक्षरो श्रीअन्नयदेवसूरिजीना के तेमना शिष्यना रचेल ग्रंथमां अथवा वारमा सैकाना अंत सुधी थयेन्न अन्ध कोइपण गह्वना प्रामाणिक आचार्यश्रीए रचेल ग्रंथमां पण उपलब्ध अइ शकता नथी. वर्तमानमां कोइ कोइ कहे ठे अने लखे ठे के एकहजार अने पंती (१०००)मां श्रीजिनेश्वरसूरिजी महाराजने पाटणमां दुर्लभराजाए 'खरतर' विरुद आप्युं परंतु आ वातनी सत्यतामां कोइज प्रमाण नथी, विरुदमां तो गुजरातनो इतिहासज प्रमाण ठे कारण के तेमां तो ' १०९९मां तो दुर्लभराजा मरण पाभ्यो ' एवी इकीकत ठे. वळी तेज श्रीजिनेश्वरसूरिजी महाराजनी वनावेली पंचलिंगीना टीकाकार महात्माश्रीए लख्युं ठे के ' श्रीजिनेश्वरसूरिजीमहाराजे पाटणमां दुर्लभराजानी सजामां चैत्यवासीनो पराजय करी विस्तृत कीर्ति प्राप्त करी. " जो श्रीजिनेश्वरसूरिजी महाराजने खरतर विरुद पण मळ्युं होत तो ते पण टीकाकारश्री केम न लखता? बीजा पण प्रामाणिक आचार्यों कोइ ग्रंथमां ते विरुदनो उल्लेख केम न करता? अने खुद श्रीअन्नयदेवसूरिजी महाराजाए पण पोताना गुरुश्रीना ते विरुदने केम न लख्युं? जिनदत्तसूरिजीए पण गणधरसार्धशतकादि ग्रंथोमां खरतर विरुदनो उल्लेख केम न कर्यो? आ सबळा उपरथी सिद्ध थाय ठे के श्रीजिनेश्वरसूरिजी महाराजाने खरतरविरुद दुर्लभराजाए आप्युं नथी, उतां खरतरगच्छना अनुयायिओ प्रमाण विना सिद्ध करवा माने ठे !

साची वाततो ए ठे के, विक्रम संवत् बारसो चार (१२०४)मां जिनदत्तसूरिने तेमनो प्रकृतिने अनुसरतुं 'खरतर' एतुं उपनाम आप्युं पण ते उपनाम तेमने अने तेमना शिष्यवर्गने पण अत्यंत अनिष्टज

होवाची ग्रंथोमां लळ्युं नहीं पण ते पढी काळातरे-तेरमा सैकाना अन्तमां अथवा चौदमा सैकानी आयमां ज्ञीओ माटेओ जिनपूजानो निषेध करनार जिनदत्तसूरिना वंशजोए खरतर शब्दनो सत्य अने सिद्धो लोकप्रसिद्ध अर्थबदलो पूज्यपाद श्रीजिनेश्वरसूरिजी महाराजश्रीना नामथी कल्पित करेल संजवेढे,अन्यथा जो खरतरविरुद्ध श्रीजिनेश्वर-सूरिजी महाराजाने मळ्युं होत तोअगीधारमा अने वारमा सैकामां थयेला चारित्रपात्र पूज्यपाद आचार्यश्री ओए तेनो उद्वेख अवश्य पो-ताना ग्रंथोमां कयों होत.वळी आचार्यश्री अजयदेवसूरिजीमहाराजा तो खुद तेओओना चिनथी शिष्य होवाची अने अनेक सूत्रग्रंथोना पण टीकाकार होवाची पोताना गुरुश्रीना विरुद्धनो(के जे विरुद्धने गुणनिष्पन्न बनावी जिनदत्तसूरिनो अनुयायिवर्ग श्रीजिनेश्वरसूरिजी महाराजाने अलंकृत करवा मागे ठे ) उद्वेख कोइ एकाद ग्रंथमां तो अवश्य करतज, पण तेतुं कांइज थयुं नथी वतां ते वातने सिद्ध करवा अने वारसो चारना उद्वेखने असत्य अने अजिनिवेशथी थयेलो मनाववानी कोशीषपंचर्षांगी प्रकरणनी प्रस्तावनामां कोइक विद्वाने करी ठे,परंतु एम करवाची तो ते विद्वान महाशयज अजि-निवेशना उपासकनी कर्हामां आवी जाय ठे। ते अपूर्व विद्वाने अजर वीजा पण जिनदत्तसूरिना अनुयायिवर्गे खुद श्रीअजयदेवसूरिजी महाराजनी साक्षी आपवी जोइए अजर अगीआरमी वारमी सदीमां थयेला अन्य आचार्य महाराजाओना रचेला ग्रंथोना आधारो आपवा जोइए, अन्यथा कोइपण प्रकारे साध्यसिद्धि थइ शके तेम नथी.

प्र०-१५१-श्रीशत्रुंजयमाहात्म्यमां पूज्यपाद श्रीमान् धनेश्वर-सूरिजीमहाराजाए कहुं ठे के श्रीशत्रुंजय महातीर्थ उपर जेजो तेजो

संयति वेषधारी पण वंदनीय अने श्रीगौतमस्वामिवत् पूजनीय ठे तो तेनो परमार्थ शो ?

उ०—श्रीशत्रुंजयमाहात्म्यना द्वितीयसर्गमां केवल खिंगधारी मुमुक्षुने श्रीशत्रुंजय तीर्थ उपर वंदनीय कह्यो ठे ते कारणिक विधिनी अपेक्षाए समजवुं अथवा तीर्थोद्भावना-तीर्थउन्नतिनी बुद्धिथी समजवुं.

श्रीह्रीरप्रश्नना द्वितीयप्रकाशमां पंकित श्रीहर्षगणित्तीना प्रश्नना उत्तरमां शुगप्रधान परमपूज्य आचार्यश्री विजयह्रीरसूरोश्वरजी महाराजश्रीए कहुं ठे के:-

“ वन्देऽसौ सर्वसौख्यानि, त्रिशुद्धयाऽऽराधितो यतिः ।

विराधितश्च तैरश्च-नरकानल्पयातनाः ॥ ९० ॥

चारित्रिणो महासत्त्वाः, व्रतिनः सन्तु दूरतः ।

निष्क्रियोऽप्यशुणहोऽपि, न विराध्यो मुनिः क्वचित् ॥ ९१ ॥

यादृशं तादृशं चापि, दृष्ट्वा वेषधरं मुनिम् ।

गृही गौतमवद्भवत्या, पूजयेत् पुण्यकाम्यया ॥ ९२ ॥

वन्दनीयो मुनिर्वेषो, न शरीरं हि कस्यचित् ।

व्रतिवेषं ततो दृष्ट्वा, पूजयेत् सुकृती जनः ॥ ९३ ॥

पूजितो निष्क्रियोऽपि स्यात्, लज्जया व्रतधारकः ।

अवज्ञातः सत्क्रियोऽपि, व्रतिः स्याच्छिथिलादरः ॥ ९४ ॥

दानं दया क्षमा शक्तिः, सर्वमेवाल्पसिद्धिकृत् ।

तेषां ये व्रतिनं दृष्ट्वा, न नमस्यन्ति मानवाः ॥ ९५ ॥

आराधनीयास्तदमी, त्रिशुद्धया जैनर्लिगिनः ।

न कार्या सर्वथा तेषां, निन्दा स्वार्थविघातिका ॥ ९६ ॥

कारणं तव कुष्ठानां, महीपाल । स्फुटं श्वदः ।

मा कदापि मुनीन्, कुद्धानपि त्वं तु विराधयेः ॥ ९७ ॥

इति श्रीबृहशत्रुजयमाहात्म्यद्वितीयसर्गमध्यगतश्लोकास्तेषां मध्ये केवललिङ्गमात्रधरोऽपि मुमुक्षुर्वन्दनीयो गौतमवत् पूजनीयश्च तत्कार्यं केन

हेतुना ? इति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्—‘दत्तेऽसौ सर्वसौख्यानि’ इत्यादि शत्रुञ्जयमाहात्म्यद्वितीयसर्गगतश्लोकास्तु कारणिकविधिमाश्रित्य तीर्थोच्चावहनबुद्ध्या वा कृताः सम्माष्यन्ते इति न कश्चिदोषः इति ॥ १ ॥

सारांशः—‘मन, वचन अने कायानी श्रुद्धिथी आराधन करेखो आ साधु सर्व सुखने आपे डे अने विराधन करे तो तिर्यच तथा नरकना महादुःखोने आपे डे. चारित्रवंत महासत्त्व साधुमुनिराजो तो दूर रहो पण चारित्रनी क्रियाहीन गुणोनी अनजिज्ञ साधु पण कदापि विराधवो नहि.जेवा तेवा पण वेषधारी साधुने देखीने पुण्यनी झ्जावाळो पृहस्य प्रकथी श्रीगौतमस्वामिजीनी जेम पूजा करे. कोई पण साधुनुं शरीर बंदनिक नथी किंतु साधुनो वेषज बंदनिक डे. तेथी पुण्यवंत प्राणी साधुवेषने देखीने पूजन करे. क्रियाहीन पण पूजेखो साधु खड्जाथी व्रतनो धारनार थाय. अबज्ञा करवाथी क्रियावानु साधु पण व्रतमां शिथिल आदरवाळो थाय डे. जे मनुष्यो साधुने देखीने नमस्कार करता नथी तेमनुं दान, दया, हमा अने शक्ति सर्व अह्यफळने आपनार थाय डे. ते कारणथी जैनखिंगधारी आ साधुं आराधवा. सर्वथा तेमनी स्वार्थने नाश करनारी निंदा न करवी. हे राजन् ! कोहनुं कारण तारे प्रगट डे. क्रोधायमान एवा मुनिने पण कोई वखत तुं विराधीश नहि’. आ प्रमाणे श्री बृहत्-शत्रुञ्जयमाहात्म्यना बीजा सर्गमां श्लोकोडे तेमध्ये केवल खिंगमात्र धारी साधु पण वांदवो अने श्रीगौतमस्वामिजीनी जेम पूजवो कखो ते शा हेतुथी ? इति प्रश्न अत्र उत्तर—‘दत्तेऽसौ सर्वसौख्यानि’ इत्यादि श्रीशत्रुञ्जयमाहात्म्य बीजा सर्गमां कहेखा श्लोको कारणिक विधिने आश्रित अथवा तीर्थनी प्रजावनानी बुद्धिथी करेखा होय एम संजवे डे ते कारणथी कोई दोष नथी.

प्र०-१५५-जघन्यथी अने उत्कृष्टथी श्रीस्थापनाचार्यजी केटला उंचा होय तो प्रतिक्रमणादिक्रियानी शुद्धि थाय ?

उ०-श्रीस्थापनाचार्यजी मस्तकथी उंचे अने पगथी नीचे होय तो क्रियाशुद्धि न थाय. माटे पगथी उंचा अर्थात् जघन्यपणे चार अंगुल अने उत्कृष्टथी मस्तक सुधी उंचा होय तो. क्रियाशुद्धि थाय.

श्रीहीरप्रश्नना बीजा प्रकाशमां कष्टं ठे के:-

“ स्थापनाः कियति प्रदेशे उर्ध्वमघस्तिथक् च दूरे स्थापिताः क्रिया-शुद्धिहेतवो भवन्ति ? इति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्-अत्रोर्ध्वं मस्तकात् पादयोरधस्तात् तिर्यग् द्रष्टुमशक्ये स्थाने स्थापिताः स्थापनाः क्रियाशुद्धिनिमित्तं न भवन्तीति वृद्धवादः । यत्तुपरितनमूम्यादौ स्थापितास्तु तास्वघस्तनमूम्यादौ क्वापि क्रियायाः क्रियमाणत्वं तत्कारणिकत्वमिति ज्ञेयम् ॥ ४ ॥

सारांशः-श्रीस्थापनाचार्य केटले उंचा, केटले नीचा अने केटले दूर स्थाने स्थापेल होय तो क्रिया शुद्धिनो हेतु थाय ? इति प्रश्न, अत्र उत्तर श्रीस्थापनाचार्य मस्तकथी उंचा, पगथी नीचा अने तिर्हा देखवामां न थावे एवा स्थानमां स्थापेल होय ते क्रियानी शुद्धितुं कारण न थाय एम वृद्धवाद ठे. जे उपरनी चूमि उपर स्थापेल होय अने नीचेनी चूमिए कोईरु क्रिया कराय ठे ते कारणिक जाणवी.

प्र०-१५३-प्रथम तीर्थंकर श्रीऋषभदेवस्वामिनो माताने चौद स्वप्न आढ्यां तेनो अर्थ कोणे कष्टो ?

उ०-जगदती मरुदेवी माताने जगत्राज् उयारे गर्जमां आढ्या स्थारे चौद स्वप्नो आढ्यां तेनो अर्थ प्रथम श्रीनाजिकुडकरे कष्टो अने पढो सौधर्म इंद्र अने ईशानेंद्र आढ्या तेमणं कष्टो.

श्रीतीर्थोद्गालीपयत्नामां स्पष्ट उल्लेख ठे के:-

“ मरुदेवीपद्महाओ, कर्हिस्तु नियङ्कल्लगराणं तु ॥ ११५ ॥

तो ते कुलगरनाहा, जायाब भणंति सोहृणं वयणं ।  
 होहिति य तुह पुसा, किन्ती शुत्ता महासत्ता ॥ ११६ ॥  
 तेविय भम्हाहितो, अहिया होहिति नत्थि संदेहो ।  
 अह्वावि कुलगराणवि, विसिद्धतरयं तु जं ठाणं ॥ ११७ ॥  
 तत्तो य पहायंमी, गयंमि सूरं जुगंतरं कमसो ।  
 मिद्धुणाण ताण पासं, सक्कीसाणागया सहसा ॥ ११८ ॥  
 तेहि विणपणं तो ते, सुविणफलं पुच्छिया सुरवरिंदा ।  
 त्वतेवं पिव ईसि, कर्यजली सुरवरा भणिया ॥ ११९ ॥  
 जह एते साहसया, विद्वा कल्लाणवंसणा सुमिणा ।  
 होहिति य तुह पुत्ता, उत्तमविज्ञानसंयुत्ता ॥ १२० ॥ ॥”

सारांशः—श्रीमरुदेवी माता प्रमुखे पोताना स्वामी कुलगरोने स्वप्नो कक्षां. त्पारे ते कुलगरनाथोप पोतानी स्त्रीडने शुज वचन कक्षां के तमारे कीर्तिवंत महासत्त्ववान् पुत्रो थशे अने ते पुत्रो अमारार्थी पण अधिक थशे. अथवा कुलगरोथी पण जे कोइ अधिक श्रेष्ठ स्थान तेने जोगववाळा थशे एमां संदेह नथी. त्पार पढो प्रातः कालमां क्रमे करीने सुखोदय थये ते श्रीनाजिराजा अने मरुदेवी माता आदि युगळोनी पासे सौधमेंड अने ईशानेंड शीघ्र आब्या. त्पारे माता पितादिके ते सुरेंडोने ते स्वप्नोनां फल पृढथां जरा विचार करता होय तेम हाथ जोकी इंडोप कक्षुं के आ सातिशय कल्याणने दर्शाववावाळां स्वप्नो दीगां तेथी तमारे उत्तमज्ञानसंयुक्त पुत्रो थशे.

प्र०—१५४—दिगंबरना मंदिरोमां वंदन पूजन थाय ? जो न थाय तो कोइ पडुं समजावे ठे के ‘युगप्रधान श्रीहीरसूरिजी महाराजा दिगंबरना मंदिरमां वंदननिमित्ते गया हता’तो श्रुं ते सत्य ठे?

उ०—अकबरबादशाहप्रतिबोधक युगप्रधान श्रीहीरसूरीश्वरजी महाराजाय ‘छादश जल्प पट्ट’ बनावेल ठे तेमां दिगंबरी प्रतिमाजीने वंदन पूजननो स्पष्ट निषेध करेल ठे तथा श्रीहीरसूरीश्वरजी

महाराजा दिगंबर मंदिरमां वंदन निमित्ते गया एमां कोइज प्रमाण नथी तो समजाय ठे के जैनसमाजने उद्वे रस्ते दोरवानो प्रयास कोइ अतत्त्वज्ञ पंक्तिनी प्रेरणाथी थयो ठे माटे समाजे तेवा हरेक कुटप्रयत्नोथी सावचेत रहेवुं. श्रीसेनप्रश्नना चोथा उल्लासमां १५ए मां प्रश्नमां द्वादश जल्पपट्ट मध्ये खखेल ठे के:-

“ दिगंबर संबंधिमा चैत्य १, केवलआब्धप्रतिष्ठित चैत्य २, द्रव्य लिं-  
गोनई द्रव्यई निष्पन्न चैत्य ३, ए त्रिणि चैत्य विना बीजां सघलाई चैत्य  
बांदवा पुजवा योग्य थाइ. । ”

आ पाठमां दिगंबर चैत्यनो स्पष्टपणे जगद्गुरुजी श्रीविजयही-  
रसूरीश्वरजी महाराजाय निषेध करेल ठे.

प्र०-१५५-सांप्रतकालमां चौदश आदि रिक्ता तिथिमां प्र-  
तिष्ठा थाय ठे तो शुं कोइ शास्त्रमां प्रतिष्ठामां रिक्ता तिथि लेवानुं  
फरमान ठे ? अथवा कोइ पण स्थळे पूर्वकालमां रिक्ता तिथिय प्र-  
तिष्ठा थइ ठे ?

उ:-प्रतिष्ठामां रिक्ता तिथि लेवा पण कहेखी ठे.

चौदसो चुंवालीस ग्रंथोना रचयिता जगवान् श्रीहरिचन्द्रसूरी-  
श्वरजी महाराजा ए लक्ष्मण्युद्धि नामना ग्रंथमां कहुं ठे के:-

“ सवे धि वारतिहिओ, सुहया सह सिद्धि जोगसन्भावे ।

चंद्रमि डवचर्यमि, न पुणो नहुंमि जिभे बा ॥ ”

प्रावार्थ:-‘चंद्रमा क्षीण अथवा जीर्ण न होय पण उपचित पटले पुष्ट  
होय अने सिद्धियोग जो होयतो सर्ववार तथा सर्वतिथिउं शुंनठे,आत्रो  
स्पष्ट उल्लेख होवाथी रिक्ता तिथिनो पकांत निषेध नथी. वळी जेठ  
सुदी चौदशना दिवसे सिद्धियोग, रवियोग तथा चंद्रमा पुष्ट हो-  
वाथी ते तिथि सर्वथा छूषित नथी.

भारवाक देशमां नाणा ए नानी पंचतीर्थिमांनुं एक तीर्थ ठे,



नाणामां प्रथम श्रीमहावीरस्वामी जगवाननी जीवतस्वामिनी मूर्ति हृती एवो प्रघोष ठे, ते पढी काखान्तरे नवीन बिंब स्थापित थयेळ ठे, ते जगवाननी पक्षांठी उपर लेख ठे तेमां लख्युं ठे के-

“ संवत् १६०५ वर्षे महावद् १ शनौ श्रीनाणकीयगच्छे श्रीमहावीर-बिम्बं प्रतिष्ठितं श्रीशान्तिसूरिभिः ”

अर्थात्-श्रीनाणकीय गह्वना श्रीशान्तिसूरिजीए १५०५ ना वर्षे माह वदी ए शनिवारना दिवसे श्रीमहावीरस्वामिना बिम्बनी प्र-तिष्ठा करी ठे.

“संवत् १२०६ ज्येष्ठ शुवि ९ मंगलदिने अ० सहजिगसुतेन उक्तापरम-आवकेण निजानुजभोदा-मागिनेयममा-अग्निनीबोलीप्रवृत्तिस्वकुटुंबसम-न्वितेन निजकलत्रसलक्षणाश्रेयोनिमित्तं श्रीपार्श्वजिनबिंबं कारापितं प्रति-ष्ठितं च श्रीमजितदेवसूरिशिष्यैः श्रीविजयसिंहसूरिभिः ।

संवत् १३३८ वर्षे ज्येष्ठ शुदि १४ शनौ अनेमिनाथवैस्पे बृहद्गच्छीय. श्रीरत्नप्रमसूरिशिष्यश्रीहरिमद्रसूरिशिष्यैः श्रीपरमानंदसूरिभिः प्रतिष्ठितम्

संवत् १३३७ वर्षे ज्येष्ठ शुदि १४ शुके बृहद्गच्छीयश्रीचक्रेश्वरसूरिसं-तानीयपूज्यश्रीसोमप्रमसूरिशिष्यैः श्रीवर्चमानसूरिभिः श्रीशांतिनाथबिंबं प्रतिष्ठितम् ।

संवत् १६७५ वर्षे माघ शुद्ध ४ शनौ श्रीउक्तेशाबंशीयबृहद्शाखीय सा० मायां तेजलदे सुतसोमजीयुतेन श्रीमहावीरबिंबं कारितं प्रतिष्ठितं च श्री तपागच्छे म० श्रीहीरविजयसूरीश्वरपद्ममावक म० श्रीविजयसेनसूरिप-द्दालकारश्रीविजयदेवसूरिभिः श्रीभारासगणगरे । ”

आ उपर जणावेल लेखोमां चतुर्थी, नवमी अने चतुर्दशी प्रये रिक्ता तिथिमां रवियोगादिना योगवखने आश्रित अथवा शुभप्र-होना वखथी विचूषितलक्षवखने आश्रित पूर्वाचार्येण जे प्रतिमानी अंजनशलाका करेली ठे, ते श्रीजिनप्रतिमाळी श्रीकुंजारीयाजी तीर्थमां वर्चमानमां बीराजमान ठे.

आ उपरथी सिद्ध थाय ठे के चतुर्थी, नवमी अने चतुर्दशी तीथि रीका ठेठतां पण ओशान्तिसूरिजी महाराज आदि पूर्वाचार्यो-प सिद्धियोग रनियोग आदि ब्रह्मवान् शुच्योग होवाथी स्वीकारी ठे. सिद्धियोग होय तथा चंद्रमा पुष्ट होय तो ते लेवानी आज्ञा पण शा-स्त्रमां ठे, एटले हवे समजनाराठ समजी शकशे के सांप्रतकालमां चौथ नेम के चौदशनी प्रतिष्ठामां योगादि श्रेष्ठ गुणो होयठतां रिका तिथि मात्रथीज कोइ दूषित कहे तो तेमा मात्र बेज कारण संजवे ठे, एक तो जैनशैक्षिने अनुसरता उयोतिषज्ञाननो अभाव अने बीजुं स्वार्थ न सधावाथी उत्पन्न थयेलो ट्रेष. अज्ञान के ट्रेषथी धमधमता प्रा-णीठं उपर अनुकंपा करवी एज उत्तम मुमुक्षु आत्माठनी फरज ठे, एटले ए वावतमां आथी अधिक कंइपण कहेवानी जरुर नथी.

प्र०-१५६-पाक्षिकादि प्रतिक्रमणमां ठीक आवे तो क्यांसुधी फरीथी करवुं अने फरीथी न थाय तो शुं करवुं ?

उ०-अतिचार सुधीमां ठीक आवे अने अवसर होय तो फ-रीथी करवुं. जगद्गुरु श्रीविजयहीरसूरीश्वरजी महाराजे हीरप्रक्षना बीजा प्रकाशमां कहुं ठे के:-

“पाक्षिकादिप्रतिक्रमणे क्रियमाणे छिकासद्भावे क्लृप्तः स्थानात् किं स्थानं यावत् पुनः प्रतिक्रमणं क्रियते ? इति प्रश्नोऽन्वोत्तरम्-पाक्षिकप्रतिक्रमणे पाक्षिकातिचारालोचनादधीम् यदि छिक्का जायते तदा सत्यवसरे चैत्यव-न्दनादितः पुनः कर्त्तव्यमिति बृहत्सम्प्रदायः ॥ २ ॥ ”

सारांशः-पाक्षिक, चातुर्मासिक अने संवत्सरी प्रतिक्रमण करतां ठीक थाय तो क्यांथी क्यां सुधी फरीथी प्रतिक्रमण करीए इति प्रश्न अत्र उत्तर पाक्षिक प्रतिक्रमणमां पाक्षिक अतिचार आलोच-नाथी पहेलां जो ठीक थाय अने अवसर होय तो चैत्यवंदनथी फ-रीथी करवुं एम बृहत् संप्रदाय ठे.

फरीधी न कराय तो सजाय सुधी प्रतिक्रमण करी खमासमण दइ छुदोपद्रव निमित्ते 'सागरवरगंजीरा' सुधी चार लोगस्सनो कायोंत्सर्ग करी दुक्खरकयकम्मस्सयनिमित्त कायोंत्सर्ग करवो. पंक्ति-प्रवर श्रीश्रीरविजयजीए प्रश्नोत्तरचिंतामणिमां कहेल ठे के:-

“ पाक्षिकप्रतिक्रमणे यदि छिन्ना जायते तदा किं कर्तव्यमितिप्रश्नः प्रत्युत्तरमाह-प्रतिक्रमणे पाक्षिकातिचारालोचनाऽर्वाङ् यदि छिन्ना जायते तदा सति अवसरे पुनः आदितः प्रतिक्रम्य यदि प्रतिक्रमणवेला न स्यादाति-चारालोचनपश्चाच्छिन्ना जायते तदा को विधिरित्याह-पद्मावह्यकसमाप्त्य-नन्तरं यावत् स्वाध्यायं कृत्वा क्षमाभ्रमणं दत्त्वोत्थायेत्थं कथयन्ति यथा इ-च्छाकारेण संदिसह भगवन् छुद्रोपद्रवउहडावणीकाउस्सगं करं इच्छे छु-द्रोपद्रवउहडावणी करेमि० अन्नत्थ उ० लोगस्स ४ सागरवर गंभीरा यावत् पारयित्वा स्तुतिवाँच्या नमोईत्० ।  
सर्वे यक्षाधिकार्या ये, वैयाहृत्यकरा जिने। छुद्रोपद्रवसंघातं, ते द्रुतं द्रावयन्तु नः॥१॥  
कथयित्वा तदनु दुक्खरकयकम्मकूक्खय० यावद्दुहृत्तशांतिस्तावत् ज्ञे-यमिति वृत्तसम्मदायः ॥ ३७ ॥ ”

सारांशः-पाक्षिक प्रतिक्रमणमां जो ठीक थाय तो शुं करतुं इति प्रश्न उत्तर कहे ठे-प्रतिक्रमणमां पाक्षिक अतिचारनी आलोचनाधी पहेलां जो ठीक थाय तो अवसर होय तो प्रथम-(चैत्यवन्दनधी) फरीधी प्रतिक्रमण करतुं. जो प्रतिक्रमणनो वखत न होय अथवा अतिचार आलोचणनी पढी ठीक थाय तो शो विधि ते कहे ठे-उ आवश्यक पूर्ण थया पढी यावत् सजाय सुधी करी क्षमासमण दइ उजो यइ एम कहे-‘इच्छाकारेण संदिसह जगवन् । छुद्रोपद्रव उहडा-वणी काउस्सगं करं’ एम कही इहे छुद्रोपद्रव उहडावणी करेमि काउस्सगं अन्नत्थ उस्ससिपणं यावत् अप्पाणं वोसिरामि कही चार लोगस्सनो सागरवर गंजीरा सुधी नो कायोत्सर्ग करवो पारीने नमोऽ-ईत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुज्यः कही ‘ सर्वे यक्षाधिकार्या ये ’

युद्ध कही ते पढी डुकखरकपकम्मस्कयनो काउस्तग करवो जयां सुधी मोटी शांति कहेवाय ठे त्यां सुधी जाणवुं एम वृद्ध संप्रदाय ठे.

प्र०-१५७-वर्तमान समयमां पण केटखाक पुरुषो प्राचीन री-  
तिने अणुसरी कागळ लखी तेना उपर चुंबोतेर (७४) नो आंक करे  
ठे तेनुं कारण शुं ?

उ०-श्रीफलोधी नगरमां श्रीफलोधीपार्श्वनाथस्वामिना देरास-  
रमां मेरुता नगरना राजानी प्रशस्तिनो एक शिलालेख ठे, तेमां  
एक काव्यमां लखेल ठे के ' मेरुता नगरना राजाए एकसाए पृथ्वी-  
राज नामना राजानी आझाथी यवन राजा पासेथी वार्षिक दंड  
लेवाने यवनपतिना चुंबोतेर सुजटोने मार्या ते राजानो वंश अथापि  
विद्यमान ठे. ' ते सूरराजाए जे दिवसथी चुंबोतेर सुजटोने मार्या ते  
दिवसथी आझाविना बीजो मनुष्य कागळ न वांचे तेनुं करवा माटे  
चुंबोतेरनो.आंक कागळनी उपर लखवामां आवे ठे.

आविशेषसंग्रहमां खरतरगह्नीय उपाध्यायजी समयसुंदरजी गणीए  
उल्लेख करेल ठे के:-

"मेळतानगरे सुरनामा राजा बसूष तस्य प्रशस्तिः श्रीफलोधीपार्श्वनाथदेव-  
गृहे केशरघर्षणस्थानपार्श्ववर्तिमित्तौ लिखिताऽस्ति तत्रेदं काव्यं लिखितमस्ति-

" पृथ्वीराजद्वपाज्ञया यवनपाद्यो गर्जनाद् वार्षिकम्,

दंडं लातुमितो जघान सुभदानेकचतुःससति

सोऽकोऽथापि च लेखवस्तुषु जनैः रक्षार्थमालिख्यते

नाम्ना तस्य विराजते गुणनिधिः श्रीसूरवंशो मुचि ॥ १ ॥

अत्र लेखोपरि दीयमानचतुःसप्त्यकहेतुर्विशेषः ॥ ५८ ॥ "

सारांशः-मेरुता नगरमां सुर नामा राजा थयो तेनी प्रशस्ति  
श्रीफलोधी पार्श्वनाथजीना मंदिरमां केशर घसवाना स्थाननी पा-  
सेनी जीतमां लखेली ठे. तेमां आ काव्य लखेल ठे. पृथ्वीराजनामा

राजानी आज्ञार्थी यवन राजनी पासेथी वार्षिक दंरु लेवाने एक-  
छाप गर्जना पूर्वक चुंबोतेर सुजटोने मार्या, ते अंकने संप्रति काजे  
पण लेखना उपर तेना रक्षणने अर्थे लोको लखे ठे. तेना नामथी  
गुणनो जंकार एवो सुरराजानो वंश पृथ्वीने त्रिषे शोने ठे.

प्र०-१५०-साधुमहात्माउने दिवसमां सुवानी आज्ञा ठे ?

उ०-पंथ करवाथी अमित थयेला, विमार थयेला अने वृद्ध  
अवस्थाना साधुपुरुषो माटे दिवसे सुवानी पण आज्ञा ठे.

श्रीलंघनिर्युक्ति सूत्रमां कहेल ठे के:-

“ अद्यागपरिस्तंतो, गिलाणवुद्धो अणुणवेताणं ।

संघारुत्तरपट्टो, अत्थरण गिबजणाऽऽलोकं ॥ ४१९ ॥ ”

सारांश:-पंथ करवाथी अमित, विमार अने वयोवृद्ध साधु  
महात्माउने श्रीआचार्य महाराजनी आज्ञा लइ संघारो अने उत्तर-  
पट्टो बीबावी दिवसमां पण आलोकस्थानने ठोनी अच्यंतरे स्थानमां  
निद्रा लेवी कल्पे.

प्र०-१५१-देवो जवधारणीय शरीरथी पटळे पोताना मूळश-  
रीरे अत्रे आवे ?

उ०-शाश्वत पर्वत उपर वाणव्यंतर देवदेवीलं पोताना मूळश-  
रीरथी अने उत्तरवैक्रियशरीरथी सदा क्रिया करे ठे तथा संगमदे-  
वता मूळ शरीरथी मेरुपर्वतनी चूखिका उपर रहेप्र ठे तेथी संजव  
ठे के देवतालं मूळ शरीरथी पण अहीं आवे.

श्रीजीवाजिगमसूत्रमां त्रीजी प्रतिपत्तिमां मनुष्यना अधिकार-  
मां जगती उपर वनखंरना वर्णननी टीकामां कहेल ठे के:-

“ नियह पश्या इति । व्याख्या॥नियत्या नैयत्येन पर्वता नियतिपर्वता  
कवचित् ‘निययपश्या’ इति ‘पाठः तन्न नियता सदा भोग्यत्वेन अवस्थिता

पर्वता यत्र वानमंतरा देवा देव्यश्च भवधारणीयेन वैक्रियशरीरेण प्रायः सदा रममाणा भवतिष्ठन्ते इति भावः । ”

सारांशः—नियतपणे करीने पर्वतो—नियति पर्वतो कोईक प्रत्यंतरोमां ‘निययपव्वया’ पाठ ठे त्यां नियत पटले सदा काल जोग्यपणे अवस्थित पर्वतो ज्यां वानवंतर देवदेवीळं जवधारणीय शरीरवके तथा वैक्रिय शरीरवके घणुं करीने नित्य क्रीना करे ठे.

श्रीरायपशेष्ठी सूत्रनी वृत्तिमां पण सूर्याजविमानना वर्धनना अधिकारमां पण कहेल ठे केः—

‘ निययपव्वया ’ इति नियत्या—नैयत्येन व्यवस्थिताः पर्वताः नियति पर्वताः क्वचित् ‘ निययपव्वया ’ इति पाठः, तत्र नियताः—सदा भोग्यत्वेनावस्थिताः पर्वता—नियतपर्वताः, यत्र सूर्याभविमानवासिनो वैमानिका देवा देव्यश्च भवधारणीयेनैव वैक्रियशरीरेण सदा रममाणा भवतिष्ठन्ते इति भावः । ”

सारांशः—नियतपणे जे पर्वतो ते नियति पर्वतो कहीये कोईक प्रत्यंतरोमां ‘ निययपव्वया ’ एवो पण पाठ ठे त्यां सदा काल जोग्यपणे अवस्थित पर्वतो ते नियतपर्वतो ज्यां सूर्याजविमानमां रहेवावाळा वैमानिक देवो अने देवीळं जवधारणीय वैक्रिय शरीरे करीने सदा क्रीना करे ठे.

श्रीहीरप्रश्नना त्रीजा प्रकाशमां पण कहेल ठे केः—

“ संगमकसुरः सुरेशेन निष्काशितः स भवधारणीयेन शरीरेण मेरुचूलायां जगामोत्तरवैक्रियेण वा । इति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्—मौळेनेति विज्ञायते, उत्तरवैक्रियस्यैतावत्कालमवस्थानाभावात् । यत्र मौळं शरीरं विमानावबर्हिर्न निर्गच्छतीति वचस्तत्राधिकमिति बोध्यम् ॥ २ ॥ ”

सारांशः—इंद्र महाराजाय काढी मूकेलो संगमदेवता ते जवधारणीय वैक्रिय शरीरथी मेरुपर्वतनी चूला उपर गयो के उत्तर वैक्रिय शरीरथी इति प्रश्न अत्र उत्तर मूळ शरीरथी गयो होय एम जणाय

डे. उत्तर वैश्रियशरीरनो पटलो काल रहेवानो अजाव होवाथी मूळ शरीर विमानथी बाहार न जाय ए वचन प्रायिक डे एम जाणवुं. आसेनप्रक्षना त्रीजा उल्लासमां ३५९ मा प्रक्षमां पण देवताओ चव धारणीय शरीरथी कोर्क वखत अहीं आवे एम कहेल डे.

प्र०-१६०:-कुरुट अने उत्कुरुट नामना मुनिउं के जेउंए कुणाला नगरीनो विनाश कर्यो तेउं कर्यारे अथा अने कइ गतिमां गया ?

उ०-कुरुट अने उत्कुरुट नामना वचनसिद्धिवाळा वे जाइ साधुउं श्री महावीरस्वामिना केवलज्ञानथी तेर वर्ष पूर्वे विचरता हता. ते बन्ने मुनिउं कुणाला नगरीनी बहार खाइमां कार्योंसर्ग करी चातुर्मास रहेला होवाथी नगरना जलथी साधुउं तणाइ-कुवी न जाय ए हेतुथी सानिध्यमां रहेल कोइ चकिमान् देवे वर्षादिने रोकवाथी नगरवासी जनोए ते साधुउंने त्यांथी काढी मूक्या तेथी कुपित थइ कुरुटे कहुं के ' हे मेघ ! कुणालामां वरस. ' त्यारे उत्कुरुटे कहुं के ' पंदर दिवस सुधी, ' फरीथी कुरुट बोदयो के 'मुशळधाराए' पटले उत्कुरुट बोदयो के ' जेम दिवस तेम रात्री '. आ प्रमाणे पंदर रात्रि अने दिवस सुधी मेघना वरसवाथी कुणाला नगरीनो नाश थयो ते पापनी आलोचना कर्या विना ते बन्ने मुनिउं त्रीजे वर्षे काल करी सातमी नरके गया. तिलकाचार्यकृत श्रीआवश्यकसूत्रनी वृत्तिमां लखेल डे के:-

“ कुरुटोत्कुरुटौ साधू, मातृष्वक्षेयकौ मिथः ।

भातरौ ब्राह्मणावध्या-पकावात्तार्हत्तत्रतौ ॥ १ ॥

भखूत् पुर्याः कुणालाया-स्तयोर्निगमनाप्रतः ।

धर्षास्तु वसतिनीरैः, प्लाव्यतां मेति देवता ॥ २ ॥

भटालयत् कुणालाया, वृष्टिं ज्ञात्वा च तज्जनैः ।

निःसार्येति स्म तौ साधू, कुब्जोऽथ कुरुटोऽश्वीत् ॥ ३ ॥

धर्षं देव ! कुणालाया-सुधासोत्कुरुटस्ततः ।

दिनानि दश पञ्चाथ, पुनः कुरुट ऊचिवान् ॥ ४ ॥

मुसलोपमधारानि', पुनरुत्कुरुटोऽभ्यधात् ।  
 यथा दिवा तथा रात्रा-वित्युक्त्वा तौ निरीयतुः ॥ ५ ॥  
 कुणालाऽपि पञ्चदश-दिनैरवच्छिन्नवर्षणात् ।  
 सार्द्धं जनपदेनांभः-पूरैः प्रावाह्यताखिला ॥ ६ ॥  
 तृतीये वत्सरे तौ च, साधु साकेतपत्तने ।  
 कालं कृत्वा ससमोर्व्यां, द्वाविंशल्यन्तरायुषां ॥ ७ ॥  
 कालाख्यनरकावासे, सञ्जायेते स्म नारकी ।  
 कुणालाया विनाशस्य, कालादूर्ध्वं त्रयोदशे ॥ ८ ॥  
 उत्पन्नं केवलं ज्ञानं, श्रीमद्वीरजिनेशितुः । ”

सारांशः—कुरुट अने उत्कुरुट नामना ब्राह्मण जातिना अध्यापको श्रीजैनदीक्षा श्रंगोकार करेल वे मासीआइ जाइ साधुळ कुणालानगरीनी ब्रह्मर नगरीनुं पाणी जवानो खाइमां चतुर्मास रक्षा. वर्षाद थयाथी नगरीना जले करीने तणाइ न जाय ए हेतुथो सांनिध्य रहेल कोई जक्तिमान देवे कुणालानगरीमां वृष्टिने बंध करी ते जाणीने नगरवासी लोकोए ते साधुळने त्यांथो काही मूक्या, तेथी क्रोधायमान थइकुरुट साधु बोड्यो के—‘हे मेघकुणालामां वरस’ लार पढी उत्कुरुट बोड्यो के—‘पंदर दिवस सुधी’ फरीथी कुरुट बोड्यो ‘मुसलधाराए’ फरीथी उत्कुरुट बोड्यो के—‘जेम दिवस तेम रात्रि’ एतुं कहीने ते वझे साधुळ त्यांथो चाड्या गया. अव्यवहिनपणे पंदर दिवस सुधी मेघना वर्षवाथी देशनी साथे संपूर्ण कुणालानगरी जलना पूरे करीने तणाइ गइ. साकेतपुरनगरमां त्रीजा वर्षे ते वझे साधुळ काल करी घावीस सागरोपमना जघन्य आयुष्यवाळा सातमी नारकी पृथ्वीमां काल नामा नरकावासमां नारकीपणे उत्पन्न थया. कुणाला नगरीना नाशथी तेरमे वर्षे श्रीमन्महावीर जिनेश्वर महा-राजने केवलज्ञान उत्पन्न थयुं.



प्र०-१६१-श्रीतीर्थकरमहाराजाना समवतरणमां प्रथम अल्प-  
ऋद्धिवाळा मनुष्य अथवा देवता आढ्या होय अने पढीथी महर्दिक  
आवे तेने अल्पऋद्धिवाळा नमस्कारादिक करे ?

उ०-श्रीतीर्थकरमहाराजाना समवतरणमां प्रथम अल्पऋद्धि-  
वाळा मनुष्य अथवा देवो आढ्या होय अने महर्दिको पढीथी आवे  
तो प्रथम आवेला अल्पऋद्धिवाळां नमस्कार करे. जो महर्दिको  
प्रथम आवेला होय अने अल्पऋद्धिवाळां पढीथी आवे तो पण  
प्रथम आवेल महर्दिकोने अल्पऋद्धिवाळां नमस्कार करी पोताना  
उचित स्थाने जाय, आ प्रमाणे अधिकऋद्धिवाळांनुं नमस्कारादि  
उचित अल्पऋद्धिवाळां साचवे.

जगवान् श्रीसंघदासगणोजीकृत श्रीवृहत्सुखनाथ्यमां स्पष्ट  
उल्लेख ठे के:-

“ इतं महर्दिक्यं पणि-वयंति द्वियमधि वयंति पणमंता ।

नचि जंतणा नचि कहा, न परोप्परमन्डरी न अर्थ ॥ ३७८ । ।”

साराश:-श्रीतीर्थकर परमात्मजाना समवतरणमां प्रथम स्थित  
रहेला अल्पऋद्धिकदेवो महर्दिकदेवो पढीथी आवे तेमने नमस्कार  
करे अथवा महर्दिकदेवो प्रथम आवेल होय अने अल्पऋद्धिकदेवो  
पढीथी आवे तो पण तेमने नमस्कार करी पोताना उचित स्थानमां  
जाय. तथा त्यां रहेलाने अहीं अगादी न जतुं एवो प्रतिबंध नथी  
तथा क्रीकथादि विकथां पण नहीं तथा परस्पर ईर्ष्या नहि तथा  
श्रीदेवाधिदेव परमात्मानो देशना रूप अमृतना पूरथो विरोधानुबं-  
धनो नाश थयेलो होवाथो बलवान् वैरिनो पण कोशने जय नहि.

प्र०-१६२-श्रीअजितनाथस्वामिना पीता श्रीजितशत्रुराजा  
कइ गतिमां गया ?

उ०—श्रीजितशत्रु महाराजा मोक्षमां गया ठे. मतांतरथी बीजं देवलोकं गया ठे. श्रीत्रचननारोद्धारमां कहेल ठे के:-

“ नागेसुं उसभपिया, सेसाणं मत हूति ईसाणे ।

व्याख्या—नागेपु—नाग कुमारेषु भवनपनिद्वितीयनिकायवर्तिषु सुरेषु श्रीऋषभनाथस्य पिता नाभिनामा गत इति शेषः तथा शेषाणामभिनाथ-प्रभृतीनां चंद्रप्रभानानां सप्तानां पिनरो भवन्ति गता ईशाने द्विती देव लोके सैद्धान्तिकास्तु श्रीअजिनस्वामितुर्जितशत्रोमुक्तिगमनमाचक्षते अनुयोग-द्वारादौ तथैव भणनात्, तथा—श्रीहेमसूरिकृते—

‘ राजा बाह्वलि सूर्य-यशाः सोमयशा अपि ।

अन्येऽप्यनेकशः के पि, शिवं के पि दिवं ययुः ॥ १ ॥

जितशत्रुः शिवं प्राप, सुमित्रस्त्रिदिवं गतः ।’

इति योगशास्त्रे त्रिषष्ठिचरित्रेऽपि च ।’

सारांशः—त्रचनरतिनी बीजा निष्कामां रहेल नागकुमारनामा देवाने विषे श्रीऋषजदेवजोना पिता श्री तजिराजा गया तथा जेय श्री-अजितनाथस्वामिधी श्रीचंद्रप्रभु सुधीना मालना पिता ठे ईशाननामा बीजा देवलोकमां गया ठे. सिद्धानवादीउं तो श्रीअजितनाथस्वामिना पिता जितशत्रु महाराजा मोक्षमां गया कहे ठे. श्रीअनुश्रोगद्वारादिं तं तेमज कहुं ठे. श्रीहेमसूरीश्वर महाराजाप “राजा श्रीबाहुवलो, श्रीसूर्य-यशा, श्रीसोमयशा अने बीजा अनेक कोशक मोक्षमां गया अने कोशक देवलोकमां गया. श्रीजितशत्रु महाराजा मोक्षमां गया. श्री सुमित्र महाराजा देवलोकमां गया.” आ प्रमाणे पौताना रचेली श्री-योगशास्त्रमां तथा त्रिषष्ठिशलाकापुरुषचरित्रमां कहेल ठे.

प्र०—१६३-दर्शनावरणोपकर्मना उदयथी चह्नुहोन थयेउ मनु-ष्यने केवलज्ञान थइ शके या नहि ?

उ०—पूर्वकृतकर्मना उदयथी चह्नुरहित थयेउ मनुष्यने केउउ-

ज्ञान यवामां कौञ्ज वाधक नथी.

श्रीसेनप्रश्नना बीजा उद्धासमां श्रीसेनसूरीश्वरजी महाराजाय  
कथुं ठे के:-

“ षष्ठ्विकलस्य केवलज्ञानमुत्पद्यते नवेति । प्रश्नोऽप्रोत्तम्-उत्पद्यते, ”

सारांशः-नेत्ररहित मनुष्यने केवलज्ञान उत्पन्न थाय के नहि ?  
इति प्रश्न अत्र उत्तर-केवलज्ञान उत्पन्न थाय.

प्र०-१६४-नरकना जीवो पूर्वे करेलां पोतानां दुष्कृत्योने अ-  
वधिज्ञानथी जाणे ?

उ०-नानाप्रकारनां पापकर्मों करीने नरकमां गयेला जीवो पर-  
माधार्मिक देवोय स्मरण करावेल दुष्कृत्योने जवप्रत्ययिक जाति-  
स्मरणज्ञानथी जाणे, कारण तेमने अवधिज्ञान तो उत्कृष्टथी पण  
एक योजननुंज होय ठे, एटले तेउं पोतानां दुष्कृत्योने अवधिज्ञानथी  
जाणी शके नहि.

श्रीसेनप्रश्नना श्रीजा उद्धासमां कहेल ठे के:-

“ नारकाः पूर्वकृतदुष्कृतं जातिस्मरणेन जानन्त्यवधिज्ञानेन वेति प्रश्नोऽ-  
प्रोत्तरम्-नारका नानाविधानि पापानि कृत्वा नरके ब्रजन्ति तत्रैतानि तैः  
स्मारितपूर्वदुष्कृतानि भवप्रत्ययजातिस्मरणेन नारकाः स्वयमग्नि जानन्त्यव-  
धिना तु न किंचिद्वगच्छन्ति तस्योत्कृष्टतोऽपि तेषां योजनप्रमाणत्वादिति  
भवभावनासुप्रवृत्तावेतदनुसारेण नारकाः पूर्वभवकृतदुष्कृतं भवप्रत्ययिक-  
जातिस्मरणेन जानन्तीति ॥ ११ ॥ ”

सारांशः-नारकीठं पूर्वजवमां करेल पापोने जातिस्मरण ज्ञाने  
करीने जाणे के अवधिज्ञाने करीने जाणे इति प्रश्न, अत्र उत्तर-ना-  
रकीठं नाना प्रकारनां पापो करीने नरकमां जाय ठे त्यां परमाधार्मिक-  
देवोय स्मरण करावेलां ए दुष्कृत्योने जवप्रत्यय जाति स्मरण ज्ञाने  
करीने नारकीठं आपो आप जाणे ठे. नारकीठंने उत्कृष्टथी पण अ-

वधि ज्ञान योजनप्रमाण होवाची अवधिज्ञाने करीने कंइ पण जाणता नथी. आ प्रमाणे जवजावनासूत्रनी वृत्तिमां कहेल ठे एना अनुसारे नारकीळ पूर्वजवमां करेल पापोने जवप्रत्ययची उत्पन्न थयेल जातिस्मरण ज्ञाने करीने जाणे ठे.

प्र-१६५-पर्वाधिराजश्रीपर्युषणापर्वविना श्रावकश्राविकाने श्रीकल्पसूत्र संजळावी शक्याय ?

उ०-पर्वाधिराज श्रीपर्युषणापर्वविना श्रावकश्राविकाने उद्देशीने वांचवा संजळाववानो निषेध ठे.

श्रीसेनप्रश्नना चोथा उद्धासमां श्रीसेनसूरीश्वरजी महाराजाण कहेल ठे के:-

“ शेषकाले साधवः आद्यश्राद्धीजनेषु शृण्वत्सु श्रीकल्पसूत्रं पठन्ति किं वा एकान्ते एवेति प्रश्नोऽप्रोत्तरम्-साधवः स्वेच्छया कल्पसूत्र पठन्त पाठयन्तश्च सन्ति अत्रान्तरे कश्चित् आद्यादिर्वन्दनार्थं समागतस्तदा शनैः पठनपाठनाक्षराणि न ज्ञातानि सन्ति परं आद्यादिकण्डविद्य पठनं च पर्युषणापर्वं विना न शुष्यतीति ॥ ६९ ॥ ”

सारांशः-पर्युषणा शिवायना कालमां श्रावकश्राविका लोकोना सांजळतां श्रीकल्पसूत्रने साधुळ जणे जणावे के एकांतमांज इति प्रश्न अत्र उत्तर-साधुळ पोतानी इह्याण श्रीकल्पसूत्रने जणता अने जणावता होय आ अवसरमां कोई श्रावकादिक वांदवाने अर्थे श्रावे ते अवसरे धामेची जणावा जणाववाना अक्षरो जाणेल नथी परंतु पर्युषणा पर्व विना श्रावकादिकोने उद्देश करीने जणवुं कल्पे नहि.

प्र०-१६६-ब्रह्मचर्यथी रहित साधुने जे वंदन करे तेने शुं फल थाय?

उ०-ब्रह्मचर्यथी पतित थयेल साधुने जे वंदन करे तेने अनंतजवन्नमणो लाज थाय.

श्रीमहानीशीथसूत्रना बीजा अध्ययनमां फरमावुं ठे कैः-

‘जेणं केई साहू वा साहूणी वा मेहुणमासेवेजा सेगं वंदेजा ? गोयमा ! जेणं साहू वा साहूणी वा मेहुणं सयमेव अप्पणा मेवेज्ज वा गरोहं उवइनेत्तु सेवाविजा वा सेविज्जमाणं समणुजाणिजा वा जे दिक्वं वा माणुसं वा निरिक्खजोणियं वा जाव णं करकम्माई सच्चित्तचित्तवत्तुविमं वा विविह उच्चवसाएण कारिमाकारिमोवगरणेण मणसा वा वयसा वा हाएण वा नेणं समणे वा समणी वा वुरंतपंतलक्खणे अददुब्बे उम्मग्गसामाचारा महापावकम्मेषो णं वंदेजा तिविह तिविहेणं जाव णं विमोहिकाळं ति । ते भयवं ! जे वंदेजा से किं लमेजा ? गोयमा ! जे तं वंदेजा से द्वारमग्गं मीलंगसहस्सघारोणं महाणुमागाणं तित्थगरादीण महती आसायणं कुजा जेगं तित्थगरादीणं आसायणं कुजा सेणं अच्चवसायं पडुष जाव ण अणंतत्संसारिपत्तं लमेजा । ”

सारांशः-जे कोई साधु अथवा साध्वी मैथुन सेवन करे तेने वंदन थाय ? हे गौतम ! जे साधु अथवा साध्वी, देव सत्रंधी अथवा मनुष्य सत्रंधी अथवा तीर्थचसंबंधी मैथुन यावत् हस्तकर्मादि भचित्त अचित्त वस्तु विषय कृत्रिमाकृत्रिम उवगराणं त्रिविध अध्यवसायं करीने मने अथवा वचने अथवा कायाए करीने स्वयं पोते सेवे अथवा उपदेशवेद बीजाने सेवाये अथवा अन्य सेवन करनारने सारा जाणे ते वुरंत प्रांन लक्षण देखवाने अयोग्य उन्मार्गना समाचरनार मत्ता पापकर्मी साधुने अथवा साध्वीने यावत् विशुद्ध न थाय त्यां सुधी त्रिविध त्रिविध करीने वंदन न करवुं, वंदन न करावुं, वंदन करताने पण सारो न जाणवो. हे जगवन् ! तेने जे वंदन करे तेने शुं फल थाय ? हे गौतम ! जे कोई तेने वंदन करे ते अठार सहस्र सीलांगना धारी महानुभाव श्री तीर्थकरादिनी महती आशानना करेठे. जे श्रीतीर्थरुगादिकोनी आशानना करे ते अध्यवसायना निमित्ते अणंत संसारीनयाने प्राप्त थाय ठे:

प्र०-१६९-श्रीजिनेश्वरदेवनी पूजामां केवां अने केटजां वल्लो वापरवां जोइय ?

उ०-जे वल्लो पहेरीने जोजन अथवा लघुनीति के वर्नीनोति न करी होय, फाटेल, दाजेउ के सांवेळ न होय अने धोयेउ तेमज धूपथी धूपित होय एवां शुरु वल्लो प्रजुनी पूजामां पुरुषोने बे अने व्हीउने त्रण वापरवां.

श्रीश्राद्धविधिमां कहेल ठे के:-

“ न कुर्यात् सन्धितं वस्त्रं, देवकर्मणि भूमिप ।

न दग्धं न तु वैच्छिन्नं, परस्य तु न धारयेत् ॥ १३ ॥

कटिस्पृष्टं तु यद्वस्त्रं, पुरीषं येन कारितम् ।

समूत्रं मैथुनं चापि, तद्वस्त्रं परिवर्जयेत् ॥ १४ ॥

एकवल्लो न मुंजोत, न कुर्याद्देवतार्चनम् ।

न कंचुकं विना कार्यां, देवार्चां स्त्रीजनेन तु ॥ १५ ॥

एवं हि पुंसां वस्त्रद्वयं स्त्रीणां च वस्त्रत्रयं विना न कल्पते देवार्चादि ।  
वैतवस्त्रं च दुरूपवृत्त्या अतिविशिष्टं क्षीरोदकादि श्वेतमेव कार्यम् । \* \* \*  
\* \* \* न च दृक्कूलं भोजनादिकरणेषु सर्वदा पवित्रमेवेति लोकोक्तिरत्र प्रमा-  
णयिनव्या, एकं त्वन्यवैतिकवद्दुकूलमपि भोजनमलमूत्राशुचिस्पर्शवर्जनादि-  
ना सत्यापनीयम् । व्यापारानुसारेण पुनःपुनर्धावनपूषनादिना च पावनीयम्  
धौतिकं च स्वल्पमेव व्यापार्यम्. प्रस्वेदश्लेष्मादि च धौतिकेन न स्फेडनीयम्-  
पावित्र्यप्रसक्तेः, व्यापारितवस्त्रेभ्यः पृथग् मोक्ष्यम् । ”

सारांशः-हे राजन् ! देवपूजामां सांघेळुं वल्ल, दाजेउ वल्ल, फाटेउ वल्ल अने वीजातुं पहेरेळ वल्ल अंगीकार न करवुं. जे वल्ल पहेरेळ होय, जे वल्ल पहेरीने वर्नीनोति अथवा लघुनीति करेळ होय, मैथुन सेवेळ होय ते वल्ल श्रीजिनपूजामां वर्जवुं. एक वल्ल पहेरीने जोजन दरवुं नहि तेम देवपूजा करवी नहि. स्त्रीए कांचळी पहेर्या विना देवपूजा करवी नहि. आ प्रमाणे पुरुषोने बे वल्ल अने व्हीउने त्रण वल्ल विना देवपूजा करवाने करुपे नहि. धोयेळ वल्ल पण अतिवि-

शिष्ट क्षीरोदक आदि श्वेतज अंगीकार करतुं × × × × × टुकुञ्ज (रेशमी) वस्त्र पहरेने भोजनादि करीए तो पण ते पवित्रज होय एवी लोकोक्ति ठे ते अत्र प्रमाण नथी किंतु बीजा धोतियानो जेम रेशमी धोतितं पण भोजन, मल, मूत्र आदि अशुचि टाळी शुद्ध राखतुं. पहरेवाना कालने अनुसार बारवार धोवावडे अने धूपवने धोतीठं पवित्र राखतुं. धोतितं धोमोज काल वापरतुं. धोतितं अपवित्र थाय माटे परसेवो, श्लेष्म आदि धोतियाथी दूर न करवो. बीजां वपरातां वस्त्राणी पूजानुं धोतितं जुहुं मूकतुं.

प्र०-१६७-बृहत् टीपणी नामनो ग्रंथ क्यारे वन्यो अने ते ग्रंथना कर्ता कोण तेमज ते ग्रंथ प्रामाणिक ठे ? तथा बृहत्टीपणीना आधारे कोइ श्रीशत्रुंजयमाहात्म्य जेवा प्रामाणिक ग्रंथने अप्रामाणिक कहे ठे ते शुं सत्य ठे ?

उ०-बृहत्टीपणीनी रचना सोलमा सैकाभां अगर पंद्रमा सैकाना ठेवटना समयसां थवानो संजव ठे कारण तेमा सोलमा सैकाना बनेल ग्रंथनी नोंध जोवामां आवती नथी. ते टीपणीना तेना कर्तातुं नाम नथी पटखे तेना कर्ता कोण ठे ? कया मतना ठे ? तेनो निश्चय थइ शके तेम नथी. बाकी ते ग्रंथनी प्रामाणिकतामा तो पूरेदूरो शंका ठे. चौदसो चुंवाळीस ग्रंथरत्नाना रचयिता जगत्रान् श्री हरिनन्दसूरीश्वरजी महाराज जेवा महापुरुषे उठा सैकाभां बनावेल ग्रंथो जेवा के श्रीनंदीसूत्रटीका अने श्रीअनुयोगद्वार सूत्रतो वृत्तिके जे आज्ञे पण विद्यमान ठे तेनो पण ते टीपणीना कर्ताए निवेव करेलो ठे पटखे ते टीपणीना कर्ताने के ते टीपणीने प्रामाणिक मनावज केम ? ज्ञावा अप्रामाणिक ग्रंथना आधारे श्रीशत्रुंजयमाहात्म्य के जेनो प्र-

प्राणिकता माटे पुरातन प्रजापक जगद्गुरु श्रीविजयहीरसूरीश्वरजी महाराज, पूज्यपाद श्रीसेनसूरीश्वरजी महाराज, महोपाध्यायजी श्रीकीर्तिविजयजी महाराज तथा खरतर गहने परम मान्य श्रीस-  
मयसुंदरजी उपाध्याय आदि अनेक पुरुषोनी सम्मति ठे तेने अ-  
प्रमाणिक कहेवानी घुष्टता करनार तो चोस्की अज्ञाननी मूर्तिज  
होवी जोइए.

प्र०-१६ए-अमण जगवान् श्रीमहावीरस्वामिना तीर्थमां कया  
कया पुण्यशाळी आत्माओए तीर्थकरनामकर्मने उपार्जन कर्यु ?

उ०-१ श्रीश्रेणीक महाराजा, २ जगवान् श्रीमहावीरस्वामिजी-  
नाः काका सुपाश्र्व, ३ श्रीश्रेणीकराजाना पौत्र अत्ते राजा कोषीकना  
पुत्र श्रीउदायिराजा के जे महाजागने पौषधमां अचव्य साधुवेष-  
धारी बिनअस्ते मार्या ते, ४ श्री मोहीब अणगार, ५ श्री हदायु,  
६ आवस्ती नगरीना वासी शंखनामना सुआवक्र, ७ हातक्र के जे-  
मनु बीडुं नाम पुष्कली हतुं ते, ८ बन्नीसे पुत्रने उत्तम करनारी  
सुलसा आविका, ९ प्रभु श्रीमहावीरने औषध आपनारी रेवती  
आविका आ नव पुण्यशाळी आत्माओए प्रभुश्रीवीरना शासनमां  
तीर्थकरनामकर्म उपार्जन करेल ठे.

श्रीस्थानांगसुत्रना नवमा स्थानमां कहेल ठे के:-

“समणस्स णं भगवतो महावीरस्स तित्थंदि ब्रह्मिं प्रीवेहिं तित्थ-  
नरंभंगोत्ते कस्से निवृत्तिते- १ सेणित्तेणं, २ सुपासेणं, ३ उदाणिणा,  
४ मोहिलेणं अणगारेणं, ५ दइहाचणा, ६ संखेवेणं, ७ सयणेणं, ८ सुलसाए  
साविभाए, ९ रेवइएणं ।”

प्राद्वार्थः-अमण जगवान् श्रीमहावीरस्वामिजीना तीर्थमां नव  
उत्तम आत्माओए तीर्थकरनाम गोत्रकर्म उपार्जन कर्युठे. १ श्रीश्रेणीक-



महाराजा, २ श्रीसुपार्श्वमहाराजा, ३ श्रीउदायीमहाराजा, ४. श्री पोद्दिल अनगार, ५. श्रीदुडाउ, ६ श्रीशंख भावक, ७ श्रीशतक-भावक, ८ श्रीमुलसा भाविका, ९ श्रीरेवती भाविका.

प्र०-१७०-पोरिसि, साढपोरिसि, आदि प्रत्याख्यानमां तिवि-हार करे तेणे प्रत्याख्यान बे वखत पाळवुं के एकज वखत अने रात्रिना तिविहार करे तेने प्रत्याख्यान पाळवानी जरूर खरी के नहि ?

उ०-पोरिसि, साढपोरिसि तिविहार करे तेणे प्रत्याख्यान बे वार पाळवुं अने रात्रिण करेख तिविहारने पाळवानी जरूर नथी.

मसधारगच्छना नाथक श्रीचंद्रसूरिजीकृत लघुप्रवचनसारोद्धारमां कथुं ठे के:-

“ निसिपञ्चकलाणं पुण, न पारणिज्जं मुणीणं सद्व्याणं ।

तिविहाय पोरिसिय, पारिखा तत्थ दुगवेळं ॥ १३ ॥ ”

जावार्थ:-भावके रात्रि संबंधी दुविहार अथवा त्रिविहार प्रत्याख्यान करेख होय ते पारवुं नहि. साधुओय तथा भावकोय पोरिषी साढपोरिषी आदि तिविहार प्रत्याख्यान करेख होय तो ते प्रत्याख्यान बे वार पारवुं जोइय.

प्र०-१७१-जगतमां अंधकार केटखां कारणोषी थाय ?

उ०-१ श्रीजिनेश्वरजगवान्ना निर्वाणथी, २ श्रीजिनेश्वरजगवान्ना ज्ञाननो विहेद अवाथी, ३ पूर्वना ज्ञाननो विहेद अवाथी अने ४ बादर अग्निना विहेद अवाथी, आ चार कारणे जगतमां अंधकार थाय.

श्रीस्थानांगसूत्रना चौथा स्थानना प्रीजा उद्देशामां स्पष्टपणे उल्लेख ठे के:-

“ चउर्हि ठापेर्हि लोर्गवपारे सिया, तंजहा-१ अरईतेर्हि बोच्छिज्जमाणेर्हि, २ अरईतपत्तसे धम्मे बोच्छिज्जमाणे; ३ पुवगते बोच्छिज्जमाणे, ४ जायतेए बोच्छिज्जमाणे”

सारांशः—चार स्थानोर्मां जगत्मां अंधकार थाय ठे: ते अनुक्रमे कहे ठे. १ श्रीअर्हत् परमात्मानो विच्छेद थाय २ श्रीअर्हत् परमात्माए प्ररुपेख धर्मनो विहेद-एटखे अर्हत्परमात्माना शासननो विहेद थाय, ३ श्रीअर्हत्परमात्माना पूर्वना ज्ञाननो विहेद थाय, ४ बादराशिकायनो विहेद थाय. आ चार कारणोधी. संपूर्ण जगत्मां अंधकार उत्पन्न थाय ठे.

प्र०—१४२-श्रीसौधर्मआदि इंद्रोना लोकपालोनां नामो एकजं ठे?

उ०—पहेला सौधर्मेन्द्र, २ त्रीजा सनत्कुमारेंद्र, ३ पांचमा ब्रह्मैन्द्र, ४ सातमा शुकेन्द्र अने ५ नवमा प्राणतेंद्र; आ पांच इंद्रोना लोकपालनां नामो पूर्वदिशाना अनुक्रमधी १ सोम; २ यम, ३ वरुण अने ४ वेसमण. आ प्रमाणे जाणवां अने—बीजा ईशानेंद्र, २ चोथा माहेंद्र, ३ ठठा लांतकेंद्र, ४ आठमा सहस्रारेंद्र अने ५ दशमा अच्युतेंद्र, आ पांच इंद्रोना लोकपालनां नामो पूर्वदिशाना क्रमधी १ सोम, २ यम, ३ वेसमण अने ४ वरुण. आ प्रमाणे जाणवां. फरक एटखोज ठे के प्रथमना पांचनो जे नामनो चोथो लोकपाल ठे ते नामनो पठीना पांचनो त्रीजो अने पठीना पांचनो त्रीजो जे नामनो ठे ते नामनो प्रथमना पांचनो चोथो लोकपाल ठे.

श्रीस्थानांगसूत्रना चोथा स्थानना पहेला उद्देशार्मा कहेख ठे के-

“ सप्तस्स १ सोमे २ जमे ३ वरुणे ४ वेसमणे, ईसाणस्स १ सोमे २ जमे ३ वेसमणे ४ वरुणे, एगंतरिता जावञ्जुतस्स ”

भावार्थः—सौधर्मइंद्रना चार लोकपाल १ सोम, २ यम, ३ वरुण, अने

४ वेसमण. ईशान इन्द्रना १ सोम, २ यम, ३ वेसमण अने ४ वंरुण, ५ प्रमाथे पकंतरित जाव अच्युत सुधी अर्थात् ३ सनत्कुमारेंद्र, ५ ब्रह्मैन्द्र, ७ शुक्रेंद्र १० प्राणतेंद्र आ चार इन्द्रोना लोकपालोना नामो सौधर्मइन्द्रना लोकपालनी जेम समर्जवा. माहेंद्र, ६ ज्ञांतकेंद्र ७ सईखारेंद्र अने १३ अच्युतेंद्र आ चार इन्द्रोना लोकपालना नामो ईशानेंद्रना लोकपालनी जेम समर्जवा.

प्र०-१४३-कुत्रिकापण पांचमा आरामां कया सुधी विद्यमान हती?

उ०-जगवान् श्रीमहावीरस्वामिजी पढी पांचतो चुंवाळीस ( ५४४ ) वर्षे अंतरंजिकानामनी नगरीमां बळ नामना राजानो सजामां श्रीगुप्त नामना आचार्यमहाराजना रोहगुप्त नामना शिष्ये पोहशाख नामना परिव्राजकनी साथेना वादमां त्रिराशिकमततुं स्थापन कर्तुं ते उत्सृज-आगमविरुद्ध ठे माटे ते बंदख मिथ्यादुष्कृत दे एम कहेता मवमां चढेख रोहगुप्तने, जे गुरुनी पासेथी विद्यापाम्यो हतो तेज गुरुथी विरुद्ध बइ तेमनीज समक्ष आगमविरुद्ध त्रिराशिकमततुं समर्थन करवाथी गुरुमहाराजे राजा आदि परिषदनी समक्ष कुत्रिकापणथी वस्तुयाचनाना रूपमा एकतो चुंवाळीस अश्रोद्धारा निरुत्तर कयो बतां पोतानो कदाग्रह न ठोरवाथी संघबहार कयो.

श्रीविशेषआवश्यकसूत्रमां कहेख ठे के:-

“ पांचसवा चोयाळा, तहया सिद्धि गयस्स वीरस्स ।

गुरिमंतरंजियाप, तेरासियविद्धी उववत्ता ॥ २४२१ ॥ ”

साराशः-श्रीवीरपरमात्माना मोक्ष गंया पढी पांचतो अने चुंवाळीस वर्षे अंतरंजिका नामा नगरीमां श्रीगुप्ताचार्य महाराज पासेथी मयुरीआदि सात विद्या प्राप्त थयेख कौशिक गौत्रीय रोहगुप्तनामा साधु पोहशाख नामा परिव्राजकनी साथे वादमां जीव अजीव नोजीव नामा

त्रिराशिक भैत स्थापन करी परिव्राजकनो पराजय करी श्रीगुरुम-  
हाराज पसे गयो. गुरुमहाराज श्रीगुप्तसूरीश्वरजीपकडुं के वादीनो  
पराजय करी तें ठीक करुं, पण त्रिराशिनी स्थापना करी ते उत्सूत्रनुं  
मिथ्यादुष्कृत दे, पण मिथ्यादुष्कृत न देवाधी तेनी साथे ठ मास  
सुधी वाद थयो एकनो पण जय पराजय न थवाधी राजाप कडुं के  
आवा वादधी अमारा राज्यकार्यने नुफशान धाय ठे माटे हवे वाद  
समाप्त करो. हुं सांचळवाने समर्थ नथी. त्वारे गुरुप जवाव आप्यो के  
आवती काळेज वादने समाप्त करीशुं. पढी बीजे दिवसे शुं करुं ते  
ज्ञाप्यकार महाराजा स्वयं कहे ठे.

“ बीयविणे बेह गुरु, नरिप ! जं मेवणी सन्मर्थ ।

तं कुत्तियावणे सब-मत्थि सबपतीयमिर्थ ॥ २४८६ ॥

तं कुत्तियावणामुरो, नोजीव देति अइ तं सो नत्थि

अह भणइ नत्थि तो नत्थि, कि व हेउप्यबवेण ॥ २४८७ ॥ ”

जावार्थः—बीजे दिवसे श्रीगुप्तसूरीश्वरजी महाराजाप बलश्री  
नामा राजाने कडुं के हे राजन् ! आ पृथ्वीमां जे कइ सद्व्रत विद्य-  
मान वस्तु ठे ते सर्वे कुत्रिकापणमां होय ठे एम सर्व जनोने तथा  
समोने पण प्रतीत ठे. आ कुत्रिकापणने विषे कोई वाणियाने  
मंत्रादिना श्वराधनथी. सिद्ध थयेज व्यंतर देवता होय ते खरीद  
करनार जनोने समीहित सर्व वस्तु जगत्मां ज्यां होय त्यांची जावोने  
आपे ठे. ते कुत्रिकापणनो देव जो जीव अने अजीवथी जुदी वस्तु  
नोजीव आपे तो श्ववश्य नोजीव पदार्थ ठे एम सिद्ध ठे. अने जो कहे  
के नथी तो नोजीव पदार्थ श्ववश्य जगत्मां नथी पढी क्लेशकारी  
हेतुनां प्रबंध करीने शुं ? आ प्रमाणे कही श्रीगुरु महाराजे राजानो  
समस्त कुत्रिकापणे जइ एकसो जुवालीस प्रश्नोमां रोहगुप्तने निरुत्तर.

करी ठ मासे जय मेखवी तेने संघबाद्य कर्यो. तेणे १ द्रव्य, २ गुण  
३ कर्म, ४ सामान्य, ५ विशेष अने ६ समवायनी प्ररुपणा करी वैशेषिक  
मत ब्रह्माव्यो. आ पाठची सिद्ध थाय ठे के भ्रमणजगवान् श्रीमहा-  
वीरस्वामिजी पढी पांचसो चुंवालीस (५४४) वर्षमां तो कुत्रिकापण  
विद्यमान ह्ती. त्यार पढीनो कोइ उल्लेख जोवामां आय्यो नची.

प्र०-१९४-जीव गर्जावासमां उच्छृष्टो-वधारेमां वधारे केटखो  
काळ रहे ?

उ०-कोइक जीव सिद्धराज जयसिंहनी माफक माताना गर्जा-  
वासमां उच्छृष्टी वार वर्ष सुधी रहे. कोइक महापापी, माताना वैरी  
जीव वधारेमां वधारे माताना गर्जमा वार वर्ष सुधी रही मरीनें  
पाठो फरीची त्यांनां त्यां उत्पन्न थाय तो चौवीस वर्ष सुधी पण रहे.

श्रीप्रवचनसारोद्धारना १४१-४२ मा द्वारमां कहेख ठे के:-

“ गङ्गादिर्हं मणुसीपुच्छिह्न होइ बरिस बारसजं ।

गङ्गास य कायठिई, नराण चववीस बरिसाई ॥ ११ ॥ ”

जावार्थ:-मनुष्य झीठने उच्छृष्टा गर्जनी स्थिति वार वर्षनी  
होय ठे अर्थात् कोइक जीव घणा पाप कर्मना उदयथी वातपित्तादि  
दूषणोप करीने अथवा देवादिना स्तंजनथी निरंतर वार वर्ष सुधी-  
गर्जावासमां रहे ठे. मनुष्यने गर्जनी उच्छृष्टी कायस्थिति चववीस  
वर्षनी अर्थात् कोइक जीव वार वर्ष गर्जावासमां रही अंते मरी तेवाज  
प्रकारना कर्मना वशीर्षी गर्जमा रहेख तेज क्लेवरमां उत्पन्न थइ फेर  
वार वर्ष जीवे एम बे वखत थईने चौवीस वर्ष जाणवां.

प्र०-१९५-रत्नकम्बलनो स्वजाव केवो होय ?

उ०-रत्नकम्बलनो स्वजाव ग्रीष्मकालमां शीत आपवानो अने  
शीतकालमां उष्णता आपवानो ठे. श्रीसूत्रकृतांगसूत्रना तेरमा अ-  
प्ययननी टीकामां स्पष्ट उल्लेख ठे के:-

“बन्हे करेइ सीयं, सीए बन्हेत्तणं पुण भवेई ।

कंबल रयणादीणं, एस सहाबो मुण्येवो ॥ १ ॥”

जावार्थः—रत्नकंबल उंदनार पुरुषने एष्मकाखने विषे शीतखता करे अने शीतकाखमां उष्णताने आपे. रत्नकंबलनो ए प्रमाणेनो स्वभाव जाणवो.

प्र०—१७६—चोथा आरामां पुस्तको हतां ?

उ०—मथुरानगरीमां श्रीजिनदास श्रावक अष्टमी चतुर्दशीना दिवसे पौषधोपवास करे ठे, धर्मनां पुस्तको वांचे ठे, ते सांजळीने तेमने त्यां रहेला वे वृषजो धार्मिक थया, अंतमां काखधर्म पामी नागकुमारमां कम्बल, सम्बल नामना देवो थई, जगवान् श्रीमहावीर-स्वामित्रीनां जीवे त्रिपृष्ठवासुदेवना जवमां मारेख सिंहनो जीव गत्यं-तरमां फरी सिंहहृष्ट नामनो देव थयो तेणे जगवान् श्रीमहावीरस्वामी गंगानदी उत्तरवा माटे जे नावामां बिराजमान हता ते नावाने कुषाकवानो जे उपसर्ग करेख ते दूर कर्यो. आथी सिद्ध थाय ठे के चोथा आरामां थयेछा श्रीमान् जिनदास नामना श्रावक पुस्तको वांचता हता. एटखे चोथा आरामां पण श्रावको धर्मनां पुस्तको ख-खता खखायता हता. त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्रना दशमा पर्वना श्रीआ सर्गमां खंखेख ठे के—

“श्रेष्ठचष्टम्यां चतुर्दश्या-मुपवास्यात्तपौषवः ।

अवाचयन्मैशाक-पुस्तकं शृण्वतोस्तयोः ॥ १२० ॥”

जावार्थः—श्रीजिनदास नामा शेठीठं आठम खडदशना दिवसे उपवासथी पौषध करी धर्मशास्त्रनां पुस्तकने—ते बसो कंबल अने सं-बल नामक देवताना जीवो बळदो सांजळे तेम—वांचतो हतो. आज प्रमाणे श्रीआवश्यक सूत्रमां पण उल्लेख ठे.

प्र०-१७७-आत्मकल्याणं ह्यनारमुनिवरोने प्रकाकी विचरवानी  
आज्ञा शास्त्रमां वे या नहि ?

उ०-दश पूर्वधरथादि गीतार्थं गुरुदेवोनी आज्ञायो गहं निर्गत  
महात्मां-जिनकल्पना धारक, परिहारविशुद्धक नामना श्रीजा चां-  
रिप्रना उपासक अने प्रतिमाप्रतिपन्न यथासांदिक् आंदि महापुरुषो  
के जेठं जघन्यथी पण नवमा पूर्वनी श्रीजी आचार नामनी वस्तु सुधी-  
ना ज्ञाता एवा गीतार्थं महापुरुषोने प्रकाकी विहार करवानी आज्ञा  
हे अने गहगत साधुलंमां आचार्य अने उपाध्यायने जौनीने श्रीजा  
साधुलं चाहे तो सामान्य होय अथवा प्रवर्तक, स्थविर आदि पद-  
वीना धरनार होय तेठं पण श्रीआचार्य अने उपाध्यायजीनी नि-  
आयज विचरे. वर्तमान समयमां पूर्वनी विह्वेद होवाथी जिनकल्प  
आदिनी विह्वेद हे, ह्वे कल्याणना अर्थि मुनिवरोने प्रकाकी विज-  
रवानी आज्ञा होयज कयाथी ? अर्थात् प्रकाकी विचरवानी आज्ञा  
शास्त्रमां ती जथी.

श्रीविहारकल्प आष्यनी प्रीतिकामां उल्लेख वे के-

“ गीतार्थो य विहारो, श्रीजो गीयत्यनिसिभो मुणिको ।

इत्तो तर्ह्यविहारो, नाशुभाधो जिणवरेभि ॥ १-॥ ”

सारांश-साधु-महर्षिना-विहारज्ञाने-प्रकार-हे-गीतार्थने स्वतंत्र  
विश्वरुं ते प्रथम विहार, गीतार्थनी निश्चाय-विहार करवो ते बीजो  
गीतार्थनिस्तृत विहार-आं वे विहार शिष्याय-श्रीजो-विहार-श्रीजि-  
नेश्वर परमात्माए कहेस नथी. गीतार्थ कोने कोने कहीयंते, कहेले.

“ जिनकल्पिभो गीयत्यो, परिहारविशुद्धिभो धि गीयत्यो ।

गीयत्ये इद्विदुगं, सेसा गीयत्यनीसाय ॥ १ ॥ ”

सारांशः—जिनकद्विपक नियमे गीतार्थ परिहारविद्युद्धि प्रतिमा-  
धारी अने यथालंदकद्विपक जघन्यशी पण नवम पूर्व अंतरगत  
आचार नाम तृतीय वस्तुना जाण होवार्थी अचश्य गीतार्थ जाणवा.  
गह्रुमां श्रीआचार्य तथा श्रीउपाध्यायजी बे गीतार्थ जाणवा. आ सर्वनो  
स्वतंत्र विहार होय बाकी सर्व साधुजनों, आचार्य तथा उपाध्यायनी  
निश्चाय विहार होय पण स्वतंत्र न होय. आ वातने स्पष्ट करे ते के:-

“ आयरियगणी इहो, सेसा गीतावि होंति तमीडा । ”

सारांशः—ज्ञानादि ऋद्धिवाळा श्रीआचार्य महाराज तथा श्री  
उपाध्यायजी महाराज शिवायना शेष गीतार्थ साधुजं पण तेमनी  
निश्चाय एटले तेमनी आज्ञायीज विचरे पण स्वतंत्र कदापेन विरु-

शेष कया साधु तेने माटे स्पष्टपणे कहे. ठे के:-

“ गच्छगयनिगया वा, ठाणनिडताऽनिवसा वा ॥ ध्यात्वा-गच्छ-  
गता-गच्छमव्यवर्त्तिनः गच्छनिर्गता असिवे ओमोभारिप इत्यादिभिः कृत-  
णैरेकाकीभूता अथवा स्थाननियुक्ता वा स्थानपदं नियुक्ताः च्यापारिताः  
स्थाननियुक्ताः प्रवर्त्तकस्थविरगणावच्छेदकाः तद्विपरिताः स्वानानियुक्ताः  
सामान्यसाधव इत्यर्थः एते सर्वेप्याचार्योपाध्यायनि तथा विहरन्ति. ”

सारांशः—गह्रुमां रहेला तथा गह्रुयो बहार निःश्रेया एटजे  
रोगदुर्जिह्व आदि कारणोथी पकाकी थयेला अथवा श्रीवर्त्तक,  
स्थविर अने गणावहेदक आदि पदने प्राप्त थयेला अर्थात् प्रवर्त्तक  
आदि पदवी धारक होय के पदवीरहित सामान्य साधुजं होय ते  
सर्व साधुजं श्रीआचार्य अने श्रीउपाध्यायजीनी आज्ञापज  
विचरुं पण स्वतंत्रपणे विचरवानी श्रीजिनेश्वर देवनी आज्ञा नथो.  
ज्यारे प्रवर्त्तक आदि पदवीधरोने स्वतंत्र विचरवानी आज्ञा नथो  
तो बीजा सामान्य साधुने वास्ते तो कहेतुंज शुं ?



प्र०-१९७-वैरीदेवोमां अथवा विद्याधरोमां कोने कोने संहरण करवानुं सामर्थ्य न होय ?

उ०-निष्कपटपणे सुविशुद्ध ब्रह्मचर्यनुं पाळन करनारी साध्वी, अपगतवेदी, परिहारविशुद्धिचारित्रना धारक महर्षि, पुलाकल-बिधिना धारक महात्मा, अप्रमत्त मुनि, चौद पूर्वधर-श्रुतकेवली अने आहारकलबिधिना धारक महर्षि आदि उत्तम आत्मार्जुनुं तेमनी तपश्चर्या विगेरेना प्रजावंधी संहरण करवाने वैरीदेवो अगर विद्याधरो शक्तिमान नथी थइ शकता.

श्रीप्रवचनेसारीकारना २६१ सा द्वारमां कथुं ठेके-

“ समर्णीमवगयवेधं, परिहारपुलायमर्ष्यमत्तं च ।

चोदसगुवी आहारगं च नय, कोह संहरई ॥ ५० ॥ ”

सारांश-शुद्ध ब्रह्मचर्यने पाळण करनारी साध्वीने, वेदहाय करेल महर्षिने, ३ परिहारविशुद्धि चारित्रिने, ४ पुलाकलबिधिवंतने, ५ चउदपूर्वधर महाराजने ५, अने ६ आहारक शरीरनी लबिधिना धारक महर्षिने कोई देव अथवा विद्याधर संहरण करी शके नहि.

प्र०-१९८-श्रीचेनामहाराज सार्थनी लनाइमां कूणिकनीं सहायसां श्रीसौधमेन्द्र अने चमरेन्द्र आव्या ते कूणिके करेल अठमतपनाज प्रजावंधी अथवा कोइ पूर्वजवना संबंधथी ?

उ०-श्रीसौधमेन्द्र ज्यारे कार्तिकशेठना जवमां हता त्यारे ते सना गह्वस्थावासमां तेमनीं साथे कूणिकने मित्राचारी हती अने श्रीचमरेन्द्र पण ज्यारे तापसना जवमां हता त्यारे तेमनी साथे पण कूणिकने तापसीपयो मित्राचारी हती, आ प्रमाथे बने इंडो कूणिकनां पूर्वजवना मित्रो होवाथी कूणिके अठमतपनी आराधना करवाथी तेळ सहायभा आव्या.

श्रीजगदतीसूत्रना सातमा शतकनानवमा उद्देशामां कहैख डे के:-

“ ‘ पुवसंगईप ’ ति कार्तिकश्रेष्ठयवस्थायी शक्रस्य कृणिकजीवो मि-  
श्रमभवत् ‘ परिवायसंगईप ’ ति पूरणतापसावस्थायी चमररयासौ ताप-  
सपर्यायवर्त्ती मित्रमासीदिति । ”

जावार्थः—कार्तिक शेठीयाना जवमां शक इन्द्रो कृणिक मित्र  
हतो. पूरणनामा तापसीना जवमां चमर इन्द्रो तापसीपणं कृणिक  
मित्र हतो.

प्र०—१८०—तामखि तापसे क्या जवमां सम्यक्त्व प्राप्त कर्यु ?

उ०—मिथ्यादृष्टि तामखि नामना तापसे तापसव्रतनुं पालन करी  
अंतमां अनशन कर्यु त्यां ईरियासमितिने शोधता श्री जेत साधुउने  
देखी: तेमनुं चितवन करता सम्यक्त्व उपाजन कर्यु.

श्रीजिनेश्वरसूरीश्वरकृतकथाकांभ्रमां स्पष्ट उल्लेख डे के:-

“ तामखिनाऽन्यसमये अनशनस्थितेन श्वेतपटसावधः पदे पदे ईयापयं  
शोधयन्तो बहिर्भूमि गच्छन्ता दृष्टाः, तान् दृष्ट्वा चिन्तितमतेन अहो ! शो-  
भनः श्वेतपटानां धर्सी यत्र चैयापये एवं जीवरक्षाः क्रियन्ते ”

सारांशः—अत्य अवस्थामां अनशनमां रहेख तामखि तापसे  
पग पगमां श्यासमितिने शोधता श्वेतांबर साधुउं बहार जता देख्या  
तेमने देखीने तामखि तापसे चितवन कर्यु के अहो श्वेतांबर साधु-  
उंजो धर्मी श्रेष्ठ डे के जेता धर्मां गमजागमनमां आ प्रमाणे जीवोनी  
रक्षा कराय डे.

प्र०—१०१—श्रीचेकामहाराज अने कृणिकना संग्राममां केटखा  
मनुष्योनो संहार थयो ?

उ०—श्रीचेकामहाराज अने कृणिकना संग्राममां एक करोड  
अने पंती लाख मनुष्योनो संहार थयो डे. श्रीजगदतीसूत्रना सा-  
तमा शतकना नवमा उद्देशामां कहैख डे के:-

“ महासिलिकाकंठरणं भंते ! संगामे बट्टमाणे कति जणसयसाहस्तीओ-  
बहियाओ ? गोयसा । चउरासीइं जगसयसाहस्तीओ बहियाओ. ”

“ रइयुसलेणं संगामे बट्टमाणे कति जणसयसाहस्तीओ बहियाओ ?  
गोयसा । छन्नवतिं जणसयसाहस्तीओ बहियाओ ”

सारांशः—श्रीगौतमस्वामिण जगवान्ने पूछथुं के हे जगवन् !  
महाशिला कंठकनामा संग्राममां वर्त्तता केटला लाख मनुष्यनो कय  
थयो ? हे गौतम ! चउरासी लाख मनुष्यनो कय थयो.

रथमुशख संग्राम चालतां केटला लाख मनुष्यनो कय थयो ?  
हे गौतम इन्द्रलाख मनुष्यनो कय थयो.

महाशिला संग्राममां चोरासी लाख अने रथमुशख संग्राममां  
उत्पन्न थये युद्धना मखी एककोरु अने पंसी लाख मनुष्यनो  
परीयेना महाराज अने श्रीकृष्णिकनी जनाश्मां कय थयो.

प्र०—१७२—तंडुलमहनुं आयुष्य केटलुं अने ते मरीने कइ  
गतिमां जाय ?

उ०—नरकमांथी नीकळी गर्जज तिर्यचनां अंतर्मुहूर्तना आयु-  
ष्यदालां तंडुलमहपणे उत्पन्न थइ महारौद्रध्यानयुक्त होवाथी नर-  
कगतिनुं आयुष्य उपार्जन करीने त्यांथी मरीने नरकगतिमां जाय.

श्रीजीवाजिगमसूत्रनी वृत्तिमां स्पष्टेपणे उल्लेख ठे केः—

“ नरकाद्भूत्य तिर्यग्मवे गर्भच्युक्तांतिकर्तवुल्लभत्स्यत्वेन उत्पद्य महारौ-  
द्रध्यानोपगतोऽन्तर्हृत्त जीवित्वा मृतोऽपि नरकेषु जायते ॥

सारांशः—नारकीथी नीकळी तिर्यचना जवमां गर्जज तंडुल-  
महपणे उत्पन्न थइ महारौद्रध्यानमां वर्त्ततो अंतर्मुहूर्त जीवोने मरी  
फरीथी पण नरकमां जाय ठे.

तथा श्रीधर्मबिंदुनी टीकामां श्रीमुनिचंद्रसूरीश्वर महाराजे पण  
कहेल ठे केः—

“ तंदुलमत्स्यस्तु षाष्टोपमर्दाभावेऽपि निर्निमित्तमेवापूरितातितीव्रौ-  
द्रश्यानोऽन्तर्मुहूर्त्तमायुरनुपाल्य सप्तमनरकपृथव्यां अर्थस्त्रिंशत्सागरोपमा-  
युर्नारक उत्पद्यते ”

सारांशः—तंदुलीयो मच्छ ब्राह्म जीवघातना विना निमित्त रहि-  
तज पूर्ण अतितीव्रौद्रश्यानी अंतर्मुहूर्त्त आयुष्य जोगत्री तेत्रीस साग-  
रोपमना आयुष्य वाळो सातमी नरकमां नारकीपणे उत्पन्न थाय ठे.

प्र०—१७३ वर्त्तमान कालमां श्रावकनी प्रतिमा वह्नरूप धर्म  
विहेद ठे के प्रतिमा वह्न थई शके ?

उ०—श्रावकनी पतिमा वह्नरूप धर्मने कोईक मतवाळा वि-  
हेद कहे ठे ते कथन शास्त्रविरुद्ध ठे.

जगवान् श्रीहरिजज्ञसूरीश्वरजीकृतश्रावक विधि पंचाशकमां  
कहेल ठे केः—

“ जुत्तो शुण एस कम्मो, ओहेणं संपथं वित्सेसेण ।

जग्हा असुहो कालो, दुरणुचरा संजमो इत्य ॥ ४९ ॥ ”

सारांशः—श्रावक प्रतिमा वह्न विना जो के दीक्षा थाय ठे. पण  
प्रथम कहेल प्रतिमावहननो क्रम दीक्षा खेवामां सामान्यपणे युक्त ठे.  
प्रतिमा वह्न कर्याविना पण बहु महात्माठंय दीक्षा अंगीकार करेली  
होवाथी सर्वथा एज क्रम नहि समजवो. सांप्रतकालमां अशुभकाल  
अने संयमनुं पालन दुष्कर होवाथी दीक्षाना उमेदवारे श्रावक प्रति-  
मानो अन्यास करवो योग्य ठे.

प्र०—१७४—श्रीआचारांगादि अंगोना उपांगो कयां कयां ? अने  
तेनुं वर्णन श्रीजंबूद्वीप प्रज्ञतिनी टीका शिवाय अन्य कोई प्राचीन  
ग्रंथमां ठे ?

उ०—१ श्रीआचारांगसूत्रनुं उपांग श्रीश्रौपपातिक, २ श्रीसूत्रकृ-  
तांगनुं श्रीराजप्रथीय उपांग, ३ श्रीस्थानांगसूत्रनुं श्रीजीवाजिगम, ४

श्रीसमवायांगनुं श्रीप्रज्ञापना, ५ श्रीविवाहप्रज्ञप्ति ( श्रीजगवती )  
सूत्रनुं उपांग श्रीसूर्यप्रज्ञप्ति, ६ श्रीज्ञातासूत्रनुं श्रीजंबूद्वीपप्रज्ञप्ति,  
७ श्रीउपासकदशांगनुं श्रीचंद्रप्रज्ञप्ति, ८ श्रीश्रंतकृतदशांगनुं श्री-  
कल्पिका, ९ श्रीश्रनुत्तरोपपातिकदशांगनुं श्रीकल्पावतंसिका, १० श्री  
प्रश्रव्याकरणनुं श्रीपुष्पिता, ११ श्रीविपाकसूत्रनुं उपांग श्रीपुष्पचू-  
लिका, १२ श्रीदृष्टिवादनुं उपांग श्रीबन्दिदशा ठे. आ संबंधी पाठो  
घणा ग्रंथमांठे तेमांथी थोमाकज पाठो वाचकोत्ती जाण माटे लखेल ठे.  
श्रीजिनप्रचसूरिकृत विधिप्रपामां लखेल ठे क्रे:-

“ धोराजी पन्नवणा, सूर्यचंनिरककपुषुबन्दिदशा ।  
आचाराइ उर्वंगा, नेयवा धाणुपुवीए ॥ ”

जावार्थः—१ श्रीश्रौपपातिक, २ श्रीराजप्रश्रीय, ३ जीवाग्निगम, ४  
श्रीप्रज्ञापना, ५ श्रीसूर्यप्रज्ञप्ति, ६ श्रीजंबूद्वीपप्रज्ञप्ति, ७ श्रीचंद्रप्रज्ञप्ति,  
श्रीनिर्यावल्लिश्रुतस्कंधना प्रांन वगों, ८ श्रीकल्पिका, ९ श्रीकल्पावतं-  
सिका, १० श्रीपुष्पिता, ११ श्रीपुष्पचूलिका, १२ श्रीबन्दिदशा आ बार  
श्रीआचारांगश्चादि अंगसूत्रोता अनुक्रमे करीने उपांगो जाणवां.

श्रीसुवोधा सामाचारीमां लखेल ठे क्रे:-

“ इयार्णि उर्वंगा आयारे श्रौववाइयं उर्वंगं १, सूर्याने रायपसेणियं २,  
ठाणे जीवामिगमो ३, समवाए पन्नवणा ४, भगवईए सूरप्रज्ञप्ती ५ नायार्ण  
जंबुद्वीवपन्नत्ती ६, उवासगदसांगं चंदपन्नत्ती ७, तिहिं तिहिं आर्यभिलेहिं  
पफेः उर्वंगं वचई, नवरं तओ पन्नत्तीओ कालियाओ संवई च कीरई सेसांगं  
पंचहमगांगं मयंतरेण निरयावलियासुयकखंधो उर्वंगं तत्य पंच वग्गा निर-  
यावलियाओ १, कप्पवडिसयाओ २, पुप्फिआओ ३, पुप्फचूलिआओ ४,  
बन्दिदसाओ ५ । ”

जावार्थः—इत्थे उपांगो कहे ठे. श्रीआचारांगनुं श्रीश्रौपपातिक  
उपांग १, श्रीसूत्रकृतांगनुं श्रीराजप्रश्रीय उपांग २, श्रीस्थानांगनुं श्री

जीवाभिगम ३, श्रीसमवायांगुं श्रीप्रज्ञापना ४, श्रीजगवतीजीनुं श्रीसूर्यप्रज्ञति ५, श्रीज्ञाताजीनुं श्रीजंबूद्वीपप्रज्ञति ६, श्रीउपासकदशांगुं श्रीचंद्रप्रज्ञति ७, आ सात उपांगोना योगो त्रण त्रण आचिखवडे करवा विशेष १-श्रीसूर्यप्रज्ञति, श्रीजंबूद्वीपप्रज्ञति अने ३ श्रीचंद्रप्रज्ञति आ त्रण उपांगो काक्षिक ठे तेथी तेनां काळग्रहण खेवीं अने तेना योगमां संघटा करवा बाकीना पांच अंगसूत्रांना मत्तांतरची श्रीनिर्यावलिकाश्रुतस्कंध उपांग ठे तेना प्रांच वर्ग ठे श्रीनिर्यावलिका, २ श्रीकल्पवतंसिका, ३ श्रीपुष्पिता, ४ श्रीपुष्पचूलिका अने बह्निदशा.

प्राचिनाचार्यकृतश्रीआयारमयसामाचारीमां लखेल ठे के:-

“ आयारे ओववाहयं १ सूर्यगढे रायपसेणियं २ ठाणे जीवाभिगमो ३ समवाय पत्रवणा ४ एए उक्तालिया अगवहंए सूरपत्रती ५ नायावमकहाणं जंबूद्वीपपत्रती ६ उवासंगदसांगं चंद्रपत्रती ७ एए कालिया सन्ववि अउदेसंसमुद्देसधणुनत्थं आर्यचिलत्तिणेण वचवन्ति । अनेसि पुण पत्रवणवज्ज तज्जोगमज्जे आर्यचिलत्तिणपूरणेण तिक्खिषि ववन्ति । अंतगडत्ताहयाणं पंचन्द्मगाणं निरयावलिमुपकल्वं खवगं तंमि पंचवग्गा, १ कप्पिआओ, २ २ कप्पवडिसंयाओ, ३ पुष्किआओ, ४ पुष्कचूलियाओ एएसु दस दस अज्जयणा बह्निदसासुं वारस एधं दिणं ५ सुअंकल्वे दिणं २ सवेवि दिणं ७ ।”

सारांश:- १ श्रीआचारांगसूत्रनुं उपांग श्रीऔपपातिक, २ श्रीसूत्रकृतांगुं श्रीराजपत्रीय, ३ श्रीस्थानांगुं श्रीजीवाभिगम, ४ श्रीसमवायांगुं श्रीप्रज्ञापना, आ चार उपांग उत्काक्षिक ठे. ५ श्रीजगवतीजीनुं श्रीसूर्यप्रज्ञति, ६ श्रीज्ञातासूत्रनुं श्रीजंबूद्वीपप्रज्ञति, श्रीउपासकदशांगुं श्रीचंद्रप्रज्ञति, आ पांचमुं, उतुं अने सातमुं त्रण उपांग काक्षिक ठे. साते उपांगोना उदेश समुदेश अनुज्ञा त्रण त्रण आचिखे करीने थायठे. अन्य आचार्यना मतमा श्रीप्रज्ञापना सूत्रने

वर्जिने बाकीनां प्रथमनां त्रण उपांगो त्रण आयंबिले करीने चाय ठे. श्रीअंतकृतदशांगादि पांच अंगोतुं निरयावलिकाश्रुतस्कंध उपांग ठे, तेमा पांच वर्ग ठे १ श्रीकल्पिका, २ श्रीकल्पावर्तसिका, ३ श्रीपुष्पिता अने ४ श्रीपुष्पचूळिका आ चार वर्गमां दश दश अभ्ययनो ठे. पाचमो वर्ग श्रीवन्हिदशा एमां वार अभ्ययन ठे. पांच वर्गना उद्देशादिना पाच दिवस श्रुतस्कंधना समुद्देश अने अनुज्ञाना वे दिवस मळी सर्व श्रीनिर्यावलिका श्रुतस्कंधना योगना सात दिवस जाणवा.

प्र०-१०५-अजद्य अनंतकाय प्रासुक तैयार बीजा घरे मळे तो श्रावकने कल्पे ?

उ०-प्रासुक अजद्य अनंतकाय बीजाना घरे रांधेलुं मळे तो पण श्रावकने न कल्पे. श्रीश्राद्धविधिमां लखेल ठे के:-

“ अमरुपानंतकायिके तु परगृहादौ प्रासुकीवृत्तेऽपिन गाद्ये निःशुक्ता-प्रसंगगृह्यादिदोषसंभवात्, अत एवोत्कालिकसेहुरकं रात्र्याद्रकसुरणं-ताकार्वादि प्रासुकमपि सर्वे बह्व्यं प्रसंगदोषपरिहाराय ”

सारांशः-अजद्य अनंतकाय तो पारका घरमां प्रासुक थयेल पण निःशुक्तानो प्रसंग अने एरुि आदि दोषोनो संजव होवाची प्रहण नहि करवुं. आज हेतुची उकालेल सेलरां तथा रांधेल आहुं, सुरण अने रींगया आदि प्रासुक ( फासु ) थयेल पण प्रसंगदोषना परिहारने माटे त्यागवुं.

प्र०-१०६-युगलिक मनुष्यो मरी गया पढी तेमना शरीरनो संस्कार कोण करे ?

उ०-युगलीया मनुष्योना शरीरने मोटा पकीळ उपाकी समुद्रमां फेकी दे ठे.

श्रीकलिकाल सर्वज्ञजगवान् श्रीहेमचंद्रसूरी श्वरजी कृत त्रिषष्टि-  
शलाकापुरुषचरित्रना प्रथम पर्वना बीजा सर्गमां लखेल ठे के:-

“ पुरा हि सृतमिथुन-शरीराणि महाखगाः ।

नीडकाष्ठमिवोत्पादथ, सद्यश्चिक्षिपुर्वुषौ ॥ १ ॥ ”

जावार्थ:-पूर्वकालमां युगलीयानां शरीरोने मोटा पक्षीं माळा-  
ना लाकमानी जेम उपाकी शीघ्र समुद्रनी अंदर फेंकी दे ठे.

श्रीजंबूद्वीपप्रज्ञप्तिनी टीकामां आ उपरनोज श्लोक मूकी ल-  
खेल ठे के:-

“ अत्र श्लोके अमुष्वावित्युपलक्षणं तेन यथायोगं गंगाप्रक्षतिनदीष्वपि  
ते तानि क्षिपन्तीति ज्ञेयम् ”

जावार्थ:-आ श्लोकमां अंबुधि ( समुद्र ) ना उपलक्षणयी  
यथायोग गंगा आदि नदींमां ते पक्षीं ते शरीरोने फेंकी दे ठे  
एम जाणवुं.

प्र०-१७७-ज्जारंरु पक्षी केवा होय ?

उ०-ज्जारंरुपक्षीमां जीव बे अने शरीर एक होय ठे. तेने एक  
पेट, बे मुख अने त्रण पग होय ठे, ते मनुष्यनी ज्ञाषा बोले ठे अने  
हमेशां अग्रमत्तपणे रहेनार होय ठे, कारणके एक शरीरमां बे जीव  
होवायी तेने आपसमां जित्त जित्त फळनी श्हा थाय तो ते  
पक्षीनुं सृत्य थाय ठे. श्रीकल्पसूत्रनी 'कीरणावली' नामनीवृत्तिमां  
कह्युं ठे के:-

“ भारंरुपक्षिणः क्याताः, त्रिपदा मर्त्यमाषिणः ।

द्विजिह्वा द्विमुखाश्चेको-वराभिन्नफलैषिणः । ”

सारांश:-ज्जारंरुपक्षीं त्रण पगवाळा, मनुष्यनी ज्ञाषा बोलनार,  
बे जिह्वा, बे मुख, एक पेट अने अजित्त फळनी श्हावाळा जगत्मां  
प्रसिद्ध ठे.



श्री ज्ञातासूत्रना पांचमा अध्यायननी टीकामां लखे ठे के:-

“भारंडपक्षिणोर्हि एकोवराः पृथग्निवा अन्यफलामभिणोर्जीवद्वय-  
रूपा भवन्ति, ते च सर्वदा चकितचित्ता भवन्तीति ।”

सारांशः-भारंडपक्षिणोने एक पेट अने वे मुख होय ठे तथा एकज  
फळने खावावाळा वे जीवो सदाकाल मनमां जय राखनारा होय ठे.

श्रीश्रीपपातिक सूत्रनी टीकामां पण कहेल ठे के:-

“भारंडपक्षिणोः किलैकं शरीरं पृथग्विचं त्रिपादं च भवति-तौ चा-  
त्यन्तमप्रमत्तयैव निर्वाहं कृमेते.”

सारांशः-वे भारंड पक्षीने एक शरीर, वे मुख अने त्राण पण  
होय ठे. तेठ अप्रमत्तपणाधीज निर्वाह करी शके ठे.

प्र०-१०७-कुसुमिण हुसुमिणनो कायोत्सर्गं केटलो करवो ?

उ०-शीखत्रतना खंदन शिवायनुं अन्य कोइ जातनुं स्वप्न आव्युं  
होय अथवा स्वप्न न आव्युं होय तो पण सो श्वासोश्वासनो अर्थात्  
‘चंदेसु निम्मलयरा’ सुधी चार खोगस्सनो कायोत्सर्गं करवो अने शी-  
खत्रतविराधक स्वप्न आव्युं होय तो ‘सत्तावीस’ सत्तावीस श्लोक  
पटले एकसोश्वाठ श्वासोश्वासनो अर्थात् ‘सागरवरगंभीरा’ सुधीनो  
चार खोगस्सनो कायोत्सर्गं करवो. आचार्यश्रीमद्वरत्नशेखरसूरिजी-  
कृतश्राद्धविधिमा कहुं ठे के:-

“क्षीसेवादि कुस्वप्नोपलंभेऽष्टोत्तरशतोच्छ्वासमानः कायोत्सर्गः कार्यः”

सारांशः-मैथुन संबंधी कुस्वप्न आवेल होय तो एकसोने श्वाठ  
श्वासोच्छ्वासनो काउस्सग करवो.

श्रीहीरप्रश्नना चोथा उद्धासमां पण कहुं ठे के:-

“प्रभातप्रतिक्रमणसमये प्रथमतः कुसुमिणहुसुमिणवहावणिलं का-  
उत्सर्गं चतुर्लोगस्समानं करोति तदा ‘चंदेसु निम्मलयरा’ इति शब्द  
‘सागरवरगंभीरा’ इति शब्दश्च ? इति प्रश्नोऽष्टोत्तरसु-सामान्येन ‘चंदेसु  
निम्मलयरा’ इति शब्दकरोति, यदा पुनः स्वप्ने तुर्यप्रतातिचारो जानो  
भवति तदा नमस्कारमेकमधिकं चिन्तयतीति ।”

सारांशः—प्रातःकालंमां प्रतिक्रमणना समयमां पहेलां कुसुमि-  
णदुसुमिणं उभावेणिनो काउससंगं चारलोगस्तनो करे त्यारे ' चंदेसु  
निम्मलयर ' सुधी के 'सागरवरगंजीरा' सुधी इति प्रश्न अत्र उत्तर-  
सामान्यपणे ' चंदेसु निम्मलयर ' सुधीनो कायोत्सर्ग करवो. पण  
ज्यारे स्वप्नमां चोथावत संबंधी अतिचार लागेळ होय त्यारे एक  
नवकार अधिक गणवो. श्री आळविंधि तथा श्रीहीरप्रश्न वने  
ग्रंथोनों एकजे जौवार्थे ठे कै एकलोने आंठं आसोच्छासनो कायोत्सर्ग  
करवो ' सागरवरगंजीरा ' सुधी चार लोगस्तनो करे अथवा ' चंदेसु  
निम्मलयर ' सुधी चार लोगस्त अने उपर एक नवकारनो करे.

प्र०—१७९—चक्रवर्ती ज्यारे वैताढय पर्वतनी तिमिळा नामनी  
गुफाने उघाके ठे त्यारे तेमांथी अग्निनी ज्वाळा नीकळे ठे तेथो  
' चक्रवर्तीनो घोको बार योजन पाठो फरे ठे ' आवो प्रघोष (दंतकथा)  
चाले ठे एं शुं सत्य ठे ? जो अस्त्य ठे तो पठो ज्यारे राजा कोणीक  
तिमिळा गुफाने उघाकवा गयो ते वखते अग्निनी ज्वाळा केम नीकळी?

उ०—प्रथमं तो एंज असत्य ठे के ' चक्रवर्ती वैताढय पर्वतनी  
तिमिळा नामनी गुफाने उघाके ठे ' कारणके तिमिळा गुफाना  
द्वारने चक्रवर्ती उघाकताज नथो पण चक्रवर्तीनो सैनानी—तेन्या-  
धिपति उघाके ठे, श्रीजम्बूद्वीपपन्नतिमां कहुं ठे के:-

“ दंडरयणं महाय सत्तुपयाई पञ्चोसकई पञ्चोसकित्ता तिमिरस-  
गुहाए दाहिणिल्लस दुवारसस कवाडे दंडरयणेणं. महाया महाया सदेणं ति-  
कखुत्तो आवडेह, तएणं तिमिसगुहाए दाहिणिल्लस कवाडा सुसेणसेणाव-  
हणा दंडरयणेणं महाया महाया सदेणं तिकखुत्तो आवडिभा समाणा  
महाया महाया सदेणं कोवारवं करेमाणा सरसरसस संगई सगाई ठाणाई  
पञ्चोसकित्था । ”

सारांशः—सुसेण नाम्ना सेनापतिष् दंकरत्नने लक्ष्ने जोरथी प्रहार करवाने अर्थे सात आठ पगलां पाठो फरीने तिमिश्रा गुफाना दक्षिण दिशाना दरवाजाना कमरुने बहु मोटा शब्दथी प्रहार कर्था सुसेणसेनापतिष् दंकरत्ने करीने जोरथी त्रण वखत तिमिश्रा गुफाना छारने प्रहार करवाथी कौंचारव शब्दने करतां कमरुो उघसी पोत-पोताना स्थानमां स्थित थयां.

‘कमारु उघारुतां तेमांथी अग्निनी ज्वाळा निकळे ठे अने चक्रवर्तिना सेनाधिपतिनो घोको बार थोजन पाठो फरे ठे’ आ प्रमाणे चालती दंतकथा शास्त्रविरुद्ध होवाथी असत्य ठे.

श्रीश्रावश्यकसूत्र टीप्पणमां मलधारगच्छनायक पूज्य श्री हेमचंद्रसूरीश्वरजी महाराजाय उल्लेख करेल ठे केः—

“चक्रवर्त्यादेशात् सेनापतिर्विशिष्टपूजापुरस्सरं दंडरत्नेन तिमिश्रागुहा-कपाटोद्घाटनं करोति यस्तु द्वादशयोजनानि तुष्कारुद्धः सेनापतिः शीघ्र-मपसरतीत्यादिप्रवादः सोऽज्ञागमिकः इव लक्ष्यते कचिदप्यनुपलभ्य-मानत्वात् ।”

सारांशः—चक्रवर्तिनी आज्ञाथी सेनाधिपति विशिष्ट प्रकारे पूजा पूर्वक दंकरत्ने करीने तिमिश्रागुफाना कमरुने उघाफे ठे. घोकाठपर बेठेलो सेनापति बार जोजन सुधी शीघ्र पाठो फरे ठे. एवो जे प्रघोष (दंतकथा) चाले ठे तेवा अक्षरो कोइ स्थानमां देखवामां श्रावता नथी तेथी आगमविरुद्ध जणाय ठे.

इवे कोणीक राजा छार उघारुवा गया अने तेमांथी ज्वाळा नीकली ए वात पण ठीक नथी कारणके तिमिश्रा गुफाना अधिष्ठायक कृतमालनामा देवे दंकरत्नथी राजा कोणीकने मायों अने सैन्य पाठुं फरुं ठे. श्रीश्रावश्यकसूत्रना चोर्था अख्ययननी टीकामां श्रीहरिजज्ञसूरीश्वरजी महाराजाय स्पष्ट उल्लेख करेल ठे केः—

“ हृत्पिबिलग्नो मणि हृत्पिमत्पय काञ्चन दंष्ट्रेण दुवारं आह्वणम् ।  
ताद्रे कथमालगेण दंष्ट्रेण आह्वानो मधो छट्टिं गच्छे ”

सारांशः—श्रीकौणिक राजाप हाथी उपर बेसीने हाथीना म-  
स्तक उपर मणिने स्थापीने दंढे करीने कमरुने प्रहार कर्यो. त्यारे  
कृतमाल नामा तिमिश्रा गुफाना अधिष्ठायक देवे दंढे करीने मार्यो  
मरीने ठछी नरकमां गयो.

प्र०—१९०—खांरु क्यांथी क्यां सुधी अज्ञद्वय समजवी ?

उ०—अज्ञारु सुदि चौदशथी आरंजी आसो शुदि १० सुधी  
खांरु अज्ञद्वय ठे. श्रीसेनप्रश्नना त्रीजा उद्धासमां कथुं ठे केः—

“ चतुर्मासकमप्ये विजयदशमीं यावत् खंडाविहरणं कर्षणं न शुद्धय-  
तीति प्रश्नोऽत्रोत्तरश्च—परंपरया खंडाविहरणं निधिष्यते ॥ ३१७ ॥ ”

सारांशः—चोमासामा दशरा सुधी खांरु वहोरवानो निषेध शा  
कारणथी इति प्रश्न अत्र उत्तर परंपराथी खांरु वहोरवानो निषेध ठे  
श्री आरुविधिना चोथा प्रकाशना कहेल ठे केः—

“पर्युषितद्विदलपूपकापर्षटवटिकादिशुष्कशाकतन्दुलीयकादिपत्रशाक-  
दुप्परकखारकिलर्जुरद्राक्षाखंडशुंआदीनि फुल्लिकुण्डलिकादिसंसक्तिसं-  
भवास्यागः औषवादिविशेषकार्ये तु सम्यक् शोधनादियतनयैव तेषां  
ग्रहणम् । ”

सारांशः—त्रासी कठोर, पुरी, पापरु अने वमीठ आदि, सुकवणी  
शाक अने तांजळजानी ज्ञाजी आदि, पत्रशाक, टोपरुं, खारेक, खजूर,  
झाख, खांरु अने सुंठ आदि लीखफुल्ल कुंथुआ अने एळादिकनो संजव  
होवार्थी चोमासामा त्याग करवा. सुंठ आदि तो औषध आदि  
विशेष कार्यमां सम्यक् प्रकारे शोधनादि यतनाथी ग्रहण करवा.

प्र०—१९१—श्रीप्रज्ञवस्वामिजीए श्रीजंभूस्वामिजीनी साथे  
दीक्षा लीधी एवो उल्लेख ठे तो दीक्षा अवंसरे जगवान् श्रीजंभूस्वा-

मिजीनी वय सोल वर्षनी अने श्रीप्रजवस्वामिनी वय त्रीस वर्षनी, श्रीजम्बूस्वामिजींतुं सर्वे आयुष्यं पंसी वर्षेनुं अने श्रीप्रजेवस्वामिजींतुं सर्वे आयुष्यं पंचांसी वर्षेनुं होवाथी गर्षणां करतां श्रीजम्बूस्वामिजीनी विद्यमानं अवंस्थांमांज श्रीप्रजवस्वामिजीनो स्वर्गवास शंवांनो संजव थायं ठे. हवे 'श्री जम्बूस्वामिजी पोतांनी पाटे श्रीप्रजवस्वामिने आपी मोक्षे गया' आ वात शी रींतिं दे मळे ?

उंठं-श्रीजम्बूस्वामिजीनी दीक्षा पंती कॅटलाक (१७) वर्षे श्रीप्रजवस्वामिजीए जंगवान् श्रीजम्बूस्वामिजी पंसे दीक्षा अंगीकार करी' पंची संवावना थंइ शके ठे एटले श्रीजम्बूस्वामिजीनी पाटे श्रीप्रजवस्वामिजी थया ए वातमां विरोध आवतो नथी.

श्रीसेनसूरीश्वरजी महाराजे सेनप्रभना श्रीजा उल्लासमां कह्ल ठे के:-

श्रीजंबूप्रभवस्वामिभ्यां साकै तपस्या गृहीता श्रीजंबूस्वामिनः सर्वायु-  
रशीतिवर्षाणि श्रीप्रभवस्वामिनस्तु सर्वायुः पंचांशोतिवर्षाणि ( दीक्षा  
ग्रहणसंमये त्रिंशद्द्वर्षीयः श्रीप्रभवस्वामी शोडशीवर्षीयः श्रीजंबूस्वामी )  
इति जंबूस्वामिनि संत्येव प्रभवस्वामिनः स्वर्गमाकृत्य संपनीपथं तेनैतत्  
पद्मवलोगतं लेख्यकंकर्यं निवृत्तीति प्रभोऽश्रोतंरम्-श्रीजम्बूस्वामिदीक्षानं-  
न्तरं कियद्भिर्वैः श्रीप्रभवस्वामिनो दोक्षा संभाव्यते तथा च शीत न  
कोपि विरोधो यदुक्तं परिशिष्टपर्वणि:-

“ पंचमः श्रीगणधरोऽप्येवमभ्यर्चितस्तदा ।

तस्मै सपरिवाराय, ददौ दीक्षां यथाविधि॥

पितृनापृच्छय चान्येषुः, प्रभवोऽपि समागतः ।

जंबूकुमारमनुयान्, परिग्रह्यामुपाददे ॥ ”

सारांशः-श्रीजंबूस्वामी अने श्रीप्रजवस्वामिजीए साथे दीक्षा अंगीकार करी ठे. श्रीजंबूस्वामिजी महाराजनुं सर्वे आयुष्य चो-  
रशी वर्षेनुं ठे अने श्रीप्रजवस्वामिजी महाराजनुं सर्वे आयुष्य

पंचाशी वर्षनुं ठे. सोल वर्षनी वयमां श्रीजंबूस्वामिजी महाराजे दीक्षा. छीधी ते अवसरमां दीक्षा खेनार श्रीप्रज्वस्वामिजीनी वय त्रिश वर्षनी आ हेतुथी श्रीजंबूस्वामिजीनी विद्यमानतामांज श्री-प्रज्वस्वामिजीनुं स्वर्गगमन थाय ते कारणथी आ पढावलीनो खेख केम मळे ? इति प्रश्न अत्र उत्तर—श्रीजंबूस्वामिजीनी दीक्षा पढी केटलाक वर्षे श्रीप्रज्वस्वामिजीनी दीक्षा संजवे ठं तेथी कोइ विरोध नथी. श्रीपरिशिष्टपर्वमां कहेल ठे के:-श्री पांचमा गणधर श्रीसुधर्मास्वामी महाराजने एम प्रार्थना करी त्यारे परिवारसहित श्रीजंबूस्वामिजीने विधि पूर्वक दीक्षा आपी अन्यदा काळमां माता पिताने पूढी श्रीप्रज्वस्वामिजीए श्रीजंबूस्वामिजीनी यासे आची दीक्षा अंगीकार करी.

प्र०-२९२-नरकगतिमां रोगो केटला होय ?

उ०-सातमी नरकमां पांच क्रोक अकसठ खाल अने नवाणु हजार पांचसो अने चोरासी[५६७७७५७४]रोग सदाने माटे होय ठे. बाकीनी नरकोमां पण यथायोग होय ठे.

श्रीजपदेशरत्नाकरमां स्पष्ट उल्लेख करेल ठे के:-

“ रोगाणं कोढीओ, ह्वंति पंचेव लख अठसठ्ठी ।

नवनवइ सहस्त्राहं, पंच सया तह य जुळसीइ ॥ १ ॥

एते रोगा अप्रतिष्ठाने नरकावासे नित्या अन्यत्रापि च संभवति यथायानं ततश्च यस्मिन्नरमवे एतावन्तो रोगाः क्षयहेतवः तस्मिन् प्रभे एव सार इत्यादरणीयस्सर्वशक्त्या ”

सारांश:-पांच क्रोक अकसठ खाल नवाणु हजार पांचसो अने चोराशी आठख रोगो सातमी नरकमां अप्रतिष्ठान नामा नरका-वासमां नित्य होय. बीजी नरकोमां पण यथायोग रोगो होय. ते

कारणथी जे मनुष्य जचमां आ रोगो क्षय थयेला ते तेमां धर्म करवो एज सार ते माटे सर्व शक्तिथी धर्म अंगीकार करवो.

प्र०-१ए३-उंटनीनुं दुध जक्ष्य ते के अजक्ष्य ?

उ०-उंटनी तथा गान्धर-घेटी वज्जेनुं दुध अजक्ष्य ते. श्री-पिंडनिर्युक्तिनी ११२३ मां श्रीवीराचार्यकृत टीकांमां लखेल ते के:-

“ अविलाकरहीक्षीरं, लसुणपलं ह्य सुरा य गोमांसं ।

वैयसमएधि अमय, किंचि अमोक्षं अपेयं च ॥ १९४ ॥

व्याख्या-अविलाकरमीक्षीरं-गङ्गुरिकोष्ट्रीदुग्धं तथा लसुणपलं ह्युक्ति कंदविशेषः शाकविशेषश्च तथा सुरा-मद्यं च-समुच्चये तथा गोमांसं-सुर-रमीपलं एतत् किमित्याह-वेदा-ऋग्वेदादयो ब्राह्मणसंबन्धाभत्वारः शास्त्र-विशेषाः समपस्तु-शेषदर्शानिनां सिद्धान्तस्तस्मिन्नपि न केवलं जिनशासने इत्यपि शब्दार्थःअमृतं-ब्राह्मणतया अनभिप्रेतं किष्टानामिति शेषः, यत एतेषां मध्यात् किमपि अभोज्यं प्रतीते लक्ष्मणादि तथा किंचिदिति अनुवृत्तेरपेयम्-अपातव्यं अविलाक्षीरादि, उपलक्षणत्वात्काकमांसादिग्रहः च-समुच्चये वेदादयो हि असमंजसमापकाः स्युः, ततो यदि तेष्वपि अविलाक्षीरादि-ग्रहणेऽसंमतत्वमुक्तं तदानीं युक्तमाधिणि जिनशासने सावयत्वेन साधूना-मापाकर्षपरिहारः सुतरां वक्तुमुचितः इति गार्थार्थः । ”

सारांशः-गाढरनुं तथा उंटनीनुं दुध, लसण, कुंगरी, मदिरा अने गोमांस आ सर्व केवल श्रीजिनागममांज नहि किंतु ऋग्वेदादि ब्राह्मण शास्त्रोमां तथा अन्यमतना शास्त्रोमां पण शिष्ट पुरुषोने ग्र-हण करवाने अयोम्य ते एमां लसण आदि कंश्क अचोक्ष्य ते अने गाढरादिकनुं दुध आदि कंश्क अपेय ते. उपलक्षणथी काकमांसादि अचोक्ष्य ते. असमंजस कथन करनार वेदादि शास्त्रोमां पण गान्-धरादिकना दुधने ग्रहण करवानो निषेध करेल ते तो युक्तियुक्त कथन करनार श्रीजिनागममां सावय होवाथी आधाकर्मादिनो साधुठण त्याग करवो एम कहेवुं ए अत्यंत योग्य ते.

प्र०-१९४-परम उपकारी श्रीतीर्थकरदेवो प्रथम पोरिसिमांज देशना आपे ?

उ०-सुवनगुरु देवाधिदेव श्रीतीर्थकर महाराजा प्रथमनी पूर्ण पोरिसि सुधी-प्रथमना एक प्रहर सुधी देशना आपे अने बीजी पोरिसिमां षट्छे बीजा प्रहरमां श्रीगणधरमहाराजा देशना आपे. फरीनं चोथी पोरिसिमां-चोथा प्रहरमां समग्र विश्वना परम उपकारी श्रीतीर्थकर महाराजा देशना आपे, श्रीबृहत्कल्पजाप्यवृत्तिना प्रथम खंडमां कहेल डे के:-

“ सूरुदयपच्छिमाप, ओगाहितीई सुवभो एति ।

दोहि पञ्मेहि पायं, भग्गेण च ह्योति सत्तन्ने ॥ १ ॥ ”

जावार्थ:-पहेली पोरिषी अने चोथी पोरिषी शरुथतां श्रीदे-वाधिदेव महाराजा देवोना रचेला सुवर्णना नवकमलोमां अगाडीना बे कमलो उपर चरणोने धारण करता पूर्वना दरवाजाथी प्रवेश करीने चैत्यवृह्णने त्रण प्रदक्षिणा दर्ई 'नमो तित्थस्स' कही पूर्ण दिशामां मुख करी सिंहासन उपर बेसी देशना दे डे.

केटला काल सुधी देशना आपे ते कहे डे:-

“ भगवान् प्रथमां संपूर्णपोरुषी धर्ममाचष्टे ”

जावार्थ:-श्रीतीर्थकर देव संपूर्ण पहेली पोरुषी पर्यंत धर्मदेशना आपे डे.

बीजा पहोरमां कोण देशना आपे ते कहे डे:-

“ भगवत्युत्थिते उपरि द्वीतीयपोरुष्यां तीर्थ-प्रथमगणधरोऽन्या वा धर्ममाचष्टे ”

जावार्थ:-श्रीदेवाधिदेवना देशना आपीने उक्त्वा पढी बीजा पहोरमां तीर्थ-श्रीप्रथम गणधर महाराज अथवा प्रथम गणधर



महाराज न होय तो बीजा गणधर महाराज देशना आपे ठे. चोथा पहारे पाठा श्रीतीर्थकर महाराज देशना आपे.

प्र०-१९५-नरकगतिमां नारकीना जीवो अशुज वर्ण, गंध, रस, अने स्पर्शवाळां पुद्गलोणो आहार करे ठे तो जावि तीर्थकरोना जीवो नरकमां ठे तेलें माटे कंइ विशेषता ठे था नहि ?

उ०-नरकगतिमां रहेखा सघळा मिथ्यादृष्टि जीवो अशुज वर्ण, गंध, रस अने स्पर्शवाळां पुद्गलोणो आहार करे ठे परंतु नरकगतिमां रहेखा जावि तीर्थकर महाराजाना जीवो तो शुजपुद्गलोणो-ज आहार करे ठे. श्रीजगवतीसूत्रना प्रथम शतकना प्रथम उद्देशानी वृत्तिमां जगवान् श्रीअजयदेवसूरिजी महाराजाए उल्लेख करेलोठे के:-

“ वल्लभो कालनीलाहं, गंधभो दुग्धिमगंधाहं, रसभो तित्तकडुवरसाहं, फासभो कक्कडुगुह्यसीयलुक्काहं ॥ एतानि च प्रायो मिथ्यादृष्टय एव आहारयन्ति, ननु भविष्यतीर्थकरादयः । ”

जावार्थ:-वर्णथी काळा अने नीला वर्णनां, गंधथी दुग्धिगंधनां, रसथी तीखा, कक्का अने कषायला रसवाळा, फरसथी कर्कश, गुरु, शीत अने रुक्क स्पर्श वाळां पुद्गलोणो नारकीना जीवो आहार करे ठे. आ उपर जणावेल अशुज पुद्गलोणो आहार प्राये करीने मिथ्या-दृष्टिउज करे ठे पण जावि श्रीतीर्थकर महाराजना जीवो करता नथी.

प्र०-१९६-श्रीसिद्धसेनदिवाकरजी कया गह्वमां थया ठे ?

उ०-श्रीविद्याधर गह्वमां श्रीपादधिससूरिजीना संतानमां श्री वृद्धवादिसुरि महाराजना शिष्य श्रीसिद्धसेनदिवाकरजी थया ठे.

श्रीसिद्धासनद्वारिंशिका नामना ग्रंथमां वर्णन ठे के:-

“ श्रीविद्याधरगच्छे षट्त्रिंशत्सकन्धकुञ्जाधिपतिश्रीमर्कंडराजप्रति-  
बोधकश्रीपादधिससूरिसंताने श्रीस्कंदिलाचार्यशिष्यश्रीवृद्धवादिसुरिः, स-  
श्रीसर्वज्ञपुत्र इत्याख्यया प्रसिद्धः । ”

जाचार्यः—श्रीविद्याधर नामा गह्वर्मा ठत्रीस लाख गामवाळा कन्यकुब्ज देशना स्वामी श्रीमरुंकराजना प्रतिबोधक श्रीपादल्लिससूरि महाराजना वंशर्मा श्रीस्कंदिलाचार्य महाराजना शिष्य श्रीवृद्धवादी-सूरि थया. तेमना शिष्यश्रीसिद्धसेन दिवाकरजी श्रीसर्वज्ञपुत्र' एवा नामथी प्रसिद्ध थया.

श्रीसम्यक्त्वसप्ततिकांनी टीकामां पण कहेल ठे के:-

“ सिरिबिज्जाहरगच्छे श्रीपालित्तयसूरिसंताणनहंगणसूरिओ बहु-विज्जाभरिओ सिरिखंदिलापरिओ; × × × × तओ य सिरिखंदिलाय-रिपई सवुद्धवाई नियपए ठविओ, सिद्धसेणस्स य पवज्जासमए कुमुयचं-दुत्ति नामं दिग्गं पुणोवि सूरिपयपहद्दासमए सिद्धसेणदिवायवत्ति नामं कयं पुन्वगयसुयपाठगत्तणेण दिवायवत्ति ”

जाचार्यः—श्रीविद्याधर गह्वर्मा श्रीपादल्लिससूरिजी महाराजना संतान रूप आकाशस्थलमां सूर्यसमान बहु विद्याथी जरपूर श्री स्कंदिलाचार्य थया. × × × × ते पढी श्रीस्कंदिलाचार्य महाराजे श्रीवृद्धवादी महाराजने पोताना पढ उपर स्थापन कर्था. श्री वृद्धवादीजी महाराजे श्रीसिद्धसेनजी महाराजने दीक्षा आपो कुमु-दचंद्र नाम स्थापन कर्तुं. पूर्वगत श्रुतना पाठकने दिवाकर कहेवाय ठे. अने श्रीकुमुदचंद्र महाराज पूर्वश्रुतना पाठी इत्ता तेथी आचार्य पदवीप्रदान अवसरे श्रीसिद्धसेन दिवाकर नाम स्थापन कर्तुं.

प्र०—१९७—श्रीजिनालयमां श्रीआचार्यमहाराज आदि दर्शन करवाने अर्थे पधारे त्यारे आवको उजा थाय तेथी श्रीजिनेश्वरपरमा-त्माना आशातना थाय ?

उ०—श्रीआचार्य महाराजादि श्रीजिनालयमां दर्शनार्थे आवे ते अवसरे आवकोना उजा थाथी श्रीजिनेश्वर देवनी आशातना

थाय नहि. उलटुं उजा न थाय तो श्रीगुरुमहाराजनो अविनय  
थाय तेथी अवश्य उजा थतुं जोश्य.

श्रीआरूविधिमां जगवान् श्रीरत्नशेखरसूरीश्वरजी महाराजे  
स्पष्ट कहेल ठे के:-

“ वैत्यादौ गुवांगमनाथवसरे धाम्युत्थानादिप्रतिपत्तिः कार्या ”

ज्ञावार्थ:-श्रीजिनमंदिरमां श्रीआचार्यादिमहाराजना आगमन  
अवसरे उजा थतुं आदि प्रतिपत्ति करवी.

कलिकालसर्वज्ञ भगवान् श्रीहेमचंद्रसूरीश्वरजी महाराजाय श्री  
योगशास्त्रना त्रीजाप्रकाशमां लखेल ठे के:-

“ ततो गुरुणामभ्यर्णे, प्रतिपत्तिपुरःसरम् ।

विदधीत विशुद्धात्मा, प्रत्याख्यानप्रकाशनम् ॥ १२५ ॥

व्याख्या-ततोऽनंतरं गुरुणां-धर्माचार्याणां देववंदनार्थमागतानां स्ना-  
नादिदर्शनधर्मकथाथर्थं तत्रैव स्थितानां ”

ज्ञावार्थ:-देववंदन करवाने पधारेला अथवा स्नात्रादिना दर्शन  
करवाने अथवा व्याख्यान करवाने अर्थे त्यांज स्थित रहेला श्रीगुरु-  
महाराज-धर्माचार्य महाराजनी पासे प्रतिपत्ति पूर्वक देवनी पासे करेल  
प्रत्याख्यानने निर्मल चित्तवाळो फरीधी गुरुनी पासे करे ॥ १२५ ॥

आ उपरना श्लोकमां प्रतिपत्ति कही ते प्रतिपत्तिने बे श्लो-  
कोवने देखाडे ठे.

“ धाम्युत्थानं तदालोके-ऽभियानं च तद्भागमे ।

धिरस्यजलिसंश्लेषः, स्वयमासनदौकनम् ॥ १२६ ॥

आसनाभिग्रहो भक्त्या, वंदना पर्युपासनम् ।

तथानेऽङ्गमभ्येति, प्रतिपत्तिरियं शुरोः ॥ १२७ ॥ ”

ज्ञावार्थ:-१ श्रीगुरु महाराज आवे तेमने देखीने उजा थतुं. २  
श्रीगुरु महाराज आवे त्यारे सन्मुख जतुं. ३ श्रीगुरु महाराजने दे-

खीने मस्तके अंजली करवी अर्थात् बे हाथजोकी मस्तके लगान्वा. ४ स्वयं पोते आसन आपवुं. ५ आसननो अग्निग्रह पटले आसन उपर श्रीगुरु महाराजना बेठा पढी बेसवुं. ६ चाकि पूर्वक वंदन करवुं. ७ स्थित अयेथी तेमनी सेवा करवी अने ८ ज्यारे जाय त्यारे पढवाके केटलांक पगलां जवुं. आ श्रीधर्माचार्य महाराजनी विनयरूप प्रतिपत्ति जाणवी. ॥ १२६-१२७ ॥

प्र०-२ए०-साध्वीजीने मनःपर्यवहान थाय ?

उ०-अप्रमत्तगुणस्थानके वर्तती महासती साध्वीजीने मनःपर्यवहान थाय.

श्रीप्रवचनसारोद्धारना ३७० मा छारमां कहेल ठे के:-

“ अरिहंत १ चाकि २ केशव ३ बल ४ संभित्ते ५ य चारणे ६ पुढा । ७ ।

गणहर ८ मुलाय ९ आहारग १० च नहु भवियमहिलाणं ॥ ३७ ॥

जावार्थ:-१ आमर्षोषधि, २ विप्रुर्षधि, ३ खेळोषधि, ४ जलौषधि, ५ सर्वोषधि, ६ संजिन्नश्रोतलधि, ७ अवधि ज्ञानलधि, ८ ऋजुमतिलधि, ९ विपुलमतिलधि, १० चारणलधि, ११ आशीविषलधि, १२ केवललधि, १३ गणधरलधि, १४ पुर्वधरलधि १५ अरिहंतलधि, १६ चक्रवर्त्तिलधि, १७ ब्रह्मदेवलधि, १८ वासुदेवलधि, १९ क्षीरमधुसर्पिआश्रवलधि, २० कोष्ठकञ्जुद्धिलधि, २१ पदानुसारिणीलधि, २२ बीजनुद्धिलधि, २३ तेजोलेइयालधि, २४ आहारक लेइयालधि, २५ शीतलेइयालधि, २६ वैक्रिय शरीरलधि, २७ अक्षीण महानसीलधि, अने २८ पुलकलधि, आ अष्टावीशलधित्ठं ठे तेमांथी १ अरिहंत, २ चक्रवर्त्ती, ३ वासुदेव, ४ बलदेव, ५ संजिन्नश्रोत, ६ जंघाचारण विद्याचारण, ७ पुर्वधर, ८ गणधर, ९ पुलाक, अने १० आहारक शरीर, आ दश लधित्ठं जव्यखीत्ठंने न होय बाकीनी

अठारसन्धिर्लं स्त्रीर्त्तने होय. अठारमां ऋजुमति तथा विपुलमति बन्ने मनःपर्यायज्ञान सन्धिर्लं ठे. तेथी ऋजुमति तथा विपुलमति मनःपर्यायज्ञान श्रीमती साष्वीर्त्तने होय. आ पाठमां स्त्रीवेदमां मनःपर्यायज्ञान स्पष्टपणे कहेलं ठे. स्त्रीवेद कहेवाची श्रीमती साष्वी-र्त्तज समजवी.

श्रीषकशीति कर्मग्रंथमां श्रीदेवेंद्रसूरीश्वरजी महाराजाय पण कहेलं ठे के:-

“ तस जोय वेय सुक्का-हार नरपणिदि संनि भवि सव्वे । ”

जावार्थ:-त्रसमां, मन, वचन अने कायाना योगमां, स्त्रीवेद, पुरुष वेद अने नपुंसक वेदमां, शुक्लखलेश्यामां, आहारकमां, मनुष्यगति-मा, पंचेंद्रियमा, अने संज्ञी मार्गणामां १ चक्षुदर्शन, २ अचक्षुदर्शन, ३ अवधिदर्शन, ४ केवलदर्शन, ५ मतिज्ञान, ६ श्रुतज्ञान, ७ अव-भिज्ञान, ८ मनःपर्यायज्ञान, ९ केवलज्ञान, १० मति अज्ञान, ११ श्रुतअज्ञान, अने १२ विजंगज्ञान, सर्व एतले बारे उपयोग होय.

प्र०-१९९-धर्मध्यानना ध्याता कोण होइ शके ?

उ०-अप्रमादी क्षपकनिर्ग्रथ अने अप्रमादी, उपशामकनिर्ग्रथ महात्मा धर्मध्यानना ध्याता होय. श्रीआवश्यकसूत्रमां ध्यानशतकमां श्रीजिनभद्रगणिकामाभ्रमणजी महाराजे कहुं ठे के:-

“ सबप्पमायरहिया, मुणिमो स्त्रीणोवसंतमोहा य ।

आयारो नाणवणा, वम्मज्जाणस्स निदिद्धा ॥ ६३ ॥ ”

सारांश:-पांचे प्रकारना सर्वप्रमादधी रहित ज्ञानवान् क्षपक अने उपशामक साधु महात्मां धर्मध्यानना ध्याता श्रीजिनेश्वरोय अने श्रीगणधरमहाराजां कहा ठे.

प्र०-२००-दीक्षा लेनार सर्व पुरुषोने उपधितुं खर्च सरखुंज होय ?

उ०-दीक्षा लेनार पुरुषो-सामान्य, मध्यम अने उत्तम एम त्रण प्रकारना होय ठे. कुत्रिकापणनी उपधि संबंधी खर्च जघन्यथी दीक्षा लेनार सामान्य पुरुषने पांच रुपीयानुं थाय, मध्यम स्थितिवाळा शैवशाहुकारादिकोने एकहजार रुपीयानुं खर्च थाय ठे अने उत्तम पुरुष चक्रवर्ति अने मंगलिकराजा विगेरेने जघन्यथी एकलाख रुपी-यानुं खर्च लागे ठे.

श्रीवृहत्कल्पना बीजा खंडमां उल्लेख ठे के:-

“ पणतो पागतियाणं, साहस्सं होति इन्ममादीणं ।

उक्तोस सतसहस्सं, उत्तम पुरिसाण उवधीओ ॥ ६६ ॥ ”

जावार्थ:-दीक्षा अंगीकार करनार सामान्य मनुष्यने उपधीनुं मूढ्य पांच लागे. इत्य श्रेष्ठी सार्थवाह आदि मध्यम पुरुषोने दी-क्षानी उपधीनुं मूढ्य हजार रुपीया थाय अने उत्तम पुरुषो चक्रवर्ती मांगलिक प्रवृत्ति राजाउने लाख रुपीया दीक्षा संबंधी उपधीना ख-रचना लागे. अर्ही जघन्य पांच रुपीया मध्यम हजार अने उत्कृष्टा लाख रुपीया उपधीनुं मूढ्य कहेल ठे पण सर्वने एक सरखुं न समजतुं.

प्र०-२०१-‘ कुत्रिकापण ’ नो अर्थ शो ?

उ०-‘कु’ पटले पृथ्वी आदि ‘ त्रिक ’ पटले स्वर्ग, मृत्यु अने पाताल आ त्रण लोक कहेवाथी त्रण लोकमां रहेली-१ जीव, २ धातु अने ३ मूलात्मक वस्तु तेनी ‘ आपण ’ कहेतां पुण्यशास्त्रि म-नुष्योना इहितने पूर्ण करनार पूर्वचवना संबंधी देवथी आधिष्ठित दुकान. ते दुकानमांथी खरीद करनार पुण्यत्मा मनुष्योने वस्तुमात्र पूरी पाके ठे. आवी देवाधिष्ठित दुकान प्रथमना समयमां उज्जायिनी राजगृही आदि नगरीउमां हती.

श्रीवृहत्कल्पसूत्रवृत्तिना बीजा खंडमां उल्लेख करेल ठे के:-

“ कृत्तिय पृथ्वी सत्ता, जं विज्जति तत्थ चैयणचैयं ।

गहणुवभोगे अस्समं, न त तद्धि भावणे नत्थि ॥ ६५ ॥ ”

सारांशः—कृ पटले पृथ्वी तेजुं त्रिक अर्थात् स्वर्ग मर्त्य अने पाताल, तेमां रहेल वस्तुनी जे बुकान ते कुत्रिका पण कहीये अर्थात् सर्वलोकना ग्रहण उपजोगमां समर्थ एवा त्रण जगत्मां रहेल चेतन अथवा अचे- तन सर्व पदार्थ ते कुत्रिकापणमां अवश्य होय. जे पदार्थ ते कुत्रिकाप- णमां न होय ते पदार्थज जगत्मां नथी.

प्र०-२०२—देवोना एक नाटकमां केटलो काल व्यतीत थाय ?

उ०—देवोना एक नाटकनी अंदर चारहजार वर्ष जेटलो काल व्यतीत थइ जाय. खरतर गह्नीय श्रीसिमय सुंदरजी उपाध्याय श्री विशेषशतक नामना ग्रंथमां कहेल ठे केः—

“ देवानां एकस्मिन् नाटके कियान् कालो लगति कापि दृष्टं श्रुतं वा ?  
उच्यते—श्रीपार्श्वनाथदशगणधरसंबंधे सप्तमगणधराधिकारे देवनाटकस्य  
चतुर्वर्षसहस्रमानस्याक्तत्वात्, तथा च तत्पाठः जाणं देवाणं पेक्षणयं पि  
अर्हं वाससहस्तेहि सम्प्यह । इति ”

सारांशः—देवताळना एक नाटकमां केटलो काल लागे ते कोई ठेकाणे जोयुं ठे के सांजह्युं ठे ? उत्तर—श्रीपार्श्वनाथ भगवान्ना दश गणधरना संबंधमां सातमा गणधरना अधिकारमां देवनाटकनुं चार हजार वर्षनुं प्रमाण कहेल ठे. ते पाठ—‘जे देवताळनुं नाटक पण चार हजार वर्षे समाप्त थाय ठे.’

प्र०-२०३—‘कन्यादान न देवुं’ एवा नियमवाळा श्रीचेराम- हाराजाने पुत्रीळ हती या नहि ? हती तो तेनो विवाह थयो या नहि ? अने थयो तो ते कोणे कयो ?

उ०—श्रीचेरामहाराजाने बीजी बीजी राणींथी उत्पन्न थयेली १ प्रजावती, २ पद्मावती, ३ सृगावती, ४ शिवा, ५ ज्येष्ठा, ६ सुज्येष्ठा

अने ७ चेलणा, आ नामनी सात पुत्रीं हती. तेमांशी पांच पुत्री-  
उंनो तेमनी माताळए श्रीचेकामहाराजाने जणावीने अनुक्रमे १ प्रभा-  
वतीजीनो वीतप्रयपत्तनना महाराजा श्रीउदायननी साथे, २ पद्माव-  
तीजीनो चंपानगरीना महाराजा दधिवाहननी साथे, ३ मृगावतीजीनो  
कौशंबी नगरीना श्रीशतानीक राजानी साथे, ४ शिवाणो उज्जयिनी  
नगरीना चंद्रप्रद्योतन राजानी साथे अने ५ ज्येष्ठानो कुत्रियकुंरपुर  
नगरना महाराजा श्रीनंदीवर्धननी साथे विवाह कर्यो. ६ सुज्येष्ठाए  
तो कौमारअवस्थामांज दीक्षा अंगीकार करी अने ७ चेलणानो राज-  
पुत्री नगरीना महाराजा श्रीश्रेणीकनी साथे गंधर्वविवाह थयो हतो.  
श्रीचेकामहाराजानी आ साते पुत्रीं सती हती.

श्रीत्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रना दशमा पर्वना उठा सर्गमां कशि-  
काससर्वज्ञ जगवान् श्रीहेमचंद्रसुरीश्वरजी महाराजाए कथुं ठे कै-

“ पृथक् राक्षीभवास्तस्य, वसूधुः सप्त कन्यकाः ।  
सप्तानामपि तद्वराज्यां-गानां ससेव देवताः ॥ १८६ ॥  
प्रभावती १ पद्मावती २, मृगावती ३ शिवापि ४ च ।  
ज्येष्ठा ५ तथैव सुज्येष्ठा ६, चेलणा ७ चेति ताः क्रमात् ॥ १८७ ॥  
चेदकस्तु भाषकोऽन्य-विवाहनियमं वहन् ।  
ददौ कन्यां न कस्मैषिव, उदासीन इव स्थितः ॥ १८८ ॥  
तन्मातर उदासीन-मपि श्रापच्छब्द चेदकम् ।  
वराणामनुरूपानां, प्रवृत्तः पंच कन्यकाः ॥ १८९ ॥  
प्रभावती वीतभये-श्वरोदायिनमूपतेः ।  
पद्मावती च वंद्येक्ष-दधिवाहनमृगुजः ॥ १९० ॥  
कौशाम्बीशशतानीक-रूपस्य तु मृगावती ।  
शिवा सृजयनीशस्य, प्रद्योतपृथिवीपतेः ॥ १९१ ॥  
कुंडभ्रामाधिनाथस्य, नन्दिवर्धनमूपतेः ।  
श्रीवीरनाथज्येष्ठस्य, ज्येष्ठा दत्ता यथावधि ॥ १९२ ॥



इत्थं चिरक्ता सुज्येष्ठा, स्वयमापृच्छथ चेटकम् ।

समीपे चन्दनार्यायाः, परिव्रज्यामुपाददे ॥ २६५ ॥

गान्धर्वेण विवाहेन, परिणीयाथ चेष्टणाम् ।

राजा नागसुलसयो-र्गत्वाऽऽक्यत् तत्सुतान् सुतान् ॥ २७२ ॥ ”

सारांशः—श्रीचेका महाराजाने जुदी जुदी राणीलंघी तेना रा-  
ज्यना सात अंगोनी अधिष्ठायिका सात देवीलंज होय तेवी सात  
पुत्रीलं उत्पन्न थइ. तेनां अनुक्रमे नाम प्रभावतीजी १, पद्मावतीजी २,  
मृगावतीजी ३, शिवा ४, ज्येष्ठा ५, सुज्येष्ठा ६, अने चेष्टणा ७ वीजानो  
विवाह न करवानो नियम करनार परम आवक श्रीचेका महाराजाय  
कोइने पण कन्यालं आपी नहि पण उदासिननी जेम स्थित रह्यो. कन्या-  
लंघी मातालं उदासिनजावे स्थित रहेखा श्रीचेका महाराजाने पूढीने  
कन्यालंघने योग्य वरोने पांच कन्यालं आपी. १ श्रीमती प्रभावतीजी,  
वीतप्रयत्नना नायक श्रीउदायी महाराजाने, २ श्रीमती पद्मावतीजी  
चंपानगरीना नायक श्रीदधिवाहन महाराजाने, ३ श्रीमती मृगाव-  
तीजी कौशांबीनगरीना स्वामी श्रीशतानीक महाराजाने, ४ श्रीमती  
शिवा उल्लयनी नगरीना स्वामी श्रीचंद्रप्रद्योत महाराजाने, ५ श्री-  
मती ज्येष्ठा श्रीकुंरपुरनगरना स्वामी श्रीवीरपरमात्माना वकील बंधु  
श्रीनंदीवर्धन महाराजाने आ प्रमाणे इहा मुजव आपी. वैराग्यवती  
श्रीमती सुज्येष्ठा महासतीय श्रीचेका महाराजाने पूढीने स्वयं श्रीमती  
चंदनबाळा महासतीजीनी पासे दीक्षा अंगीकार करी. श्रीश्रेष्ठिक  
महाराजाय चेष्टणाने गांधर्व विवाहे परणीने नागसार्थवाह अने सु-  
खसाजी सतीनी पासे जई तेमना बन्नीसे पुत्रोना मृत्यु पास थयाना  
समाचार कया.

प्र७-२७४—क्या क्या गुणस्थानकर्मां वर्ततो जीव कालधर्म पामे ?

तथा परज्वमां जीवनी साथे कयां कयां गुणस्थानको जाय ?

उ०-त्रीजुं ' मिश्र ' नामनुं गुणस्थान, बारमुं ' क्षीणमोह ' गुणस्थान अने तेरमुं ' सयोगी ' गुणस्थान. आ त्रण गुणस्थानकोमां वर्ततो जीव काळधर्म पामे नहि. बाकीनां अगीयार गुणस्थानकोमां वर्ततो जीव काळधर्म पामे. ते अगीयार गुणस्थानोमांथी पहेलुं 'मिथ्या-दृष्टि' गुणस्थानक, बीजुं 'सास्वादन' गुणस्थानक अने चोथुं 'अविरति सम्यग्दृष्टि' गुणस्थानक, आ त्रण गुणस्थानको परज्वमां जीवनी साथे जाय ठे अने बाकीनां आठ परज्वमां साथे जतां नथी.

श्रीगुणस्थानकमारोहमां कहेल ठे के:-

“ ननु मिश्रस्य एव त्रियते, तथा मिश्र इव क्षीणमोहे सयोगिनि च वर्तमानो जीवो न त्रियते, परेष्वेकादशसु मिथ्यात्वसास्वादानाविरतदेशाविरतप्रमत्ताप्रमतापूर्वकरणानिदृष्टिबादरसूक्ष्मक्षेपरायोपशान्तमोहाद्योगि-केवलरूपेषु गुणस्थानकेषु वर्तमानो त्रियते, तथा तेष्वेकादशसु मरणगुण-स्थानकेषु मिथ्यात्वसासादानाविरतिसम्यग्दृष्टिलक्षणानि त्रीणि गुणस्थान-कानि जावेन सह परभवमप्यनुयान्ति, न चापराण्यष्टौ गुणस्थानानि । ”

सारांशः-मिश्रगुणस्थानकमां वर्ततो मरे नहि तथा मिश्रनी जेम क्षीणमोह गुणस्थानमां तथा सयोगी गुणस्थानमां वर्ततो जीव मरे नहीं, बाकीना १ मिथ्यात्व गुणस्थान, २ सास्वादन, ४ अविरति, ५ देश-विरति, ६ प्रमत्त, ७ अप्रमत्त, ८ अपूर्वकरण, ९ आनीदृष्टिबादर, १० सू-क्ष्मसंपराय, ११ उपशांतमोह अने १४ अयोगीकेवली गुणस्थान आ अगीयार गुणस्थानकमां वर्ततो जीव काळधर्मने प्राप्त थाय, तथा ते अगीयार मरण गुणस्थानकमाथी १ मिथ्यात्व, २ सास्वादन अने ४ अविरति सम्यग्दृष्टि आ त्रण गुणस्थानको जीवनी साथे परज्वमां पण जाय ठे. बाकीनां आठ गुणस्थानको साथे जतां नथी.

प्र०-२०५-श्रीकेवलज्ञानी महात्माजने ध्यान अथवा आवाश्य-कथादि क्रियानो कलाप करवानो होय ?

उ०-श्रीकेशवज्ञानी महात्मारुने चिन्तनरूप ध्यान न होय अने आवश्यकआदि क्रियाळ पण करवानी होय नहि कारणके तेळने जावमन नथी तेमज क्रियाळ करवानुं कारण पण नथी, अर्थात् कारण विना कार्य होइ शके नहि.

श्रीजगतीसूत्रना अठारमा शतकना दशमा उदेशामां कहेल ठे के:-

“तव संज्ञमसञ्ज्ञायज्ञाणावसयमादीपसुं जयणात्ति॥ व्याख्या-इह तपः-अनशनादि, नियमाः-तद्विषया, अभिग्रहविशेषाः यथा एतावन्तपस्त्वाध्यायवैद्यावृत्त्यादि मयाऽवश्यं रात्रिन्दिवादौ विषेयमित्यादिरूपाः, संयमः-प्रत्युपेक्षादिः, स्वाध्यायो-धर्मकथादिः, ध्यानं-धर्मादिः, आवश्यकं-षड्विधं, एतेषु च यद्यपि भगवतः एकचिन्न तदानीं विशेषतः संभवति तथापि तत् फलसद्भाषात्तदस्तीत्यवगतव्यम् ।”

सारांशः-अनशनादि तप, अग्निग्रह विशेष नियम, प्रत्युपेक्षादि संयम, धर्मकथादि स्वाध्याय, धर्मादि ध्यान, षड्विध आवश्यक ए-मांथी जो के परमात्मा श्रीमहावीरस्वामिजीने कई पण विशेषथी संज्ञवतुं नथी तो पण तेना फलना सज्ञावथी ठे एम समजतुं. अर्थात् वास्तविक प्रतिक्रमणादिक होय नहि.

प्र०-२०६-प्रतिक्रमणमां देववंदन करवामां आवे ठे ते समये जे स्थापनाजी राखवामां आवे ठे ते स्थापनाजी श्रीगुरुदेवनी ठे तो तेमनी पासे देववंदन थइ शके ?

उ०-जे स्थापनाजीनी पासे प्रतिक्रमणादि क्रिया करवामां आवे ठे ते केवल श्रीगुरुनीज स्थापना नथी परंतु देववंदन करवा अवसरे तेमां श्रीपंचपरमेष्ठिनी स्थापना मानी देववंदन थाय ठे. जो गुरुनीज स्थापना होय तो तेमनी पासे चैत्यवंदन न थाय. श्रीसेनप्रश्नना बीजा उहासमां कहेल ठे के:-

“शुरुपाङ्ककाये प्रतिक्रमणादिकं शुध्यति न वेति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्-केवल-  
देववन्दनं, विना सर्वं प्रतिक्रमणादिकं शुध्यतीति न च पाङ्कका पुष्पादिभिर-  
र्च्यते इति प्रतिक्रमणादिकं न शुध्यतीति वाच्यं पुष्पाद्यचितजिनप्रतिमाना-  
मग्रेऽपि प्रतिक्रमणादिक्रियायाः शुद्धयमानत्वात् इति ॥ ४४ ॥”

सारांशः—श्रीगुरुमहाराजनी पाङ्ककानी अगानी प्रतिक्रमणा-  
दिक क्रिया शुद्ध थाय के नहि ? इति प्रश्न अत्र उत्तर—केवल देव-  
वन्दनना विना प्रतिक्रमणादि सर्व क्रिया शुरू थाय. पाङ्ककानी पु-  
ष्पादिथी पूजा थाय ठे माटे तेमनी पासे प्रतिक्रमणादिक क्रिया  
शुरू न थाय एम न कहेडुं. पुष्पादिकथी पूजित श्रीजिनप्रतिमानी  
अगानी पण प्रतिक्रमणादिक क्रियाओ शुरू थाय ठे.

श्रीसंघाचार ज्ञाप्यवृत्तिमां श्रीतपगह्वनायक श्रीधर्मवोषसूरीश्व-  
रजी महाराजे स्पष्ट उल्लेख करेल ठे केः—

“जिणर्विवाभावे पुण, ठवणा गुरुसक्खियावि कीरंती ।  
चियवंदण चिय इमा, तत्थवि परमिट्ठवणाओ ॥ ३ ॥  
अहवा जत्थ व तत्थ व, पुरओ परिकप्पिऊण जिणर्विबंधं ।  
कीरइ बुहेहि एसा, नेया चियवंदणा तम्हा ॥ ४ ॥”

सारांशः—श्रीजिनप्रतिमाना अज्ञात्रे तथा श्रीगुरु महाराजनी  
साक्षीना पण अज्ञात्रे श्रीजिनेश्वरनी तथा श्रीगुरुमहाराजनी स्थापना  
करवी. तेमां पण चैत्यवंदना निश्चये करी श्रीपरमेष्ठीपदनी स्थापना  
करीने करवी. अथवा ज्यां त्यां पण श्रीजिनप्रतिमानि—चैत्यनी पोतानी  
सन्मुख कल्पना करीने बुध पुरुषो वंदन स्तुति करे ते कारणथी तेने  
चैत्यवंदना जाणवी.

प्र०-१०७-सर्व शाश्वती प्रतिमाउं-पांचतो धनुष्यनीज उंची  
होय के उठी वधती पण होय ?

उ०-उर्ध्वलोकमां तथा अधोलोकमां रहेछी शाश्वती प्रतिमाउं

સાત હાથની ડંચી છે અને તિર્હાલોકમાં રહેલી શાશ્વતી પ્રતિમાઈ પાંચસો ધનુષ્યની ડંચી છે.

શ્રીસંઘાચાર જ્ઞાપ્યવૃત્તિમાં જગવાન્ શ્રીધર્મઘોષસૂરીશ્વરજી મહારાજે સ્પષ્ટપથે હલ્લેસ કરેલ છે કે:-

“ હસ્તેહર્મગુલેળં, અહ હદ્દમસેસ સત્તરખળીઓ ।

તિરિહોપ પંચ ધણુસય-સાસયપદિમા પળિવયામિ ॥ ૨૬ ॥ ”

સારાંશ:-હસ્તેષ અંગુલના માનથી સાત હાથની અધોલોકને વિષે યુવનપતિમાં વોરાજમાન તથા હર્ષ લોકમાં વૈમાનિક પ્રેવેચક અને અનુત્તર વિષે રહેલી શ્રીજિનેશ્વર પરમાત્માની શાશ્વતી પ્રતિમાઈને તથા પાંચસો ધનુષના પ્રમાણની તિર્હાલોકમાં વૈતાલ્ય આદિ પર્વતો હપર સિક્કાયતન કુટોમાં રુચકદ્રીપ, કુંચલદ્રીપ અને નંદીશ્વરાદિ દ્વીપોમાં અંજનગિરિ આદિ સ્થાનોમાં વોરાજમાન શાશ્વતી શ્રીજિનપ્રતિમાઈને હું નમસ્કાર કરું.

પ્રૃ-૨૭૭-વાસુદેવો જે શિલા હપાને છે તેનું નામ ‘કોટિશિલા’ શા કારણથી કહેવાય છે ?

હૃ-મગધ દેશમાં દશાર્ણ પર્વતની પાસે હસ્તેષ અંગુલના માપથી એક ધોજન લાંબી એકયોજન પહોળી અને એકયોજન ડંચી એક ગોઠ શિલા છે તે હપર શ્રીશાન્તિનાથસ્વામિના શ્રીચક્રાયુરૂ નામના પ્રથમ ગણધરદેવ અનેક સાધુલંની સાથે અણસણ કરી સિક્કિપદને પામ્યા અને તે મની બત્રીસ પાટ પરંપરા સુધી સંસ્થાતા ક્રોક મુનિવરો મોક્ષપદને પામ્યા. તે પછી શ્રીકુંભુનાથસ્વામિની અઠાવીસ પાટપરંપરાસુધી સંસ્થાતા ક્રોક મુનિવરો એજ શિલાહપર અણસણ કરીને શિવપદ પામ્યા; તેવીજ રીતે શ્રીઅરનાથસ્વામિની ચોવીસ પાટ સુધીના ઘારક્રોક મુનિવરો, શ્રીમલ્લિનાથજગવાન્ની વીસપાટ સુધીનાઢ ક્રોક મહર્ષિલં, શ્રીમુનિ-

सुव्रतस्वामिना त्रण क्रोरु महात्माळं अने एकवीसमा तीर्थपति श्री नमिनाथस्वामीजीना एक क्रोरु महर्षिळं एवी रीते अनेक कोटि महर्षिळं अणसण करी एज शिला उपर सिद्धिपदने पाम्या. ए कारणथी ते शिलानुं नाम ' कोटिशिला ' परुथुं.

श्रीसमयसुंदरजी उपाध्यायजी कृत विशेषशतकमां उद्धेख ठे के:-

“ भरतक्षेत्रमध्यखंडे मगधदेशे दशार्णपर्वतसमीपे उत्सेर्षांगुलनिष्पन्नै-  
कयोजनपृथुलायामा एकयोजनोच्चा वृत्ता केटिशिलानामा एका शिलाऽस्ति ।  
तस्यां श्रीशान्तिनाथादिजिनषट्कतीर्थसिद्धाः अनेक मुनिकोटयो ज्ञेयाः,  
कथमित्याह-प्रथमं श्रीशान्तिनाथस्य चक्रायुधनामा प्रथमगणधरोऽनेकसा-  
धुगणपरिवृत्तः सिद्धः । ततो द्वात्रिंशत्पट्टप्रतिष्ठितपुरुषपरम्परामिः संख्येय-  
मुनिकोटयः सिद्धाः, ततः श्रीकृन्धुनाथतीर्थसम्बन्धिनोऽष्टाविंशतियुगैः संख्ये-  
यमुनिकोटयः सिद्धाः । ततः श्रीभरजिनस्य द्वादश 'कोटयो मुनीनां चतुर्विं-  
शतियुगानि यावत् सिद्धाः । ततः श्रीमल्लिनाथस्य विंशतियुगानि यावत् षट्  
कोटयः सिद्धाः । ततः श्रीमुनिसुव्रतस्य तिस्रः कोटयः सिद्धाः । ततः श्रीनमि-  
तीर्थकरस्य एका मुनिकोटिः सिद्धाः । एषमन्येऽपि बहवः साधवः सिद्धाः तेन  
कारणेन एषा केटिशः सिद्धिभवनात् केटिशिला इत्यभिधीयते ॥ ”

सारांशः-भरतक्षेत्रना मध्यखंडमां मगधदेशमां दशार्ण पर्वतनी  
पासे उत्सेर्षांगुलना मानथी बनेली एक योजन लांबी एक योजन  
पहोळी अने एक योजन उंची गोळ एक कोटिशिला नामनी शिला  
ठे. ते शिला उपर श्रीशांतिनाथ आदि ठ जिनेश्वरदेवोना अनेक कोटि  
साधुळं सिद्ध थयेलाठे. केवी रीते सिद्ध थया तेनुं वर्णन करे ठे. प्रथम  
श्रीशांतिनाथजीना अनेक साधुना गणे परिवरेखा श्री चक्रायुध नामा  
प्रथम गणधर मोक्षे पधार्था, ते पढी बत्रीश पाट मुधी परंपरामां रहेला  
संख्याता क्रोरुमुनिळं सिद्धि पदने पाम्या. ते पढी श्रीकृन्धुनाथ जगवान्-  
ना तीर्थमां अठ्ठावीस पाटपरंपरामां संख्याता क्रोमी मुनिळं सिद्धिपदने  
प्राप्त थया. पढी श्रीश्वरनाथजिनेश्वरना तीर्थमां चौबीश पाटना बार

क्रोकमुनिर्लं सिद्ध्या. पत्नी श्रीमद्विनाथ जगवान्ना वीहा पाट सुधी ठ  
क्रोकमुनिर्लं सिद्धपदने प्राप्त थया. पत्नीश्रीमुनि सुव्रतस्वामिना त्रण  
क्रोकमुनिर्लं मोक्ष पाप्म्या. पत्नी श्रीनमिजिनेश्वरना एक क्रोक मुनिर्लं  
सिद्धिपद वर्था. एवी रीते अन्य पण बहु साधुर्लं मोक्षे गया. एम अनेक  
क्रोक मुनिर्लंना मोक्ष जवाना कारणथी कोटी शिला कहीए ठीए.  
श्रीअजितप्रज्ञसूरिकृतश्रीशांतिनाथचरित्रनी अंतर्मां कहेअ ठे के:-

“ इतोऽस्ति भरतक्षेत्रे, मध्यखंडे सुरार्चितम् ।  
शुधि ख्यातं कोटिशिला-ऽभिषानं तीर्थमुत्तमम् ॥ १६१९ ॥  
विषायानद्यां तत्र, बहुकेवलिसंयुतः ।  
चक्रायुषगणधरः, पुण्यात्मा प्रथमो शिवम् ॥ १६२० ॥  
तस्यां शिलार्थां कालेन, बह्व्यः संयतकोटया ।  
सिद्धाश्चक्रायुषांभिर्भ्यां, यका पूर्वं पवित्रिता ॥ २१ ॥ यदुक्तम् ।  
सिद्धे गणधरे यस्मिं-स्तीर्थे शांतिजिनेशितुः ।  
सिद्धास्तत्र महातीर्थे, संख्याता यतिकोटयः ॥ २२ ॥  
कुन्धोरपि भगवत-स्तीर्थे तत्र शिलातले ।  
साधूनां कोटयः सिद्धाः, संख्याता गतपापकाः ॥ २३ ॥  
धरस्य स्वामिनस्तीर्थे, साधुदादशकोटयः ।  
अष्टप्रकारकर्माणि, क्षपयित्वा शिवं गताः ॥ २४ ॥  
तीर्थे मण्डिजिनेद्रस्य केवलज्ञानधारिणाम् ।  
पञ्च कोटयः प्रासा, निर्वाणं त्रतशालिनाम् ॥ २५ ॥  
मुनिसुव्रतनाथस्य, तीर्थे तीर्थेऽत्र विश्रुते ।  
साधूनां कोटयस्तिष्ठः, संप्रासाः पदमध्ययम् ॥ २६ ॥  
तीर्थे नमिजिनस्यापि, कोटिरेका महात्मनाम् ।  
सिद्धास्तत्रानगाराणां, सुविशुद्धक्रियावताम् ॥ २७ ॥  
एवमन्येऽपि बहुधा, सिद्धा ये तत्र साधवः ।  
कालेन गच्छता तेऽत्र, ग्रंथे न कथिता मया ॥ २८ ॥  
येषां तीर्थकृतां तीर्थे, सिद्धा कोटिरनूतका ।  
तान्येव कथितान्यत्र, सेर्यं कोटिशिला ततः ॥ २९ ॥

चारणभ्रमणैः सिद्धयक्षैर्देवासुरैस्तथा ।

तद्मस्तया वन्द्यते नित्यं, तीर्थं कोटिशिलाभिधम् ॥ १६३० ॥ ”

सारांशः—जरतक्षेत्रना मध्यम खंरुमां देवोथो पूजित पृथ्वीमां प्रसिद्ध कोटिशिला नामनुं उत्तम तीर्थं ठे. त्यां घणा केवलज्ञानी-  
 लनी साथे पवित्र आत्मा श्रीचक्रायुध नामा गणधर महाराजा मो-  
 क्षमां गया ठे, जे शिला प्रथम श्रीचक्रायुध गणधर महाराजना  
 चरणथी पवित्र थयेली ते शिला उपर काले करीने घणा क्रोड सा-  
 धुळं मोक्षने प्राप्त थया ठे. जे तीर्थं उपर श्रीशांतिनाथ जिनेश्वरना  
 गणधरदेव सिद्धि पदने पाम्या ठे. ते महातीर्थं उपर संख्यात क्रोकी  
 मुनिळं सिद्ध थया ठे. ते शिला उपर श्रीकुंथुनाथ जगवान्ना तीर्थमां  
 पापरहित संख्याता क्रोक साधुळं सिद्ध थया ठे. श्रीश्वरनाथ परमात्माना  
 तीर्थमां आठ जातिना कर्मने क्य करी वारक्रोक मुनिळं मोक्षे पधार्यां ठे.  
 श्रीमल्लिजिनेश्वरना तीर्थमां ठ क्रोक केवलज्ञानी महर्षिळं मोक्षने  
 पाम्या ठे. आ प्रसिद्ध तीर्थं उपर श्रीमुनिसुब्रतस्वामिना तीर्थमां  
 ञ्ण क्रोक साधुळं मोक्षने प्राप्त थया ठे, श्रीनामिजिनना तीर्थमां एक  
 क्रोक महात्मा विशुद्ध क्रियावंत साधुळं सिद्ध थया ठे. एवी रीते ते  
 तीर्थं उपर अन्य पण बहु साधुळं जे काले करीने सिद्ध थया ते आ  
 ग्रंथमां में कह्या नथी. जे तीर्थंकरोना तीर्थमां संपूर्ण क्रोकी मुनिळं  
 सिद्ध थया तेज अहीं कह्या ठे. ते कारणथी आ कोटिशिला कहे-  
 वाय ठे. चारण मुनिळं, सिद्ध पुरुषो, यक्षो, देवो अने असुरो ते  
 कोटिशिला नामा तीर्थने चक्रिने नित्य वंदन करे ठे.

श्रीसेनप्रश्नना प्रथम उल्लासमां कहुं ठे केः—

“ वासुदेवोत्पाट्या कोटिशिला शाश्वती अशाश्वती वा सा च कुरु  
 स्थानकेऽस्ति तथा सर्वैर्वासुदेवैः सर्वाप्युत्पाद्यतेऽथैकदेशेन तथा जराणां  
 कोटयोत्पाट्या कोटिशिलेति यथार्थनामाऽन्यथा वेति भक्तोत्तरम्—कोटि-



शिलाऽशाश्वती ज्ञायते गंगासिंधुवैताळ्यादिशाश्वतपदार्थानां मध्ये शास्त्रे तस्या अदर्शनात्तथा सा मगधदेशे दशार्णपर्वतसमीपे चास्तीति तथा सर्वैरपि वासुदेवैः, सर्वाऽप्युत्पाद्यन्ते नत्वेकदेशेन परं प्रथमेन छत्रस्थानं चरमेण च सूमेधतुरंगुलानि यावन्महता कष्टेन जानु यावदानीयते तथा नरार्णां क्रोव्योत्पाद्यत्वेन श्रीशांतिनाथादिजिनपट्टकतीर्थगतानेकमुनिकोटीनां तत्र सिद्धत्वेन च कोटिशिलेत्यभिधीयते इत्यक्षराणि तीर्थकल्पादौ संतीति ।७।'

सारांशः—वासुदेवो जेने उपाने ठे ते कोटिशिला शाश्वती ठे के अशाश्वती ठे ? ते शिला कया ठेकाणे ठे ? शिलाने सर्व वासुदेवो संपूर्ण उपाने ठे के तेना एक भागने उपाने ठे ? तथा क्रोक मनुष्यो मळीने उपाने तेथी कोटिशिला ए नाम यथार्थ ठे के अयथार्थ ? इति प्रश्न अत्र उत्तर—गंगा, सिंधु, वैताळ्य आदि शाश्वता पदार्थोना नामोमां तेनुं नाम न होवाथी अशाश्वती जाणवी. तथा ते मगध देशमां दशार्ण पर्वतनी पासे ठे. तथा सर्व वासुदेवो संपूर्ण उपाने ठे पण एक जागने नहिं. परंतु प्रथम वासुदेव मस्तक उपर ठन्ननी जेम धारण करे ठे. तेन्ना वासुदेव पृथ्वीची चार अंगुल उंची करे घणा कष्टची यावत् ढींचण सुधी उंची करे ठे. तथा क्रोक मनुष्यो मळीने उपानेवा योग्य होवाथी अने श्रीशांतिनाथ आदि ठ जिनेश्वरना तीर्थना अनेक क्रोक मुनिठ तेना उपर सिद्ध थवाथी ते शिलानुं नाम कोटिशिला कहेवाय ठे. एवा अक्षरो श्रीतीर्थकल्पादिकमां ठे.

प्र०—२०७—सुवनपति देवोनां प्रधनो रत्नप्रजा पृथ्वीमां कया स्थानोमां ठे ?

उ०—रत्नप्रजा पृथ्वीनो पिक एक लाख एंसीहजार योजननो ठे. तेमांथी एक हजार योजन उपरना अने एक हजारयोजन नीचेना ठोकी बाकीना एक लाख अगोचेर हजार योजनमां रत्नप्रजा नार-

कीना तेर प्रतरमां त्रीस लाख नरकावासा ठे ते नरकावासानी पासे आजुबाजुए असुरकुमारना आवासो होवानो संजव ठे.

श्रीजगवती सूत्रना तेरमा शतकना ठठा उद्देशामां उल्लेख ठे के:-

“ रयणप्यभाए पुढवीए तीसाए निरयपरिसामंतेसु चोसद्वीए आयावा जाव सहस्सेसु अन्नयरंसि आयावा असुरकुमारावासंसि असुरकुमारदेवत्ताए उववबे-व्याख्या-’ निरयपरिसामंतेसु ’ त्ति नरकपरिपाशतः ‘ चोसद्वीए आयावा ’ असुरकुमारावासेसु ’ त्ति इह आयाव त्ति असुरकुमारविशेषाः ”

सारांशः-त्रीश लाख नरकावासवाळी रत्नप्रजा पृष्ठीने विषे नरकावासनी चारे बाजुए रहेला असुरकुमारना चोसठ लाख आवासो ठ, तेमांथी एक असुर कुमारना आवासमां असुरकुमार देवपणे उत्पन्न थयो.

प्र०-३१०-अजीर्ण केटला प्रकारनां ठे?

उ०-१ ज्ञाननुं अजीर्ण मान, २ तपनुं अजीर्ण क्रोध, ३ क्रियानुं अजीर्ण परनिंदा अने ४ अन्ननुं अजीर्ण विसूचिका आ चार प्रकारनां अजीर्ण ठे. श्रीप्रश्नोत्तरशतकना नामना ग्रंथमां कहेख ठे के:-

“ अजीर्णानि कति विधानि ? उच्यते-अजीर्णानि चतुर्विधानि तद्यथा-अजीर्णं तपसः क्रोधो, ज्ञानाजीर्णमहंकृतिः ।

परतसिः क्रियाजीर्णं-मन्नाजीर्णं विसूचिका ॥ १ ॥ इति । ”

सारांशः-अजीर्ण केटला प्रकारनुं ? उत्तर अजीर्णना चार जेद १ तपनुं अजीर्ण क्रोध, २ ज्ञाननुं अजीर्ण अजिमान, ३ क्रियानुं अजीर्ण इर्षा, ४ जोजननुं अजीर्ण विसूचिका ।

प्र०-३११-श्रीचक्रवर्ती, बलदेव आदि योगी महात्माठनां पण अस्थिठं देवलोकमां देवो पूजे ठे ?

उ०-देवताठं देवलोकमां योगने धरनारा चक्रवर्ती, बलदेव आदि योगी महात्माठनां अस्थिठंने पण श्रीतीर्थकर महाराजनां अस्थिठं-

( १८८ ) पूज्य-आचार्य-श्रीमद्विजयदानसूरीश्वर-विरचित-

नीमाफक जकिथी पूजे ठे. श्रीयोगशास्त्रनी टीकामां कलिकाखसर्वद्व  
जगवान् श्रीहेमचंद्रसूरीश्वरजी महाराजाए कहुं ठे के:-

“ तथाहि तीर्थनाथानां, योगमृच्चक्रवर्तिनाम् ।

देहास्थिसकलस्तोमः, सर्वस्वर्गेषु पूज्यते ॥ १ ॥ ”

सारांशः-श्रीतीर्थकर परमात्मा तथा योगधारी श्रीचक्रवर्ती  
महर्षीठनां शरीरना हारुकादिकनो संपूर्ण समूह सर्व देवलोकमां  
पूजाय' ठे.

प्र०-२१२-कया कया सूत्रो पांचमा आराना अंत सुधी रदेशे ?

उ०-श्रीआवश्यकसूत्र, दशवैकालिकसूत्र, नंदीसूत्र अने श्री-  
अनुयोगद्वारसूत्र पांचमा आराना ठेना सुधी पटले श्रीमहावीरस्वा-  
मिना शासन सुधी विद्यमान् रदेशे.

श्रीतीर्थोद्गाधिपयत्नामां उल्लेख ठे के:-

“ वासाण सहस्तेण य, एकवीसाए इहं भरद्वासे ।

वसवेयालियमत्थो, दुप्पसहजईमि नासिहीति ॥ ५० ॥

इगवीससहस्साई, वासाणं वीरमोक्खगमणाओ ।

अव्वोच्छिर्भं होही, अवस्सगं जाव तित्थं तु ॥ ५२ ॥

इगवीसंसहस्साई, वासाणं वीरमोक्खगमणाआ ।

अणुओगद्वारनंदी, अव्वोच्छिन्नाउ जा तित्थं ॥ ५३ ॥

सारांशः-आ जरतद्वेत्रमा श्रीमहावीरस्वामी परमात्माना मोक्ष-  
गमनधी एकवीसहजार वर्ष पर्यंत १ श्रीदशवैकालिक सूत्र, २ श्री  
आवश्यकसूत्र, ३ श्रीअनुयोगद्वारसूत्र अने ४ श्रीनंदीसूत्रजी अ-  
व्युद्दिनपणे यावत् तीर्थमा वर्त्तता शासन प्रजावक एकावतारी ठेह्वा  
युगप्रधान जगवान् श्रीदुभसहसुरि सुधी विद्यमान रदेशे.

प्र०-२१३-श्रीश्रेणीक महाराजानो जीव आवती चौबीसीमां  
प्रथम तीर्थकर यशे ते वखतना तेमना माता पितातुं नाम शुं ?

उ०-आवती चौबीसीमां प्रथम तीर्थंकर श्रीपद्मनाभस्वामिजी शतदुवार नामना नगरना सुमुची नामना राजानी जडा नामनी राणीना पुत्र तरीके उत्पन्न थशे.

श्रीतीर्थोद्गालियपयन्नामां कहुं ठे. के:-

“ नगरमि सतदुवारे, सुमइरायस्स भारिया भइ ।

सयणिज्जे सुइसुत्ता, चेइससुभिणेइ पेळिहीति ॥ २५ ॥ ”

सारांश:-सतदुवार नगरमां सुमति राजानी जडा राणी सुखमां सुतां थकां चउद स्वमां देखशे.

प्र०-२१४-श्रीतीर्थंकर महाराजाओ दीक्षा अवसरे वार्षिक-दान आपे ठे ते प्रजातकाळथी आरंजी निरंतर केटळा काळ सुधी आपे ठे ?

उ०-श्रीतीर्थंकर महाराजाओ दीक्षा अवसरे एक-वर्ष पर्यंत सूर्योदयथी मध्यान्हकाळ सुधी अर्थात् बे प्रहर सुधी निरंतर दान आपे ठे. श्रीज्ञातासूत्रमां श्रीमल्लीनाथस्वामिना अधिकारमां स्पष्ट-पणे कहेल ठे के:-

“ मल्ली भरहा कळाकळिं जाव मागहओ पायरासो त्ति व्याख्या-  
' जाव मागहओ पायरासो' त्ति मगवदेश संबन्धिनं प्रातराशं-प्रा-भारतिकं  
भोजनकालं याचत् प्रहरद्वयादिकमित्यर्थः ”

सारांश:-श्रीमल्लीनाथ परमात्माए दीक्षा समयमां निल एक करोरु अने आठ लाख सोनेया प्रातःकाळथी आरंजीने मध्यान्ह समय सुधीमां अनाथ आदि याचक जनोने यावत् एक वर्षना प्रणसोने साठ दिवसमां अठासी क्रोरु अने एसीलाख सोनेया आपी दीक्षा अंगीकार करी ठे.

प्र०-२१५-सामायक, पौषधमां भावकोने आशूषण-पहेरवां कश्ये या नहि ?

उ०-सामायक पौषधमां श्रावकोने आचूषण पहरेवां न कल्पे.  
कारण के कुंडकोलिक श्रावके सामायकमां मुद्रिका उतारी अन्यस्थाने  
मूकी ठे. श्रीउपासकदर्शांगना बढ्दा अध्ययनमां स्पष्ट उल्लेख ठे के:-

“ कुंडकोलिण सप्तणोवासए अन्नया कयाइ पुवावरन्हकालसमयंसि  
जेणेव असोगवणिया जेणेव पुढविसिलापहए तेणेव उवागच्छित्ता नामधु-  
एगं च उत्तरिज्जगं च पुढविसिलापहए ठवेइ ”

सारांश:-कुंडकोलिकनामा श्रावके अन्यदा काळे मध्याह्न समये  
ज्यां अशोकवाटिका तेमां ज्यां पृथिवीशिक्षापह ठे त्यां जईने मुद्रिका  
अने उत्तरासणने उतारी पृथिवीशिक्षापह उपर मूक्या.

श्रीप्रथमपंचाशकमां लखेख ठे के:-

“ सामायिकं कुर्बन् मुकुटं कंदले नामधुव्रां चापनयति ”

सारांश:-श्रावक सामायिकने करतो मुकुट कुंडलो अने मुद्रि-  
काने काढी नाखे.

प्र०-३१६-अवधिज्ञानी महात्मा परमाणुने देखे या नहि ?

उ०-कोइक अधो अवधिज्ञानवान् महात्मा परमाणुने जाणे  
पण देखे नहि अने कोइक जाणे पण नहि अने देखे पण नहि. परमा-  
वधिज्ञानी तो परमाणुने जाणे पण खरा अने देखे पण खरा.

श्रीजगवतीजीसूत्रना अठारमा शतकना आठमा उदेशामां  
कहेख ठे के:-

“ उडमत्येणं भंते ! मणूसे परमाणुपोग्गळं किं जाणति पासति उदाहृ न  
जाणति न पासति ? गोयमा । अत्येगतिर जाणति न पासति, अत्येगतिर  
न जाणति न पासति ”

“ अहोद्विपरणं भंते ! मणुस्से परमाणुपोग्गळं जहा उडमत्ये ”

सारांश:-हे जगवन् ! उदास्थ मनुष्य परमाणु पुद्गलने छुं  
जाणे देखे के अथवा न जाणे न देखे ? हे गौतम ! कोइक श्रुतज्ञा-

नथी जाणे पण श्रुतज्ञानने नेत्र न होवाची न देखे. कोष्क न जाणे अने न देखे.

हे जगवन्! अवधिज्ञानी मनुष्य परमाणु पुद्गलने जाणे देखे! उत्तर-जेम ठन्नस्थ कोष्क श्रुतज्ञानी जाणे पण देखे नहीं. कोष्क जाणे पण नहि अने देखे पण नहि.

प्र०-११७-प्रायः घणा मंत्रोनी शरुआतमां 'अँकार' आवे ठे तो 'अँकार' शब्द कया कया स्वरअने व्यंजनना संयोगधी निष्पन्न थाय ठे अने तेनो अर्थ शो थाय ?

उ०-'अ, अ, आ, उ' आ स्वरो अने 'म्' आ व्यंजननो परस्पर योग थवाची 'अँकार' शब्द बनेलो ठे. प्रथम अरिहंतपदनो आथ अक्षर 'अ' बीजा अशरीरी अर्थात् सिद्धपदनो आथ अक्षर 'अ' अने त्रीजा आचार्यपदनो आदि अक्षर 'आ' आ त्रणे स्वरनो योग थवाची 'आ' रूप थाय, तेनी साथे उपाध्यायपदनो आदिनो अक्षर 'उ' मलवाची 'ओ' बने अने 'ओ' नी साथे पांचमा मुनि-पदनो 'म्' आ व्यंजननो योग थवाची अँकार बने ठे. 'अ, अ, आ, उ, म्' आ पांचना योगधी 'अँकार' शब्द बनेलो होवाची तेनो अर्थ पंचपरमेष्ठी थाय ठे अर्थात्, 'अँकार' शब्द 'अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय अने साधु' आ पंचपरमेष्ठिपदनो बोधकठे.

प्र०-११८-ठठा आरामां जरतक्षेत्रमां जन्मेख मनुष्यने सम्य-क्त्व थाय या नहि ?

उ०-ठठा आरामां जरत अने पेरवत क्षेत्रमां जन्मेख कोष्क मनुष्यने सम्यक्त्व थाय. श्रीविचारसारनामना ग्रंथमां श्रीप्रद्युम्नसुरिजी महाराजे कथुं ठेके:-

“ ओसपिणुस्सपिणी, वारस अरगेसु होइ सम्मत्तं । ”

सारांशः—अवसर्पिणी तथा उत्सर्पिणीना वार आरामां सम्यक्त्व होय. श्रीजंबूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्रमां पण कहेल ठे केः—

“ ओसभं धम्मसन्नसम्मत्तपरिमहे । ”

सारांशः—प्राये करीने धर्म संज्ञा तथा सम्यक्त्व वज्जेयी ज्ञष्टो प्राय शब्द कहेवाची सम्यक्त्व कदाचित् संजवे ठे.

प्र०—३१ए—अळश—मसामां जीव होय ?

उ०—अळशमां मनुष्यना जीवयी जुदो अन्य जीव न होय.

श्री हीरसूरीश्वर महाराजे श्रीहीर प्रश्नना त्रीजा प्रकाशमां कहेल ठे केः—

“ तस्स अयसिया ओलंबति तं च वेज्जे अदक्खुं त्ति । भगवतीषोडश शतक तृतीयोद्देशके क्रियाधिकारे अत्र वैद्यस्य का क्रिया ? किं जीवसत्त्व-प्राणातिपातादिका किं वा कार्यकरणरूपा इति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्—‘ तस्स अ-पस्सिभा ओलंबति तं च वेज्जे अदक्खुं ’ एतत्सूत्रे वैद्यस्य या क्रिया सा व्यापारजन्या न तु जीवघातजन्या अर्थासां जीवत्वप्रतिपादकाक्षराणा-मनुपलंभादिति । ”

सारांशः—तस्स अयसिया ओलंबति तं च वेज्जे अदक्खुं त्ति । श्रीभगवती सूत्रना सोखमा शतकना त्रीजा उद्देशामां क्रियाना अ-धिकारमां ठे. अहीं वैद्यने शी क्रिया लागे ? जीवने नाश करवा संबंधी के साधुने नीचे पाठी अळशने उदंनरूप कार्य करवा संबंधी श्ति प्रश्न अत्र उत्तर साधु महात्माने अळश लंबायमान ठे ते वैद्ये देख्या तेथी वैद्ये ते अळश उेदी नाख्या आ सूत्रमां वैद्यने जे क्रिया लागे ते क्रिया अळशमां जीव होवाना अकरो शास्त्रमां न होवाची जीवघातची थयेली नहि पण उेदंनरूप व्यापारची उत्पन्न थयेली समजवी.

प्रश्न—श्रीहीरसूरीश्वरजी महाराज अळशमां जीवनो निषेध करे ठे पण श्रीशीलांकसूरीश्वरजी महाराजे आचारांगजीनी टीकामां जीव कहेल ठे तेनुं केम ? श्रीआचारांग सूत्रना प्रथम अध्ययनना धीजा उद्देशानी टीकामां कहेल ठे केः—

“समानजातीयलतोद्भेदादिकमशोमांसाकुरवच्चेतनाचिन्हमस्त्येव”

सारांशः—मांस अंकुरवाळा अळशनी जेम पोतानी सहश जातीय लतानी उत्पत्ति आदि थवाथी वनस्पतिमां चेतना ( जीव ) नुं चिन्ह अवश्य ठे.

उत्तर—आ पाठमां ‘अळशमां मनुष्यना जीव शिवाय जुदो जीव ठे’ एवा अक्षरो नथी. आ पाठथी तो मनुष्यनो जीव सिद्ध थाय ठे. जुदो जीव होवानी तमने ज्ञातिज थयेली ठे.

जगद्गुरु जगवान् श्रीमद्भिजयहीरसूरीश्वरजी महाराजना वचनमां शंका करवी ए शुं योग्य ठे ?

श्री जगवतीजीनी टीकामां श्री अजयदेवसूरीश्वरजी महाराजे लखेल ठे केः—

“तस्स त्ति-वैधस्य क्रिया व्यापाररूपा सा च शुभाधर्मबुद्ध्या छिन्दानस्य लोभादिना त्वशुभा क्रियते भवति ‘जस्स छिज्झई’ त्ति यस्य साधोरशांसि छियन्ते नो तस्य क्रिया भवति निर्व्यापारत्वात्, किं सर्वथा क्रियाया अभावः ? नैवमत धाह-नस्त्य इत्यादिनेति योज्यं निषेधः सोऽन्यत्रैकस्माद्धर्मान्तरायाद्, धर्मान्तरायलक्षणा क्रिया तस्यापि भवतीति भावः, धर्मान्तरायस्य शुभध्यानविच्छेदादर्शाच्छेदाजुमोदनाद्देति ॥”

ज्ञावार्थः—धर्मबुद्धिथी साधुना अळशने उदैनार वैद्यने उदवाना व्यापाररूप शुभ क्रिया लागे. लोभादिकथी अळशना उदैनार वैद्यने तो अशुभ क्रियाज लागे. जे साधुना अळश ठेया तेमने तो व्यापाररहित होवथी धर्म अंतराय शिवाय अन्य क्रिया न लागे.



शुद्ध ध्याननो, विच्छेद यवाथी अथवा अलक्षणा वेदनना अनुमो-  
दनथी. धर्म अंतराय क्रिया लागे.

जो अलक्षणा जीव होत तो सूत्रकार श्रीगणधरदेवे तथा  
टीकाकार महर्षिप जेम साधुने अलक्ष वेदनना अनुमोदनथी धर्म-  
अंतराय रूप क्रिया कही तेम प्राणातिपातनी क्रिया पण केम न  
कही माटे अलक्षणा जीव कहेवो ते अनुचित ठे अने तेथीज  
अलक्षणा जीव कहेनार जमित थयेल ठे. ए तदन स्पष्ट ठे.

श्रीसमयसुंदरजी उपाध्याये विशेषसंग्रहमां खखेल ठे के:-

“मसंक्रुरो इव समाण-जाइ रुवंक्रुरोवलंभाभो ।

पृथ्वीविद्भुमलवणो-बलादभो इति सच्चित्ता ॥ ४५ ॥ (६४५)

“व्याख्या-मांसांकुर इव मषादिः समानजातीयरूपांकुरोपलंभात् पृ-  
थिवीविद्भुमलवणोपलादयः पार्थिवा-भवन्ति सच्चित्ता इति प्रयोगगाथार्थः  
[‘प्रयोगस्तु संस्कृत्य कर्त्तव्य इति] [‘प्रयोगस्त्वेवं द्रष्टव्यः चेतना विद्भुमलव-  
णोपलादयः स्वाश्रयस्थाः पृथिवीविकाराः समानजातीयांकुरोत्पत्तिमत्त्वात्  
अशोविकारांकुरवत् ] इत्यादि श्रीपंचवस्तुकसूत्रवृत्तौ अत्र अशोविकारस्य  
जीवत्वप्रमकारण विशेषः ॥ ७४ ॥ ”

सारांशः-मांसना अंकुरावाळा मषादिनी जेम सदृश जातिना  
अंकुरानी उत्पत्ति होवाथी पृथिवी, परवाळां, लवण, पाषाण आदि  
सच्चित्त पृथिवीना जेदो ठे इति प्रयोगसुचक गाथानो अर्थ प्रयोग  
संस्कार करीने करवो. प्रयोग आ प्रमाणे जाणवो.-सदृश जातिना  
अंकुरोनी उत्पत्तिवाळा होवाथी स्वस्थानमां रहेला परवाळां, विद्भुम,  
लवण पाषाणादिको पृथिवीना विकारो जीववाळा ठे. इत्यादि श्री  
पंचवस्तुसूत्रवृत्तिमां कथुं ठे. अही अलक्षणा विकारने जीवना प्रम  
करवो विशेष ठे. ॥ ७४ ॥

[१] प्रथमा कौडसमां रहेछो पाठ विशेषसंग्रहमां नथी. [२] वीजा कौडसमां  
रहेछो पाठ पंचवस्तुनी प्रथमां नथी.

प्र०-२२०-श्रीआवश्यकसूत्रनी रचना श्रीगणधरदेवनीज करेली ठे या तेना रचयिता कोइ अन्य स्वविरमहर्षि ठे ?

उ०-श्रीआवश्यकसूत्रना रचयिता श्रीगणधरदेवज ठे.

श्रीसेनप्रश्नना त्रीजा उद्धासमां लखेल ठे के:-

“षडावश्यकमूलसूत्राणि गणधरकृतान्यन्यकृतानि वेति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्-  
षडावश्यकमूलसूत्राणि गणधरकृतानीति संभाव्यते यतो वृंदाकृतौ सि-  
द्धांगं बुद्धांगमित्यस्याद्यास्तिहो गाथा गणधरकृता इत्युक्तमस्ति”

सारांश:-श्रीषडावश्यकमूलसूत्रो श्रीगणधरदेवनां करेलां ठे के  
अन्यना करेलां ? इति प्रश्न अत्र उत्तर-श्रीवृंदाकृतिसिद्धांगं  
बुद्धांगंनी आद्यनी त्रण गाथाश्चो श्रीगणधरदेवनी रचेलीं एम कहेल  
होवाथी श्रीषडावश्यकमूलसूत्रो श्रीगणधरदेवनां करेलां सचवे ठे.

उपरना पाठमां श्रीसेनसूरीश्वरजी महाराजे तपगच्छनायक  
प्रातःस्मरणीय परमपूज्य श्रीदेवेंद्रसूरीश्वरजी महाराजना वचनने  
अनुसारे आवश्यकसूत्र श्रीगणधरदेवतुं रचेलुं कहेल ठे.

प्रश्न-श्रीवासोत्तक प्रकरणमां प्रथम विचारमांज श्रीआवश्यक-  
सूत्रना कर्ता जगवान् श्रीजडबाहुस्वामिजी महाराज ठे एम स्पष्ट  
कहेल ठे जूढ ते पाठ:-

“आवश्यककादयो ग्रंथाः श्रीमद्रवाहादिभिरेव कृता नान्यैरित्यादिपरं-  
परावत्संविन्नपरंपरागतं सर्वं प्रमाणितव्यम्”

सारांश:-श्रीआवश्यककादि ग्रंथो श्रीजडबाहुस्वामी आदि कोए-  
ज करेलां ठे अन्योए नहि ए परंपरानी जेम संविन्न परंपरागत सने  
प्रमाण करवुं.

आ प्रमाणे स्पष्ट उल्लेख उता आवश्यकनां मूलं सूत्रो श्री  
गणधरदेवोपेज रचेलो ठे एवो आग्रह शो ?

उत्तर-आ तमारुं कथन अज्ञानता सूचक ठे. क्षोगस्त तथा

आवश्यक सूत्र श्रीजडबाहुस्वामिजीनुं करेल कहेवाची श्रीआवश्यक निर्युक्तिज समजवी, पण मूळ आवश्यक सूत्र नहीं.

श्री आचारांग सूत्रना बीजा अध्ययनना प्रथम उद्देशामां स्पष्ट-पणे लखेल ठे के:-

“ आवश्यकान्तर्भूतचतुर्विंशतिस्तवस्वारातीयकालभाविना भद्रबाहु-स्वामिनाऽकारि, ततश्चायुक्तः पूर्वकालभाविन्याचारांगे व्याख्यायमाने पश्चा-त्कालभाविना चतुषशतिस्तवेनातिदेश इति कश्चित् सुकुमारमतिः, भद्राह-नेष दोषो यतो भद्रबाहुस्वामिनाऽयमतिदेशोऽभ्यध्यायि स च पूर्व-मावश्यकनिर्युक्ति विषय पश्चादाचारांगनिर्युक्त चक्रे ”

सारांशः-आवश्यकमां रहेल खोगस्त तो श्रीगणधरदेव महा-राजनी पठी थयेला श्रीजडबाहुस्वामी महाराजे करेल ठे तेथी पूर्व काळमां वनेल आचारांगनी व्याख्या न करतां पश्चात् काळमां थयेल खोगस्तनी जखामण करवी अयोग्य ठे एम कोई वाळबुद्धि प्रश्न करे ठे अत्र उत्तर-श्रीजडबाहुस्वामिण् निर्युक्तिनी जखामण आपेली ठे तेथी दोष नहीं. श्रीजडबाहुस्वामी महाराजे प्रथम आवश्यक नि-र्युक्ति रची पश्चात् आचारांगनी निर्युक्ति रची ठे. आ उत्तरना पाठमां श्रीजडबाहुस्वामिण् आवश्यक नहि पण आवश्यकनी निर्युक्ति रची ठे.

श्रीसेनप्रश्नना बीजा उल्लासमां पण लखेल ठे के:-

“ आवश्यकान्तर्भूतचतुर्विंशतिस्तवस्वारातीयकालभाविना श्रीभद्रबाहु-स्वामिनाऽकारोलाचारांगवृत्तौ द्वितीयाध्ययनस्यादौ तदत्र किमिदमेव सूत्रं भद्रबाहुनाऽकारि सर्वाणि वाऽऽवश्यकसूत्राणि कृतान्युत पूर्वं गणधरैः कृतानीति किं तत्प्रसंगमिति ? प्रश्नोऽत्रोत्तरम्-आचारांगादिकर्मगप्रविष्टं गणध-रमृद्धिः कृतमावश्यकविकर्मनगप्रविष्टमगदेशोपजोवनेन श्रुतस्यधिरैः कृत-मिति विचारासूतसंग्रहमावश्यककृतव्यायजुसारेण ज्ञायते तेन भद्रबाहु-स्वामिनाऽऽवश्यकान्तर्भूतचतुर्विंशतिस्तवरचनमपरावश्यकरचनं च निर्यु-क्तिरूपतया कृतमिति भावार्थः श्रीआचारांगवृत्तौ तत्रैवाधिकारेऽस्तीति बोध्यमिति ”

सारांशः—श्रीगणधरदेवनी पढी थयेला श्रीज्ञानबाहुस्वामिजी महाराजे श्रीआवश्यक सूत्रमां लोगस्सनी रचना करी ठे. एम श्रीआचारांगसूत्रना बीजा अध्ययननी आथमां टीकामां कहेल ठे तो शुं लोगस्सज श्रीज्ञानबाहुस्वामिजी महाराजे रचेल के संपूर्ण आवश्यक रच्युं ठे? के प्रथम श्रीगणधर महाराजे रच्युं ठे सत्य शुं ठे इति प्रश्न? अत्र उत्तर—श्रीआचारांगादि अंगप्रविष्टसूत्रो श्रीगणधरदेवे रच्यां अने अनंग प्रविष्ट आवश्यकदि श्रीस्थविर महाराजे रच्यां इति अमृतसंग्रह अने आवश्यकवृत्त्यादिने अनुसारे करीने जणाय ठे. ते हेतुधी आवश्यकमां रहेल लोगस्स तथा अन्य अध्ययनरूप श्रीआवश्यकनिर्युक्तिरूपे रचना श्रीज्ञानबाहुस्वामिजीप करी ठे एवो जावार्थ श्रीआचारांगनी टीकामां तेज अधिकारमां ठे.

उपरना पाठमां श्रीसेनसूरिजी महाराजे स्पष्ट खुलासो करेल ठे के श्रीआवश्यकसूत्र मूलरूपे श्रीगणधरदेवेज रचेल ठे.

प्रश्न—आवश्यक सूत्र गणधरदेवनुंज करेलुं ठे तो अनंगप्रविष्ट श्री आवश्यकदिक स्थविरकृत एम स्थान स्थानमां पाठो ठे तेने माटे शुं समजवुं ?

श्रीविशेषआवश्यकमां अंगप्रविष्ट अने अंगब्राह्मणा लक्षणमां स्पष्टपणे लखेल ठे के:-

“ गणधरा गौतमस्वाम्यादयस्तत्कृतं श्रुतं ब्राह्मणरूपमङ्गप्रविष्टं स्थविरास्तु श्रीमन्नबाहुस्वाम्यादयस्तत्कृतं श्रुतमावश्यकनिर्युक्त्यादिकमनंगप्रविष्टमगवाप्तव्यते ”

सारांशः—श्रीगौतमस्वामिजी आदि गणधरदेवोप करेलुं वार अंगरूप श्रुत ते अंग प्रविष्ट कहेवाय ठे अने श्रीज्ञानबाहुस्वामिजी आदिस्थविरोप करेलुं श्रुत श्रीआवश्यकनिर्युक्ति आदि अनंगप्रविष्ट

अंगवाह्यं कहेवांचं ठे. आं पाठथी स्पष्ट समजतुं के जे जे ग्रंथोमां आवश्यकसूत्र श्रीजगद्वाहुस्वामिजीनुं करेलुं अथवा अंगवाह्य-अनंग प्रविष्ट श्रीआवश्यकदि श्रीस्थविरमहर्षिनां रचेलं आ सर्व स्थानमां श्रीआवश्यकनिर्युक्ति समजवी पण मूळ आवश्यकसूत्र नाहे; मूल आवश्यकसूत्र तो श्रीगणधरदेवेज रचेल ठे अन्यथा खुद श्रीगणधरदेवो अने अन्य साधु, साध्वी, श्रावक अने श्राविका विगेरे आवश्यक केवी रीते करी शके ? शुं तेठं प्रतिक्रमण नहोता करता ? करता हता तो ते कोनुं रचेलुं ? अने जो श्रीगणधरदेवना समयमां आवश्यकसूत्र हतुं तो पवी श्रीजगद्वाहुस्वामिजीं नवीन शा कारणथी रचुं ?

जगवान् श्रीमन्महावीरस्वामिजी महाराजना समयमां आवश्यकसूत्र विद्यमान हतुं. श्रीजगवतीसूत्रना बीजा शतकना पहेला उद्देशांमां खेलेल ठे के:-

“ तदणं से संखप अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स तहाकूवाणं येराण अंतिपं सामाहयमाहयाइं एकारस्स अंगाइं अहिज्जिता ”

सारांश:-भ्रमणजगवान् श्रीमहावीरस्वामिजीना खंधक नामना महर्षिप गुणोप करीने विशिष्ट एवा स्थविरमहर्षिठं पासे सामाहिक आदि शब्दथी अध्ययनरूप श्रीआवश्यक सूत्र अने अगीयार अंगोनुं अध्ययन कथुं.

श्रीज्ञातासूत्रना प्रथम अध्ययनमां खेलेल ठे के:-

“ समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी-एवं खलु गोयमा ! मम अंतेवासीं मेहे नामं अणगारे पणतिभइप जाव विणएणं तहाकूवाणं येराणं अंतिपं सामाहयमाहयाइं एकारसअंगाइं अहिज्जइ ”

सारांश:-भ्रमण जगवान् श्रीमहावीरस्वामिजी जगवान् श्री-गौतमस्वामिजीने कहे ठे के हे गौतम ! अकृतिजडक यावत् वि-

नित मेघकुमारनामा मारा शिष्ये गुणोए करीने विशिष्ट एवा स्थविर-  
महाराजनी पासे सामाश्क आदि अगीयार अंग सूत्रोतुं अध्ययन कर्यु.  
श्रीविपाकसूत्रना सुखविपाक नामा प्रथमअध्ययनमां लखेख ठे के:-

“ से सुवाहृभणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स तहाख्खाणं ये-  
राणं अंतिणं सामाइयमाइयाइं एकारस अंगाइ अहिज्जइ ”

सारांश:-ते सुवाहुकुमार साधुए श्रमणजगवान् श्रीमहावीरस्वा-  
मिजीना स्थविरमहर्षिं महाराजनी पासे सामाश्क आदि अगीयार  
अंगसूत्रोतुं अध्ययन कर्यु.

श्रीआवश्यकसूत्रनी रचना श्रीगणधरदेवे जो नथी करी तो  
श्रीजगवतीजीमां, श्रीज्ञानाताजीमां अने श्रीविपाकसूत्रमां प्रजुअभिहा-  
वीरस्वामिजीनी पासेज दीक्षित थयेला श्रीस्कंधकमुनिजी, श्रीमेघ-  
कुमारजी अने श्रीसुवाहुकुमार विगेरे महर्षिठने सामाश्कआदि अ-  
गीयार अंगना पाठी कहा ठे तो ते सामायक आदि शब्दथी चतु-  
विंशतिस्तवआदि ठअध्ययनो तेठ क्यांथी जण्णा ? आथी सिद्ध थाय ठे  
के श्रीआवश्यकसूत्रना रचयिता अन्य कोइ स्थविरमहर्षि-नहि परंतु  
साक्षात् गणधरदेवज ठे. माटेज आजकालना त्रमित लेखकोना ल-  
खाणो उपर आधार राखी अरूळ्ळु आत्माठने त्रमित यत्नाने एक  
पण कारण नथी.

प्र०-२५२-नवकारवालीना मणका एकसोने आठ ( १०७ ), ज  
राखवा पण न्यून या अधिक न राखवा एतुं कारण थुं ?

उ०-श्रीजिनागममां श्रीअरिहंतजगवान्ना बार गुण, श्रीसिद्ध-  
जगवान्ना आठ गुण, श्रीआचार्यजगवान्ना उन्नीस गुण, श्रीउपा-  
ध्यायजगवान्ना पचीस गुण अने श्रीसाधुमहात्माना सत्तावीस गुण,  
आ प्रमाणे पंचपरमेष्ठिना एकसो आठ गुण कहेला ठे एटले नवकार-

वालीमांते एकसोने श्याठ गुणोनी स्थापनारूपे एकसो ने श्याठ मणका राखवामां आवे ठे. जेश्यो अरूपी गुणोनी स्थापना माने अने प्रभुनी स्थापना न माने तेश्योने केवा बुद्धिमान् समजवा ?

प्र०-३३३-तरपणीआदिमां दोरो नाखवानुं विधान कोइ शा-  
स्त्रमां ठे या नहि ?

उ०-गोचरीमां चादर ओढवी, तुंबका अने तरपणीना मुखमां दोरो नाखवो विगेरे जीतव्यवहार ठे. श्रीधर्मरत्नप्रकरणमां कह्युं ठे के-

“ कपर्ण पावरणं, अगोयरचाड झोलियाभिक्षा ।

ओषग्गद्विय कडाहय, तुंबयसुइदाण दोराई ॥ ८२ ॥ ”

सारांशः-गोचरी जतां कपर्णानुं पांगरवुं-ओढवुं, चोळपट्टानो फेरफार, कोळीनी बे गांठो बांधी भिक्षाप-वहोरवा जवुं, कटाहक अने तुंबकाना मुखे दोरो बांधवो आदि औपग्राहिक उपकरणो रा-  
खवां ए आचरणा ठे.

प्र०-३३३-वर्तमान अवसर्पिणी कालमां रुद्रो केटखा घया  
ठे, तेना नामो अने ते कोना कोना शासनमां थया ?

उ०-प्रथम तीर्थपति श्रीऋषभदेवमहाराजना शासनमां १ श्री-  
मावळी नामनो प्रथम रुद्र थयेल ठे, श्रीअजितनाथ परमात्माना शास-  
नमां २ बीजो जितशत्रु रुद्र, श्रीसुविधिनाथजीना शासनमां ३ जड,  
नामारुद्र, श्रीशीतलनाथजीना तीर्थमां ४ विश्वाह्वलरुद्र, श्रीश्रेयांसनाथ-  
जीना शासनमां ५ सुप्रतिष्ठ रुद्र, श्रीवासुपुत्रना तीर्थमां ६ अचल  
रुद्र, श्रीविमलनाथजीना तीर्थमां ७ पुंररीकनामा रुद्र, श्रीअनंतनाथ-  
स्वामिना तीर्थमां ८ अजितधर रुद्र, श्रीधर्मनाथस्वामिना तीर्थमां  
९ अजितनाथ रुद्र, श्रीशांतिनाथस्वामिना तीर्थमां १० पेढाळ रुद्र,

श्रीमहावीरपरमात्माना शासनमा अगीयारमो सत्यकीसुतनामा रुद्र-  
आ प्रमाणे वर्तमान चोवीशीमा अगीयार रुद्रो थया ठे.

श्रीविचारसारनामा प्रकरणमा लखेल ठे के:-

“ भीमावलि जियसत्तू, भवो विस्साहलो य सुपहद्वो ।  
अचलो य पुंइरीओ अजियधरो अजियनाहो य ॥ ४७३ ॥  
पेढालु निचय दसमो, एक्कारसमो य सन्चई सुउत्ति ।  
एए रुदं नामा, एक्कारस हुंति अंगधरा ॥ ४७४ ॥  
भीमावली य उसमे, जियसत्तू होइ अजियतित्थमि ।  
सुविहाईसुं रुदा, पेढालो संति परंतो ॥ ४७५ ॥  
सन्चइसुओ य रुदो, घोघवो बद्धमाणतित्थंमि ।  
एए रुदा सन्वे, भणिया दसमंमि पुव्वंमि ॥ ४७६ ॥

सारांश:- १ ज्रीमावली, २ जितशत्रु, ३ ज्रड, ४ विश्वाहल, ५ सुप्र-  
तिष्ठ, ६ अचल, ७ पुंकरिक, ८ अजितधर, ९ अजितनाथ दशमो पेढाल,  
अने अगीयारमो सत्यकीपुत्र. अंगविधाना धारणहार ए अगीयार  
रुद्रो थया ठे. श्रीऋषभदेवजीना तीर्थमां ज्रीमावलीनामा, श्रीअजि-  
तनाथजीना तीर्थमां जितशत्रुनामा, श्रीसुविधिनाथस्वामिथी श्रीशां-  
तिनाथजी महाराज सुधी आठ परमात्माना शासनमां अनुक्रमे आठ  
रुद्रो थया. श्रीवर्द्धमानस्वामिना तीर्थमां डेह्लो अगीयारमो सत्यकी-  
पुत्र नामनो रुद्र थयो. ए सर्व रुद्रो दशमा पूर्वमां कहेला ठे.

प्र०-३३४-श्रीमन्महावीरस्वामी परमात्मा विचरता हुता ते  
कालमां कुत्रिकापणो कया कया नगरमां हुती ?

उ०-हान्त्रिय कुंक्यामनगर, वीतजयपत्तननगर, उज्जयिनी, राज-  
पुही, इस्तिशिर्षक आदि घणी नगरीलमां कुत्रिकापणो हुती एम् श्री-  
जगवतीसूत्र तथा श्रीबृहत्कल्पजाप्यादिना पाठथी सिद्ध थाय ठे. श्री



जगवतीसूत्रना नवमा शतकना तेत्रीसमा उद्देशार्मा तथा तेरमा श-  
तकना ठाठा उद्देशार्मा लखेळ ते के-

“ जमालिस्स कश्चियकुमारस्स पिया कोट्टुवियपुरिसे सदावेह स-  
दावेत्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिय सिरिघरामो तिञ्चि सय-  
सहस्साई गहाय दो सयसहस्सेहिं कुत्तियावणाओ रयहरणं च पडिगाई  
च भायेह सयसहस्सेणं कासवगं च सदावेह. ”

“ तप जं से उदायणे राया केसिं रायं एवं वयासी-इच्छामिणं देवा-  
प्पिया ! कुत्तियावणाओ ”

सारांश-जमालि नामा क्षत्रिय कुमारना पिताय कौटुंबिकपुरु-  
षोने बोसावीने एम कहुं के हे देवताना प्यारा जंकरमांथीत्रण लाख  
लह बे लाखना कुत्रिकापणथी रजोहरण अने पातरां लावो अने  
एक लाखे इजामने बोसावो.

ते पठी ते उदायन राजाय केशी राजाने कहुं के हे देवताना  
प्यारा कुत्रिकापणथी रजोहरण अने पातरानी इहा ठे.

श्रीबृहत्कल्पनी जाप्यमां लखेळ ते के-

“ पळोए वरसीहे, नव उज्जणीय कुत्तिया आसी ।

भरुमच्छ वणियस्सदह, च्यदमसयसहस्सेणं ॥ ७१ ॥

कम्ममि अदिअंते, उहो मारेति सो य तं चित्तुं ।

भरुमच्छागम वावार-दाण खिण्यं च सो कुणति ॥ ७२ ॥

भीएण संभवरणं, चहुत्तरं जा न देमि वावारं ।

निखित्तन्तलागं, आसेण ज पेहसी जाव ॥ ७३ ॥

एमेव तौसलीय, इसिवालो वाणमंतरो तथ ।

णिजित्तइसितलागे, रायगिहे साखिभइस्स ॥ ७४ ॥

सारांश-बंकरप्रयोत नामा राजा राज्य करतो हतो ते अथसरे  
उज्जयिनी नामा नगरीमां नव कुत्रिकापणो हती. एकदा कालमां जूतनी  
अद्राथी रहित जरुवनगरना रहेवासी वाणिषाय उज्जयिनी नगरीमां

कुत्रिकापणे जडने चूतनी मागणी करी कुत्रिकापणना स्वामी वाणि-  
 आण्ड विचार कर्यो आ कोडक ठग मने ठगवाने आवेल ठे. तो बहु  
 मूस्य कही निषेध करुं एम विचारी एक लाख रुपीया कक्षा तेथी ते  
 वाणिउं लाख रुपीया आणवाने तैयार थयो. एटले डुकानदारे अठमनो  
 तप करी व्यंतरदेवतुं आराधन करी सर्व हकीकत कही, देवे कडुं  
 खुशीथी आप अने कहेजेके चूतने काम तारे आपवुं पडशे जो काम  
 नहि आपे तो भूत रोषायमान थडने तने मारी नाखशे. ते वाणियाए ते  
 वातनी कबुलात करी चूतने लडने जरुच गयो पडी जे काम वाणिउं  
 आपे ते कामने चूत जलदीथी करी आपे. हवे वाणिश्रानी पासे काम  
 न होवाथी मारवाना जयथी एक स्थंज रोपावी कडुं के बीजुं काम  
 ज्यां सुधी न वतातुं त्यां सुधी आ स्थंजा उपर चड अने उत्तर आ  
 प्रमाणे कहेवाथी चूते कडुं हे शेठीआ हुं हायों तमे जीत्या हवे तेनी  
 निशानी करी आपुं. तमे घोना उपर बेसीने पाठळ जोया विना ज्यां  
 सुधी जशो तेटली जग्यामां तलाव थशे आ प्रमाणे चूतना कहेवाथी  
 वाणिउं घोनेश्वर थड बार योजन सुधी गयो तेथी बार योजननुं  
 जरुचनी नजीक भूत तलाव थयुं. आज प्रमाणे तोशला नाम नगरीना  
 वाणिआण्ड पण ईसिपाल नामा व्यंतरने वश करी ईसिपाल नामनुं  
 सरोवर कराव्युं. राजएही नगरीमां श्रीशाखिजड महाराजनी दीक्षा  
 समय एक लाख रुपीया आपी उपकरणो कुत्रिकापणथी अंगीकार कर्यो.  
 श्रीहस्तिशिवक आदि नगरीउंमां श्रीसुबाहुकुमार आदिनी दीक्षामां  
 कुत्रिकापणोथी दीक्षानां उपकरणो अंगीकार कर्यो. इत्यादि वर्णनथी  
 बीजी घणी नगरीउंमां श्रीमहावीर परमात्माना समयमां कुत्रिका-  
 पणो हती.

प्र०-३३५ वर्तमान चोवीसीमां थयेला बार चक्रवर्ती, नव वासुदेवो, व प्रतिवासुदेवो अने नव बलदेवो कया कया तीर्थकर महाराजना समयमां थया अने तेळ कइ गतिमां गया ?

उ०-बार चक्रवर्तिळ पैकी पहेला श्रीजरतचक्रवर्ती प्रथम तीर्थपति श्रीश्रवचदेवस्वामिना समयमां थया, बीजा श्रीसगर नामना चक्रवर्ती श्रीअजितनाथस्वामिजीना समयमां थया, त्रीजा श्रीमधवा नामना चक्रवर्ती अने चोथा श्रीसनत्कुमार चक्रवर्ती पंदरमा तीर्थपति श्रीधर्मनाथस्वामी अने सोळमा श्रीशान्तिनाथस्वामिजीना आंतर समयमां थया, पांचमा, षड्हा अने सातमा चक्रवर्ती सोळमा, सत्तरमा अने अठारमा श्रीतीर्थकर देवोज थया अर्थात् सोळमा श्रीशान्तिनाथस्वामी, सत्तरमा श्रीकुंभुनाथस्वामी अने अठारमा श्रीअरनाथपरमात्मा पांचमा, षड्हा अने सातमा चक्रवर्ती थया, आठमा श्रीसुचूमचक्रवर्ती, श्रीअरनाथस्वामी तथा उगणीसमा तीर्थपति श्रीमद्धिनाथस्वामिना आंतर समयमां थया, नवमा श्रीपद्मचक्रवर्ती अने दशमा श्रीहरिवेण चक्रवर्ती वीसमा तीर्थपति श्रीमुनिसुव्रतस्वामी अने एकवीसमा तीर्थपति श्रीनमिनाथस्वामिना आंतरसमयमां थया अने बारमा श्रीब्रह्मदत्त चक्रवर्ती षावीसमा श्रीनेमनाथस्वामी अने त्रेवीसमा श्रीपार्श्वनाथस्वामिना आंतरसमयमां थया. आ बार चक्रवर्तीमहापुरुषो काश्यपगोत्रमां थयेला ठे. सर्वना शरीरनो वर्ष सुवर्ण समान ठे.

आ बार चक्रवर्तिळ पैकी त्रीजा श्रीमधवा नामना अने चोथा श्रीसनत्कुमार नामना चक्रवर्ती महापुरुषो षट्खंरुना साम्राज्यनो परित्याग करी चारित्रनुं पालन करी त्रीजा देव लोकमां गया, आठमा श्रीसुचूमचक्रवर्ती अने बारमा श्रीब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जीदगी-

पर्यंत राज्यमांज आसक्त रहने रौद्रध्यानना प्रतापे सातमी नरकना अधिकारी थया अने बाकीना आठ चक्रवर्तीं परम शुद्ध संयमना उपासक बनी केवलज्ञानादिक उपार्जन करी सिद्धिपदने पामी अजरामर अने अविचल सुखना जोक्ता बऱ्या.

नव वासुदेवो पैकी पहिला श्रीत्रिपृष्ठ नामना वासुदेव अगी-चारमा तीर्थपति श्रीश्रेयांसनाथस्वामिना समयमां थया, बीजा श्रीद्विपृष्ठ नामना वासुदेव बारमा तीर्थपति श्रीवासुपूज्यस्वामिना समयमां थया, त्रीजा श्रीस्वयंभू नामना वासुदेव तेरमा श्रीविमलनाथस्वामिना वखतमां थया, चौथा श्रीपुरुषोत्तम नामना वासुदेव चौदमा तीर्थपति श्रीअनंतनाथस्वामीना समयमां थया, पांचमा श्रीपुरुषसिंह नामना वासुदेव पंदरमा तीर्थपति श्रीधर्मनाथस्वामिना शासनमां थया, षष्ठा श्रीपुरुषपुंडरिक नामना वासुदेव अने सातमा श्रीदत्त नामना वासुदेव श्रीअरनाथस्वामी तथा श्रीमल्लिनाथस्वामिना आंतरसमयमा थया, आठमा श्रीलक्ष्मण नामना वासुदेव श्रीमुनिसुव्रतस्वामी तथा श्रीनमिनाथस्वामिना आंतरसमयमा थया अने नवमा श्रीकृष्ण नामना वासुदेव बावीसमा श्रीनेमनाथस्वामिना समयमां थया. आ नव वासुदेव महापुरुषोमां आठमा श्रीलक्ष्मणजी काश्यपगोत्रमां अने बाकीना आठ वासुदेवो श्रीगौतमगोत्रमां थया.

पहिला श्रीत्रिपृष्ठ वासुदेव सातमी नरके गया, बीजा श्रीद्विपृष्ठ नामना त्रीजा श्रीस्वयंभू नामना, चौथा श्रीपुरुषोत्तम नामना पांचमा श्रीपुरुषसिंहनामा अने षष्ठा श्रीपुंरुकि नामा आ पांचे वासुदेवो षष्ठी नरके गया, सातमा श्रीदत्त नामना वासु-

देव पांचमा नरके गया आठमा श्रीब्रह्मण नामना वासुदेव चोथी नरकमां अने नवमा श्रीकृष्ण नामना वासुदेव त्रीजी नरकमां गया.

आ नव वासुदेवोना मोटा जाइउं नव ब्रह्मदेव थया तेठमां प्रथम ब्रह्मदेवतुं नाम श्रीब्रह्म, बीजातुं नाम श्रीविजय, त्रीजातुं नाम श्रीभद्र, चोथतुं नाम श्रीसुप्रभ, पांचमातुं नाम श्रीसुदर्शन, षष्ठानुं नाम श्रीआनंद, सातमानुं नाम श्रीनंदन, आठमानुं नाम श्रीपद्म [रामचंद्र] अने नवमानुं नाम श्रीराम [ब्रह्मदेवजी] आ नवे ब्रह्मदेव महापुरुषो वासुदेवोना वक्रिलबंधुठं होवाथी जे समय श्रीवासुदेवोना तेज समय एमनो ए सहज समजी शकाय तेवी इकीकत ठे.

आ नव ब्रह्मदेवो पैकी नवमा रामनामना ब्रह्मदेवजी पांचमा देवलोके गया ठे अने बाकीना आठ ब्रह्मदेव महर्षिठं परमशुद्ध-संयमनुं पालन करी केवलज्ञान उपार्जन करी सिद्धिसुखने पास्या ठे.

आ संपूर्ण वर्षान कलिकाखसर्वज्ञ जगवान् श्रीहेचंद्रसूरी-श्वरजी महाराजाय स्वरचित त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रना प्रथम पर्वना षष्ठा सर्गमां स्पष्टरूपे लखेल ठे.

पहेला-अश्वधीव, २ तारक, ३ मेरक, ४ मधुकैठज, ५ निशुंज, ६ बली, ७ पद्मादजी, ८ रावण, ९ जरासिंधु आ नव वासुदेवना शत्रुठं प्रतिवासुदेवो अनुक्रमे थया ठे अने नवे नरक गतिमां गया ठे.

प्र०-२२६-श्रीमहानिशीथसूत्रना योग जे साधु मुनिराजे करेख ठे ते साधु पोते नहि बहन करेखा सुयगढांग आदि सूत्रना योग बीजाने करावी शके ?

उ० जे साधु मुनिराजे जे सूत्रना योग पोते बहन करेख नथी ते सूत्रना योग बीजाने करावी न शके.

श्रीतेनप्रश्नना प्रीजा उद्धासमां लखेल डे के:-

“येन साधुना ये योगा न व्युदास्तेन तद्योगानां प्रवेशोत्तारणं कार्यते नवेति प्रश्नोऽप्रोत्तरम्-मुख्यवृत्त्या येन ये योगा व्युदास्तेन तेषामेव प्रवेशोत्तारणादिकं विधीयते, तदभावे तु नृण्युयोगद्वारयोगवाहिना सर्वेव्यव्युद्योगेषु प्रवेशस्तेभ्यो निर्गमनं च कार्यते तयोः क्रियायाः असंबद्धत्वादिति परंपराप्यस्ति परं सर्वथैव तत्क्रियाकरिता न शुध्यतीति ॥ ३६ ॥ ”

सारांशः-जे साधु मुनिराजे जे सूत्रना योग वहन करेला नथी ते साधु ते सूत्रना योगमां प्रवेश तथा तेना योगमांथी बहार काढी शके ? उत्तर-मुख्यवृत्तिथी जे साधुप जे सूत्रना योग वहन करेला होय तेनाज योगमां प्रवेश तथा निर्गमन करावी शके, तेना अज्ञावे नंदीसूत्र तथा अनुयोगद्वार सूत्रना योग वहन करेल साधु प्रवेश अने निर्गमननो सूत्रना योगनी क्रियानी साथे संबंध न होवाथी सर्व सूत्रना योगमां प्रवेश अने योगमांथी बहार काढवानी क्रिया करावी शके एवी परंपरा डे. परंतु ते साधुनी करावेळी योग संबंधी क्रिया तो सर्वथा शुद्ध नज थाय.

प्र०-शश शीलना प्रभावे जे महर्षिनुं नाम चोरासी चोवीसी सुधी रहेवानुं डे ते श्रीस्थुखिन्नऽस्वामी प्रतिबोध निमित्ते गुरुश्रीनी अनुमतिथी वेष्ट्याना मकानमां चातुर्मास रखा तेवी रीतिप कोइ साध्वीजी पण तेज निमित्ते गुरुश्रीनी अनुमति मेळवीने वेष्ट्याने त्यां रक्षानो उल्लेख कोइ शास्त्रमां डे ?

उ०-अवधिज्ञानने धारण करनार श्री कुबेरदत्ता नामना साध्वीजीप, पोताना जाइ कुबेरदत्तने पोतानी माता कुबेरसेना साथे अयोग्य संबंध थयो डे एम ज्ञानथी जाणीने ते बन्नेने प्रतिबोध करवा निमित्ते गुरुश्रीजीनी आज्ञा मेळवीने मथुरा नगरीमां आवी

पोतानी माता कुबेरसेना के जे बेइया ठे तेनी पासे स्थाननी याचना करी, तेना मकाननी पासेज केटलीक मुदत रहीने ते बन्नेने प्रतिबोध कयों.

श्रीधनुदेवहींकिमां अहार नातरानी कथामां लखेल ठे के:-

“ कुबेरदत्ता सगिहं पेसिया, तीपवि जणणी तहेव पुच्छिया तिए जहावत्तं कहियं सा तेण निवेयणसमाणी पइइया पवत्तिणीए सह विहरइ, सुरा य णाप सारकूखिया पवत्तिणी वयणेण विसुल्लमाणचरित्ताए ओहिनाणं समुत्पणं, आभोइओ भ णाओ कुबेरदत्तो कुबेरसेणाए गिहे वसमाणी,अहो अज्ञाणवोसुत्ति चित्तेकण तेसिं संबोहणनिमित्तं अज्जाहि समं विहरमाणी मद्धरं गया कुबेरसेणाए गिहे वसहिं मग्गिकण ठिया । ”

सारांश:-कुबेरदत्ताने पोताने घेर मोकली तेणीए पोतानी माताने तेमज पूढ्युं माताए जे बात हती ते कही वैराग्यपामी संसार कारागारथी उदाश थइ कुबेरदत्ताए दीक्षा अंगीकार करी. प्रवर्त्तिनीनी साथे विचरवा लागी. जाणने अर्थे प्रवर्त्तिनीनी आज्ञाथी मुझाने संगोपवीने राखी. विशुद्धमान चारित्रने पाखतां थका अविज्ञान लयल्ल थयुं. ते अविज्ञानथी कुबेरदत्तने कुबेरसेनानी साथे आसक्त थयेओ देख्यो. अहो अज्ञानदोषो केवा ठे एम विचारी तेने प्रतिबोध करवाने अर्थे आर्यानी साथे मयुरा नगरीमां गइ कुबेरसेनाना घेर वसती मागीने त्यां रही.

जेम श्रीस्थुलजडस्वामिनुं दृष्टांत साधुलए नथी खेवानुं तेम श्रीकुबेरदत्ता साध्वीनुं दृष्टांत पण अन्य साध्वीलए खेवानुं नथी. ए खास ध्यानमां राखवा जेवी हकीकत ठे.

प्र०-२२८-श्रीजिनालयमां देवदंन करतां साध्वील सूत्रो जणे तो ते भावकोने काम आवे या न आवे ?

उप-पुरुष अर्थात् साधु अथवा श्रावक स्तुति कहे ते चारे प्रकारना श्रीसंघने कल्पे अने स्त्री पदले साध्वी अथवा श्राविका स्तुति कहे तो ते साध्वी अथवा श्राविकानेज कल्पे परंतु साधु के श्रावकने न कल्पे. श्रीतपगह्वनायक परमपूज्य श्रीधर्मघोषसूरीश्वरजी महाराजनी घनावेली श्रीचैत्यवंदनप्राप्त्यनी टीका ( श्रीसंघाचारप्राप्त्यवृत्ति ) मां स्पष्टपणे उल्लेख ठे के:-

“ इत्थं यः पुरिसत्तुईए, वंदइ देवे चउविहो संघो ।  
इत्थीत्तुईइ दुविहो, समणीओ साविया चेव ॥ १ ॥ ”

सारांश:-अही देववंदन करतां पुरुष-साधु अथवा श्रावक स्तुति कहे तेथी चतुर्विध संघ देववंदन करी शके अर्थात् श्रावकनी कहेली स्तुति पण चतुर्विध श्रीसंघने कल्पे. स्त्रीनी-साध्वी अथवा श्राविकानी कहेली स्तुतिथी साध्वी अने श्राविकाने बे जणने देववंदन करवा कल्पे पण साधु के श्रावकने न कल्पे.

ज्यारे साध्वीए कहेली. एक स्तुति पण श्रावकने न कल्पे तो पढी साध्वीए कहेलां प्रत्याख्यानादि बीजां सूत्रो कइ रीतिए कल्पे ? श्राविकाए कहेलां सूत्रो तो कल्पवानी वातज शी. आ उपरथी पञ्चस्काण पण पुरुषने न श्रावकतुं होय तो साध्वी या श्राविका पासे करतुं कल्पे या न कल्पे ए विचारकोए विचारि लेवुं.

प्रप-३३ए आयंवीलमां लुण कल्पे या नहि ?

उप-आयंविजमां श्वेतसिंधव, बलवण अने संचळ विगेरे काममां आवी शके ठे.

मलधारगह्वीय पूज्य श्रीचंद्रसूरिजीमहाराजकृत श्रीलघुप्रवचन-सारोद्धारमां कहुं ठे के:-



“ वियसिंधव सुंठि मरी, मेही सोवचलं च बिडलवणं ।

हिंय सुगंधिसुवाहै, पकल्प साइमं वत्थु ॥ १३ ॥ ”

सारांशः—आयंबिहमां श्वेतसिंधव, सुंठ, मरी, मेथी, संचळ—काळुं  
सुण, बलवण, हिंय अने सुगंधिसुवा आदि स्वादिम वस्तु कल्पे.

प्र०—२३० जेना घरमां जन्म अथवा मरण थयेळ होय तेना  
घरना माणसोथी देवपूजा थइ शके ? तेना गोत्रींजने केटला दिवसनुं  
सूतक लागे ? परदेशमां जन्ममरणनुं केटला दिवसनुं सूतक ? तथा  
तेना घरे साधुं आहार पाणी अर्थे केटला दिवसे व्होरवा जाय ?

उ०—जेना घरमां जन्म अथवा मरण थयेळ होय तेने स्नान  
कर्या पठी देवपूजा थइ शके. पुत्र अथवा पुत्रीना जन्म संबंधी सूत-  
कर्मा कंइ पण विशेष नथी. भौव्यवहारप्राप्त्यनी पीठिकांमां सूत-  
कना बे जेद लौकिक अने लोकोत्तर, लौकिक सूतकना बे जेद अल्प-  
काळनुं अने जावजीवनुं, तेमां अल्पकाळनुं लौकिक सूतक दश दिवस  
वर्जतुं एम सामान्यपणे कहेळ ठे. गोत्रींजने आभित अथवा परदेशमां  
जन्ममरण संबंधी सूतक जुहुं कहेळ नथी. सूतक संबंधमां नाना-  
प्रकारना जेदो कोइक कहे ठे तेवा जेदो कोइ पण प्रमाणिक ग्रंथोमां  
न होवाथी कपोलकल्पित अज्ञता सूचक जाणवा. सूतकीना घेर  
गौचरी आभित जे देशमां ब्राह्मणादिको जेटला दिवसे त्रिद्वाप  
जाय तेटला दिवसे साधुंजने जावाने कल्पे.

श्री हीरप्रश्नना चोथा उल्लासमां लखेल ठे केः—

“येषां गृहे पुत्रपुत्रीजन्म जातं भवति तद्गृहमनुजाः खरतरपक्षे स्वगृह-  
पानीयेन देवपूजां न कुर्वन्ति तद्यतिनोऽपि तद्गृहे दशदिनानि यावन्न  
विहरन्ति तदक्षराणि कुत्र सन्ति, आत्मपक्षे चैतदाभित्य को विधिरिति  
प्रश्नोऽत्रोत्तरम्—अत्र यद्गृहे पुत्रपुत्रीप्रसवो जातो भवति, तद्गृहपानीयेन

देवपूजा न शुष्यति इत्यक्षराणि शास्त्रे ज्ञातानि न सन्तीति, तथा तद्गृहे विहरणमाश्रित्य यस्मिन् देशे यो लोकव्यवहारस्तदनुसारेण यतिभिः कर्तव्यं, दशदिननिर्बन्धस्तु शास्त्रे ज्ञातो नास्तीति ॥ १८ ॥ ”

सारांशः—जेना घरमां पुत्रपुत्रीनो जन्म थयेल होय तेना घरना मनुष्यो पोताना घरना पाणीथी देवपूजा खरतर गहमां करता नथी. तेम तेमना साधुछं पण ते सूतकवाळाना घरे दश दिवस सुधी व्होरवां जता नथी, तेना अक्षरो कया ग्रंथमां ठे. तथा आपणा गहमां तेने माटे शो विधि ठे ? इति प्रश्न अत्र उत्तर—जेना घरमां पुत्रपुत्रीनो जन्म थयेल होय तेना घरना पाणीथी देवपूजा शुद्ध न थाय एवा अक्षरो शास्त्रमां जाण्या नथी तथा तेना घेर व्होरवा जवानी बाब, तमां जे देशमां जे लोकव्यवहार होय तेने अनुसारे साधुछं करतुं. दश दिवसनो नियम शास्त्रमां जाण्यो नथी.

उपरना श्रीहीरप्रश्नना पाठनो स्पष्ट खुळासो श्रीसेनप्रश्नना त्रीजा उल्लासमां करेल ठे केः—

‘जायमथसूअगार्ह निच्छूडा’ इत्यादि, सूतकशब्दः प्रत्येकं संबन्धते जातकसूतकं नाम जन्मानंतरं दशाहानि यावत्, सूतकसूतकं मृतानंतरं दशदिवसान् यावत्, तत्र यदर्थं तद्विधा ‘लोन’ति लौकिकं ‘उत्तर’ति लोकोत्तरं, लौकिकं विधा इत्वरं यावत्कथिकं च, तत्रेत्वरं यत्सूतकं मृतकादि लोके दशदिवसान् यावदर्थ्यते इति। यावत्कथिकं च बरुंडर्षिपुरुषर्मकारडोंबादि, पतान्यक्षराणि व्यवहारसूअहत्तौ संतीत्युक्त्वा सूतकशब्दं दशदिवसान् यावत् खरतरास्त्यजन्तः सन्ति, प्रश्नोत्तरग्रन्थे तु दशदिवसनिर्बन्धो ज्ञातो नास्तीत्युक्तमस्ति तत्कथम, इति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्—व्यवहारसूअहत्तौ सूतकविषये दशदिनवर्जनं तद्देशविद्योषपरत्वेन, ततो यत्र देशे सूतकविषये यावानवधि-क्षावन्ति दिनानि वर्जनीयानि, तेन प्रश्नोत्तरग्रन्थेन सह न कोपि विरोध इति ॥ २९० ॥ ”

सारांशः—‘जायमथ’ इत्यादि, सूतक शब्द दरेकनी साथे जोरनो,

जातक सूतक जन्म पढी दश दिवस सुधी, मृतक सूतक मरण पढी दश दिवस पर्यंत, तेमां वर्जवाना बे जेद-१ लौकिक अने २ लोकोत्तर, लौकिकना बे जेद ? अल्प कालनुं अने २ जावजीवनुं, तेमां अल्पकालनुं जन्म मरणनुं सूतक लोकमां दश दिवस वर्जित ठे. वरुंग, ठिंपक, चमार, कुंब आदि नीच जातिनो आहारादि जावजीव सुधी वर्जित ठे. आ प्रमाणे अक्षरो श्रीव्यवहार सूत्रनी टीकामां ठे. एम कही सूतकवाळा घरने दश दिवस सुधी खरतरो त्यागे ठे. श्रीहरिप्रश्न ग्रंथमां तो दश दिवसनो नियम जाणवामां नथी एम कहेल ठे. तेनुं केम ? इति प्रश्न अत्र उत्तर-श्रीव्यवहारसूत्रनी टीकामां सूतकना संबन्धमां जे दश दिवस वर्जवा कहा छे ते देश विशेषने आश्रित तथा जे देशमां सूतक विषयमां जेटला दिवसनी मर्यादा ठे तेटला दिवस वर्जवा तेथी श्रीहरिप्रश्न-ग्रंथनी साथे कोइ प्रकारनो विरोध नथी.

केटलाक वर्तमानकालना कहेवाता पंक्तितो पुत्र जन्मनुं अगी-पार दिवसनुं अने पुत्री जन्मनुं बार दिवसनुं सूतक कहे ठे ते आ उपरना पाठथी विरुद्ध होवाथी असत्य समजवुं.

श्रीसेनप्रश्नना बीजा उल्लासमां कहेल ठे के:-

“प्रसूतापत्या स्त्रीकदुमतीनां मासं यावन्न संघट्टयति कस्यापि, न करोति च ऐवन्क्रिया आत्मीयानां तु दिनदशकं यावत्तत्क्रिय ? इति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्- प्रसूतापत्या स्त्री संघट्टनादि दशदिनानि न करोतीति लोकरीतिस्तत्रापि देशविशेषे न्वचिष्युनाधिकत्वमपि ॥ ११८ ॥”

सारांश:-बाळक प्रसूत थयेली करवामतीठनी स्त्री एक मास सुधी कोइनो पण संघट्टो करती नथी तथा रांधवानी क्रिया पण करती नथी, आपणा गह्वमां तो दश दिवस सुधी तेनुं केम ? इति प्रश्न अत्र उत्तर-बाळक प्रसूत थयेली स्त्री दश दिवस सुधी संघट्टादिक

न करे ते छोकरीति ठे तेमां पण देश विशेषमां कोईक स्थानमां न्यूनाधिकपणुं पण होय.

श्रीप्रभु पूजा आश्रित श्रीसेनप्रश्नना चोथा उल्लासमां उल्लेख ठेके:-

“जन्मसूतके मरणसूतके च प्रतिमापूज्यते न वेति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्-उभयत्रापि स्नानकरणानन्तरं प्रतिमापूजननिषेधो ज्ञातो नास्तीति ॥ ७८ ॥ ”

सारांश:-जन्मसूतकमां तथा मरणसूतकमां श्रीजिनप्रतिमापूजा थायके नहि? इति प्रश्न अत्र उत्तर-बद्धे सूतकमां स्नान कर्या पढी श्रीजिनप्रतिमापूजानो निषेध जाण्यो नथी.

साधुओने बहोरवा जवा आश्रित श्रीसेनप्रश्नना त्रीजा उल्लासमां कहेल ठे के:-

सूतकगृहं साधवः आहारार्थं यान्ति न वेति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्-यत्र देशे सूतकगृहे यावद्भिर्वासरैर्ब्राह्मणादयो भिक्षार्थं व्रजन्ति तत्रात्मभिरपि तथा विषेयमिति बृहद्व्यवहारः ॥ २०१ ॥ ”

सारांशः साधुं सूतकवाळा घरे आहारने अर्थे जाय के नहि? इति प्रश्न अत्र उत्तर-जे देशमां ब्राह्मणादिको सूतकना घरे जेटला दिवसे निक्षाने अर्थे जाय ते देशमां आपणे पण तेम करतुं एवो बृहद्व्यवहार ठे.

उपर जणावला श्रीहीरप्रश्नना अने श्रीसेनप्रश्नना पाठोनो विचार करतां जन्म अने मरणसूतक लोकोत्तर नथी, लौकिक व्यवहार ठे अने ते पण अमूक दिवसज पाळवानो प्रतिबंध नथी किंतु देशरीतिज कहेल ठे. स्नान कर्या पढी श्रीप्रभु पूजानो निषेध नथी. १ गोत्रवाळाने अमूक दिवससुं सूतक, २ परदेशमां जन्म अथवा मृत्यु थयुं होय तो अमूक दिवससुं सूतक, ३ मृतकने अरुके, खांध दे के वाळवुं विगेरे कार्य करे तेने अमूक दिवससुं सूतक, अमूक वर्षनी धयवाळो मरण पामे तो अमूक दिवससुं सूतक इत्यादि विषयमां कोइ

पण प्रमाणिक ग्रंथमां कंइ पण जातनो खुलासो नथी उतां केटलाक मरजी मुजब लखे ठे अने बोसे ठे ते लखतुं अथवा बोलतुं शास्त्र-विरुद्ध होवाची अप्रमाणिक समजतुं.

प्र०-२३१ नरतक्षेत्रना ३५००० देशमां साक्षीपचीश देश आर्य अने बाकीना अनार्य ठे. तेम महाविदेह क्षेत्रनी दरेक विजयमां पण समजतुं के केम ?

उ०-जे प्रमाणे नरतक्षेत्रमा आर्य अनार्यना जेदोठे ते प्रमाणे महाविदेहमां आर्य अनार्य जेद होय एतुं वांचवामां आव्युं नथी. तेमज त्यां निरंतर केवलज्ञानी महर्षिओ विचरता होवाची अने सदा काळ ओथो आरो वर्ततो होवाची तेवो संभव पण नथी.

आ संबंधमां श्रीप्रवचनसारोद्धारनी टीकामां उल्लेख ठे के:-

“ नरतक्षेत्रवर्तिन एवायौ उक्ता उपलक्षणत्वात्तेषामन्येपि महाविदेहान्तरवर्तिविजयमःयादिष्वमी बहवो ब्रह्मव्याः ”

सारांश:-नरतक्षेत्रमां वर्तताज साक्षीपचीस आर्य देशो कक्षा तेना उपलक्षणची बीजा पण महाविदेहमां रहेल विजयना मध्य-खंडना घणा आर्य देशो जाणवा.

प्र० २३२-पुंढरिकस्वामिजी पासे चैत्यवंदन करतां नमुत्युषांनी अंदरनी प्रथमनी संपदामां जे पदो ठे ते तीर्थंकर प्रत्ये घटे तेवां ठे ते श्रीगणधर महाराजा सन्मुख केम कही शकाय ?

उ०-श्रीपुंढरिक स्वामिजीनी मूर्ति सिद्धस्वरूप होवाची श्री सिद्धमहाराजनी सन्मुख नमुत्युषां कहेवामां विरोध नथी. तथा ए पदोना सामान्य अर्थ करीने घटाववाची श्रीगणधरमहाराजामां पण घटी शके ठे तेथी ते प्रमाणे अर्थो घटाववा.

प्र०-२३३-श्रीमुनिसुव्रतस्वामिना नव जव अने श्रीचंद्रप्रजुजी ना सात जव 'सप्ततिशतक स्थानक' ग्रंथमां कहेल ठे अने बीजा स्थानोमां वळे परमात्माना त्रण त्रण जव कहेल ठे तेनुं शुं कारण ?

उ०-श्रीचंद्रप्रजुजी तथा श्रीमुनिसुव्रतस्वामिजीना जवो विषे मतांतर संज्ञवे ठे. श्रीचतुर्विंशतिजिनजवस्तोत्रमां परमात्मा श्रीमुनि-सुव्रतस्वामिना नव जव अने परमात्मा श्रीचंद्रप्रजुजीना त्रण जव कहेल ठे. कलिकाळ सर्वज्ञ जगवान् श्रीहेमचंद्रसूरीश्वरजी महाराजकृत त्रिपष्टी शलाका पुरुष चरित्रमां वळे परमात्माओना त्रण त्रण जवोनुं वर्णन करेल ठे. तेनुं कारण एम जणाय ठे के तेमना बीजा जवोमां कंइ पण वर्णन करवा लायक विशेष वृकीकत न होवाथी जे जवमां ती-र्थकर नाम कर्म उपार्जन कर्युं ते जवथीज वर्णन कर्युं हशे. एम संज्ञवे ठे. तेमां कया जवमां सम्यक्त्व पाम्या तेनो स्पष्ट उल्लेख नथी तेथी 'सप्ततिशतकस्थानक' ग्रंथमां कहेल जवोनी साथे त्रिपष्टीमां कहेल जवोनी विरोध जणातो नथी. निश्चय तो तत्त्वज्ञानी महाराज जाणे.

प्र०-२३४-श्रीश्रेणिकमहाराजा पहेलां श्रीजिनमंदिर अने श्रीजि-नमूर्ति हती के नहि ? ते विषे सूत्रमां कोइ पाठ ठे ?

उ०-श्रीश्रेणिक महाराजानी पहेलां श्रीजिनमंदिर अने श्रीजिन-मूर्ति होवानां अनेक प्रमाणो सूत्रग्रंथोमां विद्यमान ठे; तेमांनां केटलांक नीचे आपवामां आवे ठे:-

'श्रीपपातिक' सूत्रमां श्रीश्रेणिक महाराजाना पुत्र कोणीक राजानी चंपानगरीना वर्णनमां सूत्रकार महर्षि लखे ठे के:-

" भद्रुला अरिहंतचेइयाई "

सारांश:-चंपानगरीमां घणां श्रीअरिहंत जगवानोनां मंदिरो ठे.

सर्वाकार सन्निपाति-श्रुतकेली जगवान् श्रीसुधर्मास्वामि रचित-  
श्री ज्ञातासुत्रमां ज्योपदीजीना अधिकारमां नीचेनो उल्लेख ठे के:-

“ तएणं सा दोषई रायवरकला जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छइ,  
मज्जणघरमणुप्यविसइ, पहाया कयबलीकम्मा कयकोडयमंगलपायच्छित्ता  
सुद्धयावेसाइ मंगलाइ बत्थाइ परिहिया मज्जणघराओ पडिणिकखमइ २ ता  
जेणेव जिणघरे तेणेव उवागच्छइ २ ता जिणघरमणुप्यविसइ २ ता जिणप-  
डिमाणं आलोए पणामं करेइ २ ता लोमहत्तयं परासुसइ एवं जहा सरियाओ  
जिणपडिमाओ अवेइ तहेव भाणियवं जाव घूवं इइइ २ ता वामं जाणु  
अंचेइ दाहिणं जाणु घरणितलंसि, निवेसेइ २ ता तिक्खुत्तो सुद्धाणं घर-  
णितलंसि निवेसेइ निवेसित्ता इंसि पच्छुनमइ करयलजावकट्टु एवं वया-  
सी नमोस्सुणं अरिहंताणं भगवंताणं जाव संपत्ताणं वंवइ नमंसइ जिणवरा-  
ओ पडिनिक्खमइ । ”

ज्ञावार्थ:-ते समये ज्युपदराजानी पुत्री ज्योपदी ज्यां ज्ञान करवानुं  
घर ठे त्यां जाय ठे, त्यां जइने ज्ञानघरमां प्रवेश करे ठे, तेमां ज्ञान,  
बलिकर्म पटखे श्रीजिनमंदिरमां पूजा कौतुक पटखे तिलकादि मंगल  
पटखे दाधि, दुर्वा, अक्षत आदि प्रायश्चित (दुःस्वप्न आदिकना घात-  
कनी क्रिया) कर्युं ठे जेणे एवी राजपुत्री श्रीमती ज्योपदी श्रीजिनमंदि-  
रमां प्रवेशने योग्य शुद्ध अने मंगलमय वस्त्रो पहेरीने मज्जान घर (स्ना-  
नघर)मांथी नीकळी नीकळीने ज्यां श्रीजिनमंदिर-देरासर ठे त्यां आवी  
आवीने श्रीजिनमंदिरमां प्रवेश कर्यो पेसीने श्रीजिनप्रतिमाने जोतांनी  
साथेज प्रणाम कर्यो प्रणामकरीने मोरपीठी लीधी,ते पठी जेम सुर्याजदे-  
वताए श्रीजिनप्रतिमानी पूजाकरी तेम सघळो विधि जाणवो.ते सुर्याज-  
देवतानो अधिकार यावत् धूप कर्यो त्यां सुधीनो खेवो. (श्रीजिनमूर्तिनी  
पूजा कर्यो पठी राजवरकन्या ज्योपदी) धूप उखेवीने नाचो ढींचण उंचो  
राखे ठे अने जमणो ढींचण पृथ्वीना तल उपर स्थापे ठे, ते प्रमाणे

करीने कंश्क नीचे नमे ठे. नीचे नमीने हाथ जोमी-दस नख जेगा करी-मस्तके अंजलि करीने एम बोली के-आरिहत जगवंतोने यावत् सिद्धिगति पाभ्या ठे तेमने मारो नमस्कार थाठं ( अत्र-यावत् सिद्धिशब्दथी संपूर्ण शक्रस्तव खेवुं ) पढीथी वंदन नमस्कार करी श्रीजिनमंदिरथी नोकळे ठे.

आ पाठथी पण सुतरां सिद्ध ठे के श्रीश्रेणिक महाराजानी पहेलां श्रीजिनमंदिर अने श्रीजिनमूर्तिं अवनितलने पावन करती ह्ती कारण के श्रीमती झौपदीजी श्रीश्रेणिक महाराजाथी चोरासी हजार वर्षों पूर्वे वावीसमा तीर्थपति श्रीनेमनाथस्वामिना समयमां थयेलां ठे.

आ अवसर्पिणीना प्रथम तीर्थपति श्रीश्रृषजदेवस्वामिना पुत्र प्रथम चक्रवर्ती श्री जरत महाराजाए अष्टापदपर्वत उपर श्रीजिनमंदिर वंधाव्युं अने तेमां चोवीसे तीर्थपतिठनी शरीरना प्रमाणवाळी मनोहर मूर्तिठं पधरावी अने वर्तमान शासनना अधिपति श्रमण जगवान् श्रीमहावीरस्वामिजीना प्रथम गणधर सर्व लब्धि समन्वित जगवान् श्री गौतमस्वामिजीए साक्षात् प्रभुश्रीनी अनुमतिथी यात्रा करी तथा वगुर नामना श्रावके उंगणीसमा तीर्थपति श्रीमल्लिनाथस्वामिनुं मंदिर वंधाव्युं. आवा उल्लेखो श्रीआवश्यकसूत्रमां ठे.

आ रीते श्रेणिक महाराजानी पहेलां श्रीजिनमंदिर अने श्री जिनमूर्तिं होवानां अनेक प्रमाणो सूत्र ग्रंथोमां मौजुद ठे. श्रीजिनमंदिरो अने श्रीजिननी मूर्तिठं ते श्रीजिनना शासननी साथेज सिद्ध ठे पटले शासनना मर्मज्ञोना हृदयोमां श्रीजिनमंदिरनो अने श्रीजिनमूर्तिनी ह्यातिनो प्रश्नज उपस्थित न थवो जोश्य.

जेम हिंदुस्तानमां गुजरात, काठीयावारु, मेवारु अने मारवारु



विद्येरे देशोर्मां जमीनमांषी अनेक प्राचीन श्रीजिनमूर्तिठं नीकळी आचे ठे तेम थोकां वर्षां पहेलां पोर्तुगासना हंगरी प्रांतमां बुदापेस्त नामना शहरमां श्रीमहावीरस्वामिर्जानी घणीज प्राचीन मूर्ति जमीनमांषी एक अंग्रेजने मळी ठे अने ए मूर्तिने तेंणे बागनी वळे उत्री बनावी स्थापन करी ठे. ए मूर्तिनो फोटो पंजाबना रहेवासी जसवंतराय जैनीनी पासे ठे.

जो प्राचीन समयमां श्रीजिनसंदिरो अने श्रीजिनमूर्तिठं न ह्ती तो जे देशमां हजारो वर्षांषी जैनीनी वस्ती नथी ते बत्तां त्यांनी जमीनमांषी प्रभुनी मूर्ति क्वांषी नीकळी घ्यावी ? आ विषयमां विदोष जाणवानी झुवाळाए प्रातःभरणीय परमपूज्य न्यायांज्ञोनेधि न्हारक श्रीविजयानंदसूरीश्वर (आत्माराम)जी महाराजकृत सम्यक्संस्थोक्तार जोवो.

अ०-३३५-समवसरणमां ज्यंतरेंद्र अण (३) बालु मूर्ति स्थापन करता इता एवो पाठ कथा सूत्रना मूळमां ठे ?

उ०-श्रीसमवायांग नामना चोथा अंगसूत्रमां समवसरणनुं वर्णन करतां सखे ठे के:-

“ कल्पस्र समोसरणं नेयत्वं ”

टीका-“ कल्पमान्द्यक्रमेण समवसरणवक्तव्यता ज्ञेया ”

भावार्थ-समवसरणनी वक्तव्यता पटले स्वरूप श्रीबृहत् कल्पजाप्यमां कहेल क्रमथी जाणवी.

... श्रीसमवायांग सूत्रना मूळमांज ज्यारे समवसरणना वर्णन माटे श्री बृहत्कल्पजाप्यनी प्रलामण करी ठे पटले श्रीसमवायांगसूत्रने मान्य करनारालने श्रीबृहत्कल्पजाप्यने मान्या शिवाय बुटकोज नथी अने ते श्रीबृहत्कल्पजाप्यमां समवसरणनुं वर्णन करतां सख्युं ठे के:-

“ तिर्दिसि पडिरूवगया य देवकया ”

टीका—“ यासु च दिक्षु भगवतो मुखं न भवति तासु तिस्रष्वपि तीर्थकराकारधारकाणि सिंहासन-उत्र-चामर-धर्मचक्राङ्कृतानि प्रतिरूपकाणि देवकृतानि भवन्ति ”

जावार्थः—जे दिशात्र्योमां जेगवाननुं मुख न होय ते त्रये दिशात्र्योमां सिंहासन, उत्र, चामर अने धर्मचक्रथी अलङ्कृत श्रीतीर्थकरना आकारने धरनारां प्रतिर्बिंबो ( प्रतिमात्र्यो ) देवोय करेलां होय ठे. श्रीआवश्यकसूत्रमां पण लख्युं ठे केः—

“ तिर्दिसि पडिरूवगयाओ देवकया ”

टीका—“ शेषासु तिस्रषु दिक्षु प्रतिरूपकाणि तु तीर्थकराकृतीनि सिंहासनादियुक्तानि देवकृतानि भवन्ति ”

जावार्थः—बाकीनी त्रय दिशात्र्योमां तीर्थकरसमान आंकृतिवाळां अने सिंहासनादिके करीने संमन्वित प्रतिर्बिम्बो ( प्रतिमात्र्यो ) देवोय करेलां होय ठे.

प्र०-३३६—मूर्तिने छेप करवानो जैनशास्त्रनो पाठ बंतावो ?

उ०—मूर्ति अने तेनी पूजा चक्ति तथा मंदिर शास्त्र सिद्ध ठे ती पढी मूर्तिने खाना पने तो तेने छेप करवो ते चक्रिरूप होवाची स्वयंसिद्ध ठे. एमां बळी पारठनो प्रश्नज केवो ?

प्र०-३३७—बलिकर्म शब्द जीमंती माणके उपवेळां प्रतिष्ठाकर्षणमां आंवे ठे. तेनो अर्थ हो थाय ठे ?

उ०—‘ बलिकर्म ’ शब्दनो अर्थ देवपूजां थाय ठे. श्रीनाममालामां—“ पूजार्हणा सपर्यार्चा उपहारबली समौ ” आ पाठची ‘ बलि ’ शब्द पूजानो वाचक कह्यो ठे, एटखे सूत्रमां ज्यां ज्यां ‘ क्यबलिकम्मा ’ शब्द आवे ठे त्यां त्यां ‘ करी. ठे देवपूजा जेणे ’ एज अर्थ थाय, पण बीजो नाहि.

प्र०-३३०-‘ श्रीजिनप्रतिमा-जिनसारीखी ’ कया सूत्रना मूल पाठमां ठे ? ते पाठ बतावो ?

उ०-श्रीरायपसेपीसूत्रमां सूर्याजदेवना अधिकारमां लख्युं ठे के:-

“ घूर्वं दाऊण जिणवराणं ”

जावार्थ:-जिनेश्वरोने घूप करीने.

उपरना उल्लेखथी श्रीरायपसेपीसूत्रमां सूत्रकारमहर्षिप जि-  
नमूर्तिश्रोने ‘जिणवराणं’ आ शब्दथी संबोधी स्पष्टपणे श्रीजिनना  
सरखी जणावी ठे.

प्र०-३३१-शत्रुंजय, गिरनार, आबु, तारंगा, अष्टापद, समेत-  
शिखर मानवानुं कया सूत्रना मूल पाठमां ठे ?

उ०-तरण तारण तीर्थोने मानवानो अने पूजवानो अधिकार  
श्रीजैनशास्त्रोमां न होय एवो विचार पण जैनत्वना रसिआने केम  
आववो जोइप? भुतकेवली भगवान् श्रीजद्गद्गद् स्वामिजी महाराजे  
श्री आचारांगसूत्रना बीजा भुतस्कंधनी निर्युक्तिमां श्रीजी ‘जावना’  
नामनी चूखिकामां दर्शनजावनानुं स्वरूप दर्शावतां तीर्थोने मानवा  
पूजवानो स्पष्टतया उल्लेखं कयों ठे ते दर्शाववा पूर्वे मात्र मूलसूत्र  
मानवामांज श्रेयः समजनारा स्थानकवासी ( हुंढीआ ) संप्रदायना  
समाधाननी खातर निर्युक्तिने मानवा माटे मूलसूत्रोमां आवता केट-  
ळाक आधारो टांकवानी खास जरूर ठे:-

श्रीअनुयोगद्वारसूत्रमां सूत्रकारमहर्षि लखे ठे के:-

“ सुत्ताणुगमे निञ्जुत्तिअणुगमे य । निञ्जुत्तिअणुगमे तिषिहे पत्तवे ”

सारांश:-अनुगम वे प्रकारना एक सूत्रानुगम अने बीजो नि-  
र्युक्ति अनुगम, निर्युक्ति अनुगमना प्रण प्रकार कखा ठे.

श्रीसमवायागसूत्रमां तथा श्रीनंदीसूत्रमां जगवान् सूत्रकार-  
महर्षिं लखे ठे के:-

“ संविक्षजा निञ्जुत्तिभो ”

सारांश:-निर्युक्तिं संख्याती ठे.

‘श्रीजगवतीजी’ नामना पांचमा अंगसूत्रना पचीसमा शतकना  
श्रीजा उदेशामां सर्वाक्षर सन्निपाति जगवान् श्रीसुधर्मास्वामिंजी  
महाराज लखे ठे के:-

“ सुत्तत्थो खल्ल पढमो, बीभो निञ्जुत्तिमिस्सिभो भणिभो ।  
तइभो निरवसेसो, एस विही होइ भणुभोगे ॥ १ ॥ ”

सारांश:-पहेलो मात्र सूत्रनो अर्थ, बीजो निर्युक्तिषी मिश्रित  
अने श्रीजो संपूर्ण अर्थ आपवो. अनुयोगनी विधि आ ठे.

श्रीअनुयोगद्वार, श्रीसमवायांग अने श्रीनंदीसूत्र आ त्रण  
सूत्रना आधारो निर्युक्ति मानवानी आझा करे ठे अने श्रीजगवती-  
सूत्र जेम बीजा प्रकारनी व्याख्यामां ‘ निञ्जुत्तिमिस्सिभो ’ आं श-  
ब्दधी निर्युक्तिनो समावेश करे ठे तेम ‘ निरवसेसो ’ आ शब्दधी श्रीजा  
प्रकारनी व्याख्यामां जाप्य, चूर्ण तथा टीकानो पण समावेश करे ठे.  
आधी रीतनां प्रमाणो मौजुद बतानां मूलसूत्रनेज मानवानो अने नि-  
र्युक्ति आदिने न मानवानो आग्रह साचा आगमप्रेमीने होइज न शके.

हवे उपर कहेबा प्रमाणे श्रीआचारांगसूत्रनी निर्युक्तिमां श्री  
जगवाहुस्वामिजीए शुं लख्युं ठे ते जुठ:-

सम्मामित्तेय-निक्खमणचरणनाणुपयाय ।

दिवलोष-भवण-संदर-नंदीसर भोम-नगरेसुं ॥ ३३१ ॥

भट्टावपसुंरिंते गयगपयए य धम्मवक्के थ ।

पासरदावत्तनं चमरुप्यायं च वंदासि ॥ ३३२ ॥

सारांशः-श्रीतीर्थकर देवोनी जन्मनूमीमां तथा निष्क्रमण, दीक्षा, ज्ञानोपति तथा निर्वाणभूमिमां अने देवलोकजवनोमां, मेरुपर्वत उपर, नंदीश्वरद्वीपादि तथा पातालजवनोमां रहेल शाश्वत कैत्योने हुं वंदन करं हुं, तेवीज रीतिप अष्टापद, गिरनार, गजामपद, वमचक्र-तद्दक्षिणा नगरीमां, ज्यां धरणेंडे श्रीमार्शनाथस्वामिनो मदिमा कयो हतो ते अदिबत्रा नगरीमां, ज्यां दशपूर्वधर श्री वज्रस्वामिजीप 'पादपोपगमन' नामनुं अनशन करेहुं ते रथावर्त नामना पर्वत उपर तथा ज्यां श्रमण जगवान् श्रीमहावीरस्वामिजीनुं शरण छइ चमरेंडनो उत्पात थयो हतो त्यां इत्यादि स्थानोमां यथासंजव अजिगमन, वंदन पूजन, गुणोत्कीर्त्तनादि क्रियाळ करवाथी दर्शनशुद्धि थाय ठे.

श्रीज्ञातासूत्र तथा श्री श्रंतगरुदशा नामना ठछा अने आ-उमा अंगसूत्रमां " जाव सेतुंजे सिद्धे " " जाव वुछे सिद्धे " इत्यादि वर्णन आवे ठे तथा श्री जंबूद्वीपप्रज्ञप्ति नामना सूत्रमां श्रीश्वर-देव जगवान् 'अष्टापद' पर्वत उपर मोक्ष गयाना तथा श्री ज्ञाता-सूत्रमां श्रीमल्लिनाथजगवान् 'समेतशिखर' पर्वत उपर मोक्षे गयाना अधिकारो ठे.

उपर वताव्या प्रमाणे अनेक सूत्रोमां अनेक तीर्थोतुं वर्णन आवे ठे.

प्र०-१४०-अही द्वीपमां शाश्वती वस्तु केद्वी ठे तेनां नाम (अने) पाठ ?

उ०-श्री क्षेत्रसमास प्रकरणेमां विस्तारथी वर्णन ठे तथा श्री जंबूद्वीपप्रज्ञप्ति आदिमां पण ठे त्यांथी जोइ लेवुं.

प्र०-१४१-शत्रुंजय शाश्वतो कहे ठे ते विषेना एक वे उहेलो वतावशां.

उ०—श्रीशत्रुंजयमाहात्म्यमां लख्युं ठे के:-

“ शत्रुंजयो जयन् पापं, चिन्वन् धर्मं ददन् सुखं ।

पुनानः सकलान् लोकान्, गीरिर्जयति शाश्वतः ॥ ”

सारांशः—पापने जीतनार, धर्मने एकठों करनार, सुखने आपनार अने सकल लोकोने पवित्र करनार श्री शत्रुंजय नामनो शाश्वत ( सदास्थायी ) गीरि जयवंतो वर्तो.

∴ श्रीश्रांद्धविधिमां पण लखेख ठे के:-

“ तीर्थेऽत्र शाश्वत्प्राये, यात्रा स्नात्रार्चना तपः ।

दानादि अनन्तफलं, सुस्थाने बीजवद् भवेत् ॥ २८१ ॥ ”

सारांशः—प्रायशाश्वता एवा आ शत्रुंजय नामा तीर्थमां यात्रा, स्नात्रपूजा, तप अने दानादि धर्म सुस्थानमां वावेख बीजनी जेम अनंत फलने आपनार आय ठे.

प्र०—२४२—संख्या समये जे आवक आत्रिका रात्रि पौषध अंगीकार करे ते पौषध उच्चर्या पढी पाणी वापरी शके ?

उ०—प्रातःकालमां दिवसनो पौषध कर्यो होय अने बपोरना जावनी वृद्धि थवाथी जो रात्रि पौषध अंगीकार करे अथवा सवारमां पौषध न करेख होय अने रात्रि पौषध अंगीकार करे तेठ पौषध लीधा पढी पाणी वापरी शके नहि. कारण के रात्रिनो पौषध अंगीकार करनारने पौषध व्रतनो जे पाठ उच्चराववामा आवे ठे तेमां ‘ आहारपोसहं सब्द’ आ प्रमाणे सर्वथा आहारतुं पञ्चकलाण कराववामां आवे ठे.

श्रीहीरप्रश्नना चोथा उल्लासमां लखेख ठे के:-

“ यः सन्ध्यायां रात्रिपौषधं करोति स तद्दुष्कारणानन्तरं पानीयं पिबति न वेति प्रश्नोऽनोत्तरम्-यः सन्ध्यायां रात्रिपौषधं करोति तस्याहार-

पौषधः सर्वत्र एवोच्चार्यते न देशान्तेन विवसपौषधो भवतु मा वा परं रात्रि-  
पौषधकरणानन्तरं स पानीयं न पिबतीति ॥ ३९ ॥ ”

सारांशः—संज्याय रात्रिपौषध जे श्रावक करे ते श्रावक पौषध  
उच्चर्या पठी पाणी पीवे के नहि ? इति प्रश्न अत्र उत्तर—संध्या अत्र-  
सरे जे पौषध श्रंगीकार करे तेने आहारपौषध सर्वधी उच्चरावाय ठे  
पण देहाधी उच्चरावता नथी. ते कारणधी विवसनो श्रंगीकार करेसो  
होय अथवा न करेसो होय परंतु रात्रिपौषध छीधा पठी ते श्रावक  
पाणी पीवे नहि.

प्र०—२४३—उपधानवाहीने वांचना नवकारपूर्वक आपवी के  
नवकार विना ?

उ०—उपधानवाहीने वांचना नवकार विना आपवी. श्रीहीरसू-  
रीश्वरजी महाराजे श्रीहीरप्रश्नना चोथा प्रकाशमां कहेछ ठे केः—

“ उपधानवाचना नमस्कारं विना दीयते उत तत्पूर्विका ? इति प्रश्नोऽ-  
श्रोत्तरम्—उपधानवाचनां श्रीविजयदानसुरयो नमस्कारं विनैव दत्तवन्तो व-  
यमपि तथैव दम इति ॥ ३७ ॥

सारांशः—उपधाननी वाचना नवकार पूर्वक आपवी के नवकार  
विना ? इति प्रश्न अत्र उत्तर—उपधाननी वाचना श्रीविजयदानसूरी-  
श्वरजी महाराज नवकार विना आपता हुता अमे पण तेवीज रीतिय  
आपीप ठीप.

प्र०—२४४—उपधान, बारव्रत अने चोथा व्रत संबंधी नंदीनी  
क्रिया करावतां श्रावक आधिकाने श्रीनंदीसूत्र संजळावहुं के नहि ?

उ०—श्रावक आधिकाने उपधान आदि दरेक नंदीनी क्रिया  
करावतां त्रण नवकाररूप नंदीसूत्र संजळावहुं. जगद्गुरु श्रीहीरसू-  
रीश्वरजी महाराजाय श्रीहीरप्रश्नना चतुर्थप्रकाशमां कहेछ ठे केः—

“ श्रावकश्राविकाणां नन्दीसूत्रश्रावणं ‘ नाणं पंचविहं पत्ततं ’ इत्या-  
दिरूपं नमस्कारत्रयरूपं वा क्रियते इति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्-श्रावकश्राविकाणां  
नन्दीसूत्रं नमस्कारत्रयरूपं प्राच्यते इति ॥ ३१ ॥

सारांशः-श्रावक श्राविकाउत्तने ‘नाणं पंचविहं पत्ततं’ रूप नन्दी-  
सूत्र संजळावतुं के त्रण नवकाररूप संजळावतुं ? इति प्रश्न अत्र उत्तर-  
श्रावक श्राविकाउत्तने त्रण नवकाररूप नन्दीसूत्र संजळावीए ठीए.

प्र०-२४५-उपधानमाळारोपणनी क्रियामां उपधानवाळाने जेम  
प्रवेदन (पवेयणा) नी क्रिया कराववामां आवेडे तेम माळा पहेरनारने  
पवेयणानी क्रिया करावाय के केम ?

उ०-उपधान संवधी अथवा अन्य माळा पहेरनारने माळारोपणनी  
क्रियामां प्रवेदन (पवेयणा) नी क्रिया कराववानो नियम नथी.

श्रीहीरप्रश्नना चोथा प्रकाशमां लखेल ठे के:-

“मालापरिधाने प्रवेदनकं करोति न वेति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्-मालापरिधाने  
प्रवेदनकरणनियमो ज्ञातो नास्तीति ॥ ७ ॥”

सारांशः-माळारोपणमां पवेयणुं करावतुं के नहि ? इति प्रश्न अत्र  
उत्तर-माळारोपणमां पवेयणुं करवानो नियम जाण्यो नथी.

प्र-२४६-उपधाननी वाचना श्रावक श्राविकाउत्त वेसीने लेवे के  
उत्ता रहीने लेवे ?

उ०-उपधाननी वाचना श्रावको चैत्यवंदननी मुद्राप वेसीने  
लेवे श्राविकाउत्त उत्ती रहीने लेवे.

श्रीहीरप्रश्नना चोथा प्रकाशमां फरमावेल ठे के:-

“ उपधानवाचनां आह्वाः आह्वयश्चोर्ध्वस्थानेन गृह्णन्ति उपविश्य वा ?  
इति प्रश्नाः उत्तरम्-उपधानवाचनां आह्वय उर्ध्वस्थिताः शृण्वन्ति, आह्वा-  
स्तु चैत्यवदनमुद्गयेति ॥ ३२ ॥ ”



सारांशः-उपधाननी वाचना श्रावको तथा श्राविकाळं उजा उजा ग्रहण करे के वेसीने ? इति प्रश्न अत्र उत्तर-उपधाननी वाचना श्राविकाळं उजा उजा सांजळे अने श्रावको चैत्यवंदननी मुद्राय करीने सांजळे.

प्र०-३४३-उपधान तपनी माळारोपणी नंदी चोमासामां थइ शके के केम ?

उ०-उपधाननी माळारोपणी नंदी विजयादशमीथी आर-जीने थइ शके. श्रीहीरप्रश्नना प्रीजा उल्लासमां कइल ठे के:-

“ मालापरिधापननन्दिः कदा मंडयते ? इति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्-मालापरि-धापननन्दिमाश्रित्य तत्रंदिविधानं विजयदशमीदिनानन्तरं श्रुष्यतीति ब्रुवाद् ॥ ४ ॥ ”

सारांशः-माळारोपणी नंदी क्यारे करवी ? इति प्रश्न अत्र उत्तर-माळारोपणी नंदी विजयादशमी पढी शुद्ध थाय एम वृद्ध-वाद ठे.

श्रीहीरप्रश्नना चोथा उल्लासमा पण लखेल ठे के:-

“ चतुर्मासकमध्ये मालारोपणनन्दिः कृतः प्रभृति विधीयते ? इति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्-चतुर्मासकमध्ये त्र्यंशत्रयमालारोपणनन्दी विजयदशम्यनन्तरं भवति । द्वावशात्रतनन्दिस्त्वर्वांगपि भवन्ती ह्ययते इति ॥ २९ ॥ ”

सारांशः-चोमासामां माळारोपण संबंधी नंदी क्यारथी थाय ? इति प्रश्न अत्र उत्तर-चोमासामां चोथा त्रतनी अने माळारोपणी नंदी विजयादशमी पढी थाय. बारत्रतनी नंदी तो विजयादशमीनी पहेला पण यती देखाय ठे.

प्र०-३४७-जेणे ज्ञानपंचमी, रोहिणी, मौनएकादशी आदि त्रत उच्चरेल होय तेमने उपधानमां ज्ञानपंचमी, राहिणी, मौनएकादशी आदि आवे तो तेज तपथी चाले के जुदो करवो पंके ?

उ०-जेणें ज्ञानपंचमी, रोहिणी, मौनएकादशी आदि व्रत उच्चरेल ठे. तेने उपधानमां तपना दिवसे ज्ञानपंचमी, रोहिणी, मौन-एकादशी आदि आवे तो तेज तपथी सरे जुदो करवो न पके. पारणाना दिवसे ज्ञानपंचमी आदि आवती होय तो ते दिवसे तपज करवो पके.

श्रीहीरप्रश्नना चोथा उल्लासमां लखेल ठे के:-

“ उपधाने वाह्यमाने तपोदिने यदि कल्याणकतिथिरायाति तदा तेनैवोपवासेन सरति उत्तान्योऽधिकः कृतो विलोक्यते ? इति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्- उपधानतपोदिनान्तःकल्याणकतिथ्यागमने नियंत्रिततपस्त्वात्तेनैवोपवासेन सरति ॥ १२ ॥ ”

सारांश:-उपधान वहन करतां तपना दिवसे जो कल्याणक तिथि आवे तो तेज उपवासथी सरे के वीजो अधिक करवो जोश्य ? इति प्रश्न अत्र उत्तर-उपधान तपना दिवसे कल्याणक तिथि आवे तो संलग्न तप होवाथी तेज उपवासथी सरे जुदो करवा जरूर नथी.

श्रीसेनप्रश्नना त्रीजा उल्लासमां पण कहेल ठे के:-

“ उपधानवाहिनां तपोदिने कल्याणकतिथिरायाति तदा तेनैव तपसा सरति नवेत् ! प्रश्नाऽत्रोत्तरम्-बद्धतपस्त्वात् तेन तपसा सरतीति ज्ञायते अन्यथा चतुर्दश्यादिष्वेकाशनकं कृत्वाग्नेतना कल्याणकतिथिराराध्यत इति ॥ ६९ ॥ ”

सारांश:-उपधानवाहिने तपना दिवसे कल्याणक तिथि आवे तो तेज तपथी सरेके नहि ? इति प्रश्न अत्र उत्तर-संलग्न तप होवाथी तेज तपथी सरे एम जणाय ठे.(कल्याणकना आराधकने) उपधान विना पूर्णिमा अमावास्यादि तिथिमां कल्याणक दिवस होय अने उठ करवानी शक्ति न होय तेमने चतुर्दशी आदि तिथिमां एकासणुं करीने अशाकीनी कल्याणक तिथिमां उपवास करी कल्याणकलुं आराधन करवुं.

उपरना पाठोमां कल्याणक तपनां तेज तपथी सरं लखेल ठे, तेने अनुसारे ज्ञान पंचमी आदिना तपने माटे पण समजवुं.

प्र०-२४ए-सामायिक पूर्ण थये पार्या विना वीजुं सामायिक करे तेणे तथा पौषध पूर्ण थये पार्या विना वीजो पौषध करे तेणे केटला आदेश मागवा ?

उ०-सामायिकमां सामायिक लेवे तेणे सामायिक दंरुक उच्चर्या पठी बेसणे ठाठं आ एकज आदेश मागवो अनं पौषधमां पौषध लेवे तेणे संपूर्ण आदेशो मागवा.

श्रीसेनप्रश्नना वीजा उल्लासमां लखेल ठे के:-

“ सामायिकमध्ये सामायिकग्रहणे यावन्त आदेशाः पूर्व सामायिके मार्ग्यन्ते तावन्त एवाग्नेतने कि वा न्यूनाः ? न्यूनत्वे च सामायिकवदिनपौषधे गृहीते तन्मध्ये रात्रिपौषधग्रहणेऽपि पूर्णदेशमार्गणं वा न्यूनादेशमार्गणम् ? इति प्रभोऽनोत्तरम्-सामायिकमध्ये सामायिकग्रहणे सामायिकदंडो-क्खारणानन्तरं ‘बहुसणहठाठं’ इत्यादेशो मार्ग्यते दिवसपौषधमध्ये रात्रि-पौषधग्रहणे च ‘बहुबेळ करस्युं’ इति पयन्ता आदेशा मार्ग्यन्ते प्रतिलेखना-देशास्तु सार्व्यप्रतिलेखनापाठनावसरं मागितस्वारुणनं मार्ग्यन्त इति॥१७४॥”

सारांशः-सामायिकमां सामायिक ग्रहण करे तेने जेटला आ-देशो प्रथमना सामायिकमां मागेल ठे तेटखाज अगादीनी सामायि-कमां मागवा के न्यून ? जो न्यून मागवा तो सामायिकनी जेम दिवस-पौषध ग्रहण करेल होय ते रात्रि पौषध ग्रहण करे तो तेने पण पूर्ण आदेशो मागवा के न्यून आदेशो मागवा ? इति प्रश्न अत्र उत्तर-सामायिकमां सामायिक ग्रहण करे तो सामायिक दंडक उच्चर्या पठी ‘बेसणे ठाठं’ आ आदेश मंगाय ठे. अने दिवसपौषधमध्ये रात्रिपौषध ग्रहणमां ‘बहुबेळ करस्युं’ पर्यंत संपूर्ण आदेशो मंगाय ठे. पमिब्रेह-

णना आदेशो तो सांजनी पम्बिहेहण करवाना अवसरे मागेला ठे तेशी फरीने न मागवा.

प्र०-३५०-पौषधमां लघुनीति ( मात्रुं ) करीने मात्र ईरियाव-हीज करवा जोइए के गमणागमणे पण आलोववा जोइए ?

उ०-पौषधमां लघुनीति ( मात्रुं ) करीने आवाच्या पढी ईरियावही करी गमणागमणे अवश्य आलोववा जोइए.

श्रीआयारमयवीर नामनी प्राचीन समाचारीमां कहेल ठे के:-

“ काइअं वोसिरिअ ईरिअं पडिक्कमिअ गमणागमणमालोइअ ”

सारांश:-लघुनीति वोसरावी ईरियावही पडिकमीने गमणा-गमणे आलोववा.

प्र०-३५१-उपधान तप पूर्ण थया पढी कोईक उपधानमां रही पवेयणानी क्रिया करे तेने दिवस पडे तो दिवसनी वृद्धि थाय के नहि ?

उ०-उपधान तप पूर्ण थया पढी उपधानमांज रहीने पवेयणानी क्रिया करे तो पकेला दिवसनी वृद्धि थाय.

श्रीसेनप्रश्नना त्रीजा उल्लासमां लखेल ठे के:-

“ उपधानतपसि पूर्णं जाते दोषप्रवेदनेषु दिनवृद्धिर्भवति न वेति प्रश्नो-त्तरम्-उपधानदोषप्रवेदनेषु दिनवृद्धिर्भवतीति ॥ २६ ॥ ”

सारांश:-उपधान पूर्ण थये बाकीना पवेयणामां दिवसनी वृद्धि थाय के नहि ? इति प्रश्न अत्र उत्तर-उपधानना बाकीना पवेयणामां दिवसनी वृद्धि थाय.

प्र०-३५२-सामायिक अथवा पौषधमां रहेल आवक वासके-पादिकथी ज्ञाननी पूजा करी शके ?

उ०-सामायिक के पौषधमां आवक वासकेपादिकथी ज्ञाननी पूजा करी न शके. श्रीसेनप्रश्नना त्रीजा उल्लासमां कहेल ठे के:-

“ पौषधवतां आद्यानां कर्पूरदिभिः कल्पादिपुस्तकपूजा पौषधवतीनां आदीनां च गूँहलिकान्युंछनकादिकरणं श्रुध्यति न वा ? इति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्- पौषधवतां आद्यानां कर्पूरादिभिः कल्पादिपुस्तकपूजा न घटते द्रव्यस्तररूपत्वाद् गुरुपरंपर्यापि तथा दृष्टत्वाच्च एवं पौषधवतीनां आदीनां गूँहलिकान्युंछनकाद्याश्रित्यापि ज्ञेयमिति ॥ १७० ॥ ”

“ पौषधिकाः पट्टिकालिखितप्रतिमा वासेन पूजयति न वा ? इति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्-पौषधिका कारणं विना पट्टादिकं न पूजयतीति ज्ञेयमिति ॥३४०॥”

सारांशः—पौषधमां श्रावकोथी श्रीकल्पसूत्रादिनी कर्पूरादिकथी पूजा थाय ? तथा पौषधमा श्राविकाश्रोथी गूँहलिका, न्युंठनादि यद् शके ? इति प्रश्न अत्र उत्तर—पौषधमां वर्त्तता श्रावकोने द्रव्यपूजा होवाथी कर्पूरादिकथी श्रीकल्पसूत्रादिनी पूजा न थाय, गुरुपरंपराथी पण एम देखेल ठे. पवीज रीते पौषधवती श्राविकाश्रोने गूँहलिका अने न्युंठनादिकोने माटे पण जाणतुं ॥ १९० ॥

पौषधमां रद्देल श्रावक पद्दमां चित्रेल प्रतिमानी वासद्देपथी पूजा करे ? इति प्रश्न अत्र उत्तर—पौषधमां रद्देल श्रावक कारण विना पद्दमां चित्रेल प्रतिमानी पूजा न करे.

प्र०—३५३—पौषधमां सांजनी पन्डिलेहणमां ‘पौषधशाळा प्रमाजुं’ आ आदेश माग्या पढी जेम उपवासी श्रावक मुद्दपत्ति, चरवळो अने कटासणुं एम त्रण वानानी पन्डिलेहण करे ठे अने आयंबिल एकासणुं आदि करेल श्रावक मुद्दपत्ति, चरवळो, कटासणुं, कंदोरो अने धोतीउं एम पांच वानानी पन्डिलेहण करे ठे. तो श्राविका माटे पण तेमज ठे या कंइ फेरफार ठे ?

उ०—पौषध करनार श्राविका चाहे उपवासी होय अथवा आयंबिल आदि करेल होय तो पण तेणे संन्यानी पन्डिलेहणामां ‘पौष-

धशाळा प्रमार्जु' आ आदेश माग्या पढी मुद्दपत्ति, चरवळो, कटासणुं, साको, कांचळी अने सारुलो आ ब वानांनी पफिलेहणा करवी.

श्रीप्राचीनसामाचारीमां लखेल ठे के:-

“पोसहसालं पमज्जामित्ति भणित्तं सावधो पुत्तिं पाउंछणं पहिरणो ष पेहेइ, साविभा पुण पुत्तिं पाउंछणं साडिअं कच्चुगं उत्तरिज्जं च पेहेइ, ततो ठवणायरिअं पेहिअ पोसहसालं पमज्जिअ खमासमणेण उवहिमुद्द-पत्तिं पेहिअ खमासमणेण मंडलीए जाणुट्ठिओ सज्जायं करिअ वंदणं दाउं पच्चक्खाणं करिअ खमासमणदुगेण उवहिं संदिसाविय वत्थकंबलाह पेहेइ, जो अम्मत्तही सो सव्वोवहिअंते पहिरणं, साविभा गोसेव्व उवहिं पेहेइ ”

सारांश:-श्रावक 'पोषधशाळा प्रमार्जु' आदेश मागी मुद्दपत्ति कटासणुं अने घोतीउं पफिलेहे अने श्राविका मुद्दपत्ति, कटासणुं, साको, कंचुकी अने सारुलो पफिलेहे पढी स्थापनाचार्येने पफिलेही पोषधशाळा प्रमार्जि खमासण दर्ई उपाधि मुद्दपत्ति पफिलेही खमासमण दर्ई मांडलीमां हींचणजर थशने सजाय करीने वांदणा दर्ई प्रत्याख्यान करी वे खमासमण दर्ई उपाधि संदिसावीने वच्च कंबलादिकनी पफिलेहणा करे, जे उपाधी होय ते सर्व उपाधिना अंतमां घोतीउं पफिलेहे अने श्राविका सवारनी जेम उपाधिनी पफिलेहणा करे.

प्र०-३५४-जेणे रोहिणी आदि तप अंगीकार करेल होय तेने ठकीय उपधानमां ठठे दिवसे रोहिणी आदि आवे तो शुं करे ?

उ०-जेणे रोहिणी आदिनो तप उच्चर्यो होय तेणे ठकीय उपधानमां जो ठठे दिवसे रोहिणी आवे तो ठठे दिवसे रोहिणीनो उपवास तथा सातमा दिवसे उपवास अवश्य करवानो होवाची ठठ करवो पने तो जेनी ठठ करवानी शक्ति न होय तेणे ठठे दिवसे

रोहिणी आदि न आवे तेवी रीते ठकीया उपधानमां प्रवेश करवो.  
श्रीसेनप्रश्नना त्रीजा उल्लासमां लखेख ठे के:-

“ छडीयाक्यापधाने उच्चरितपंचमीतपसां षष्ठदिने यदा पंचमी समेति तदा पंचम्युपवासं कृत्वा सप्तमदिने धाचाम्लं करोति किं वा षष्ठं करोतीति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्-सप्तमदिने उपवासस्यावश्यकरणीयत्वेन षष्ठं करोति प्राक्त्यभावे तु तदनुसारेणैवोपधानप्रवेशं करोतीति ॥ ३४ ॥ ”

सारांशः-ज्ञानपंचमीनो तप जेणे उच्चरेख होय तेने ठकीय नामा उपधानमां ठहा दिवसे जो पांचम आवे तो पांचमनो उपवास करीने सातमे दिवसे आयंबिख करे के ठह करे ? इति प्रश्न अत्र उत्तर-सातमे दिवसे उपवास अवश्य करवानो होवाची ठट्ट करे ठट्ट करवानी शक्ति न होय तो ठठे दिवस पांचम न आवे तेने अनुसारे उपधानमां प्रवेश करे.

उपरना पाठने अनुसारे रोहिणी मौनपकादशी आदि अन्य तपने माटे पण जाणवुं.

प्र०-२५५-श्रीसरस्वती देवीनुं वर्णं आदि स्वरूप केवुं ठे ?

उ०-श्रीसरस्वती-श्रुतदेवीनोवर्णं श्वेत ठे इंसवाहन ठे अने चार हाथ ठे.

पूज्यपाद श्रीपादखिससूरीश्वरजी कृत निर्वाणकविका-प्रतिष्ठा-पद्धति नामा ग्रंथमां लखेख ठे के:-

“श्रुतदेवतां शुक्लवर्णां इंसवाहनां चतुर्भुजां वरदकमलान्वितदक्षिण-करां पुस्तकाक्षमालान्वितवामकरां चेति”

सारांशः-श्रीश्रुतदेवा जगवतीनो शुक्ल वर्ण, इंसवाहन अने चार पुजाळं. जमणा एक हाथमां वरद अने बीजा हाथमां कमल ठे. काबा एक हाथमां पुस्तक अने बीजा हाथमां अक्षमाला ठे.

प्र०-२५६-म्होटी शांतिमां रोहिणी, प्रज्ञप्ति आदि सोळ विद्यादेवीओनां नामो आवे ठे तेनां वाहन, शस्त्र आदिनुं वर्णन कया ग्रंथमां ठे अने केवुं ठे ?

७०-रोहिणी आदि देवीओना वर्ण अने वाहन आदिनुं वर्णन निर्वाणकृतिका (अपर नाम प्रतिष्ठापद्धति)मां ठे. ए ग्रंथना कर्ता ऋगवान् श्रीपादलिससूरीश्वरजीमहाराज ठे. जेओ पूर्वधर अने पादलेपनी शक्तिवाळा हता. जे महर्षिना नामथी नागार्जुने पादलिस (पालीताणा) वसाव्युं ठे. तेओश्री उपरना ग्रंथमां रोहिणी आदि सोल देवीओना वर्ण विगेरे दर्शावतां नीचे मुजब लखे ठे:-

१. श्रीरोहिणी देवीनो वर्ण श्वेत, वाहन गाय अने हाथ चार. चार हाथ पैकी एक जमणा हाथमां अक्षसूत्र (साळा), बीजा जमणा हाथमां बाण. एक नाबा हाथमां शंख अने बीजा नाबा हाथमां धनुष्य.

२. श्रीप्रज्ञप्ति देवीनो वर्ण श्वेत, वाहन मयूर अने चार हाथ. चार हाथ पैकी एक जमणा हाथमां वरद (हाथनी आकृति विशेष), बीजा जमणा हाथमां शक्ति. एक नाबा हाथमां बीजोरु अने बीजा नाबा हाथमां शक्ति.

३. श्रीवज्रश्रृंखला देवीनो वर्ण श्वेत, वाहन कमल अने हाथ चार. चार हाथ पैकी एक जमणा हाथमां वरद, बीजा जमणा हाथमां सांकळ. एक नाबा हाथमां कमल अने बीजा नाबा हाथमां सांकळ.

४. श्रीवज्रांकुशीदेवीनो वर्ण सुवर्ण जेवो, वाहन हस्ति अने हाथ चार. चार हाथ पैकी एक जमणा हाथमां वरद, बीजा जमणा हाथमां वज्र. एक नाबा हाथमां बीजोरु अने बीजा नाबा हाथमां शंकुश.

५. श्रीअप्रतिचक्रादेवीनो वर्ण विजली जेवो, वाहन गरुड, अने हाथ चार. ते चारे हाथमां शस्त्र तरीके चक्र.



६. श्रीपुरुषदत्ता देवीनो वर्ण सुवर्ण जेवो, वाहन महिषी (जेश) अने हाथ चार. चार हाथ पैकी एक जमणा हाथमां वरद, बीजा हाथमां तरवार. एक नाबा हाथमां बीजोरु अने बीजा नाबा हाथमां ढाल.

७. श्रीकालीदेवीनो वर्ण काळो, वाहन कमल अने हाथ चार. चार हाथ पैकी एक जमणा हाथमां अक्षसूत्र, बीजा जमणा हाथमां गदा. एक नाबा हाथमां वज्र अने बीजा नाबा हाथमां अजय (हाथनी आकृति विशेष) ठे.

८. श्रीमहाकाली देवीनो वर्ण तमालपत्रना जेवो श्याम, वाहन पुरुष अने हाथ चार. चार हाथ पैकी एक जमणा हाथमां अक्षसूत्र, बीजा जमणा हाथमां वज्र. एक नाबा हाथमां अजय अने बीजा नाबा हाथमां घंटा.

९. श्रीगौरीदेवीनो वर्ण सुवर्ण जेवो, वाहन घो अने चार हाथ. चार हाथ पैकी एक जमणा हाथमां वरद, बीजा जमणा हाथमां मुशळ. एक नाबा हाथमां अक्षमाला अने बीजा नाबा हाथमां कमळनुं घलय.

१०. श्रीगंधारी देवीनो वर्ण नीलो, वाहन कमल अने हाथ चार. चार हाथ पैकी एक जमणा हाथमां वरद, बीजा जमणा हाथमां मुशळ. एक नाबा हाथमां अजय अने बीजा नाबा हाथमां वज्र ठे.

११. श्रीसर्वास्त्रमहाज्वाला देवीनो वर्ण श्वेत, वाहन वराह (सुवर) अने शस्त्रसहित असंख्य हाथ ठे.

१२. श्रीमानवी देवीनो वर्ण श्याम, वाहन कमल अने हाथ चार. चार हाथ पैकी एक जमणा हाथमां वरद, बीजा जमणा हाथमां पाश. एक नाबा हाथमां अक्षसूत्र अने बीजा नाबा हाथमां वृक्ष ठे.

१३. श्रीवैरोद्या देवीनो वर्णं श्याम, वाहन अजगर अने हाथ चार. चार हाथ पैकी एक जमणा हाथमां तरवार अने बीजा जमणा हाथमां सर्प. एक नाबा हाथमां ढाल अने बीजा नाबा हाथमां सर्पठे.

१४. श्रीअच्छुसा देवीनो वर्णं विजळीना जेवो, वाहन अश्व (घोरो) अने हाथ चार. चार हाथ पैकी एक जमणा हाथमां तरवार अने बीजा जमणा हाथमां बाण. एक नाबा हाथमां ढाल अने बीजा नाबा हाथमां सर्प. ( बीजा प्रतना अनुसारे एक नाबा हाथमां धनुष्य अने बीजा ढाबा हाथमां ढाल आ प्रमाणे ठे. )

१५. श्रीमानसी देवीनो वर्णं श्वेत, वाहन हंस अने हाथ चार. चार हाथ पैकी एक जमणा हाथमां वरद अने बीजा जमणा हाथमां वज्र. एक नाबा हाथमां अक्षवलय अने बीजा नाबा हाथमां वज्र ठे.

१६. श्रीमहामानसी देवीनो वर्णं श्वेत. वाहन सिंह अने हाथ चार. चार हाथ पैकी एक जमणा हाथमां वरद, अने बीजा जमणा हाथमां तरवार. एक नाबा हाथमां कमंडलुं अने बीजा नाबा हाथमां फलक ठे.

प्र०-१५७-पौषधमां उपधिनुं पन्निसेहण करी काजो खई अने वोसिराव्या पढी ईरियावही करीने गमणागमणे आलोववा या नहि ?

उ०-पौषधमां उपधिनुं पन्निसेहण करी काजो खई परितवी वोसिरावी पढी ईरियावही करी गमणागमणे आलोववा जोइप. कोइक ईरियावही कर्यां बाद काजो वोसिरावे ठे, कोइक गमणागमणे करता नथी ते ठीक नथी. श्रीप्राचीनसामाचारीमां कहेल ठे के:-

“ पौसहसाळे पमज्जिअ कजयं उद्धरिअ परिद्विअ ईरियं पडिक्कमिअ गमणागमणमालोपइ ”

सारांश:-पौषधशाळा प्रमार्जि काजो खई परितवी ईरियावही पन्निक्कमीने गमणागमणे आलोववा.

आवकनी जेम साधुठण काजो उधरी जोई तपासी परिठवी वोसिरावीने पठी ईरियावही करवी न करे तो दंरु आवे.

श्रीमहानिशीथसिद्धांतना सातमा अध्यायनमां लखेल ठे के:-

“वसहिं दंडाडंढगेण विहीए पमज्जिऊण कयवरं पचुप्येहेऊण छप्यंहंयाओ संविभाइऊण य तं कयवरं परिट्टवेजा परिट्टवित्तार्णं सम्मं विहीए अचंछंतो उवउत्तो एगग्गमाणसो पर्यंपयेणं सुतत्थोभय सरमाणोजे भिवस्सु न ईरियं पधिकमेजा तस्स आथंविअसमणं पच्छिन्नं निहिसिजा ”

सारांश:-दंरासणे करीने उपाश्रयनो काजो छई काजो जोई षट्पदिकादिक होय तेने जुदी मूकी काजाने परिठवीने सम्यक् विधिपूर्वक उजा रही उपयोग पूर्वक एकाग्रमनधी पदपदना सूत्र, अर्थ अने तदुचयने स्मरण करतो जे साधु ईरियावही न करे तेने आथं-विल्ल अथवा उपवासनुं प्रायश्चित्त आपवुं.

प्र०-३५०-श्रीदेवाधिदेव-श्रीतीर्थकर परमात्माना जन्मान्निषे-  
कमां एक श्रोड अने साठ लाख कळशोतुं वर्णन आवे ठे ते संख्या  
शी रीते मळे ?

उ०-जुवनपातिना वीस इंद्रो, व्यंतरना बत्रीस इंद्रो, वैमानिकना दश इंद्रो अने मनुष्यक्षेत्रना एकसोने बत्रीस चंद्र सूर्यो मखी एक-सोने चोराणुं इंद्रोना एकसोने चोराणुं अजिषेको. असुरकुमारनी दश इंद्राणीठ, नागकुमारदि नवनिकायनी जेगी ठ दक्षिण दिशानी तथा ठ उत्तर दिशानी मखी बार इंद्राणीठ, व्यंतरनी चार इंद्राणीठ, ज्यो-तिषीनी चार इंद्राणीठ अने सौधर्म ईशाननी सोख इंद्राणीठ मखी ठेंतालीस इंद्राणीठना ठेंतालीस अजिषेको. सामानिदेवोनो एक, त्रायत्रिंशकदेवोनो एक, चार लोगपाखना चार, अंगरक्षक देवोनो एक, वर्षद देवाताठनो एक, अनिकाधिपति देवोनो एक अने प्रकीर्षक

देवोनो एक, सर्व मली दश अजिषेको. इंद्रोना एकसोने चोराणु, इंद्रा-  
णीर्जना ठेतालीस अने सामानिकादि देवताठना दश सर्व मली अढीसो  
अजिषेको थया, एक एक अजिषेकमां एक एक जातिना आठ आठ  
हजार कळशो एवा सुवर्णादिं आठ जातिना मलीने चोसठ हजार  
कळशो होयठे. आठ हजार सुवर्णना कळशो, आठ हजार रजतना  
कळशो, आठ हजार रत्नना कळशो, आठ हजार सुवर्ण अने  
रत्नना कळशो, आठ हजार सुवर्ण अने रजतना, आठ हजार  
रजत अने रत्नना, आठ हजार सुवर्ण रजत अने रत्नना कळशो,  
आठ हजार माटीना कळशो, सर्व मली चोसठ हजार कळशोथी  
एक अजिषेक थाय. तेवा अढीसो अजिषेक होवाथी चोसठ हजारने  
अढीसोनी साथे गुणतां एक क्रोन अने साठ लाख कळशो थाय.

श्रीसेनप्रश्नना बीजा उल्लासमां लखेल ठे के:-

“ पणवीस जोयणुंतुंगो, धारस जोभणाइ विच्छिद्रो ।

जोयणमेगं नालुअ, हगकोडी सद्विलकलाई ॥ १ ॥

कलशानामिर्यं संख्या कथं मिलति तद्वचस्तथा प्रसाद्यम् ? इति प्रश्नो-  
त्तरम्-अच्युताधिपत्यादीनां द्विषष्टीद्राणां द्विषष्टिस्तथा त्रान्निशदधिक-  
शतानंतरलोकस्थसूर्यचन्द्राणां त्रान्निशदधिकं शतमेव चतुर्नवत्यधिकशतं त्रानां  
चतुर्नवत्यधिकशतमभिषेकास्तथा दक्षिणोत्तरदिग्भेदेनासुराधिपत्योर्दशेन्द्रा-  
णीनां दश तथा नागादीनां नवानामपि स्थाने स्थाने एकाहापकेन स्वरूपा-  
भिधानादक्षिणोत्तरदिग्भेदेन तदधिपतीनां जात्यपेक्षया द्वादशाग्रमहिषीणां  
द्वादश एवं व्यन्तराधिपतीनां चतुरग्रमहिषीणां चत्वार एवं ज्योतिष्का-  
धिपतीनां चतुरिन्द्राणीनां चत्वार आथ देवलोकद्वयाधिपत्योः षोडशेन्द्रा-  
णीनां षोडश एवं षट्चत्वारिंशदिन्द्राणीनां षट्चत्वारिंशदभिषेकास्तथा  
सामानिकानामेकस्त्रायस्त्रिशानामेको लोकपालानां चत्वार धंगरक्षकानामेकः  
पार्षद्यानामेकोऽनीकाधिपतीनामेकः प्रकीर्णकसुराणामेक एवं दश सर्वमीलने

सार्द्धशताभिषेकास्तथा कमकमयादीनामष्टप्रकाराणां कलशानां प्रत्येक-  
मष्टाष्टौ सहस्रा इति चतुःषष्टिसहस्रकलशाः तदंकस्याभिषेकांकेन गुणने  
गाथोक्ता कलशासंख्या भवतीति संभावना ब्रुटकपत्रे दृश्यत इति ॥२०॥”

सारांशः—पचवीस योजननी उंचाइ, बार योजननी पहोळाइ  
अने एक योजननुं नाळुं एवा एक क्रोड अने साठ लाख कळशो  
आ संख्या केम मळे ? ते प्रगटपणे कहेवा कृपा करवी ? इति प्रश्न  
अत्र उत्तर—अच्युत इंद्र सुधी वासठ इंद्रोना वासठ अग्निषेको, म-  
नुष्य लोकना एकसोने बत्रीस चंदसूर्यना एकसोने बत्रीस अग्निषेको  
एम एकसोने चोराणु इंद्रोना एकसोने चोराणु अग्निषेको तथा अ-  
सुरकुमारनी दक्षिण अने उत्तर दिशानी मळीने दश इंद्राणीओना  
दश, तथा स्थान स्थानमां एकज आखावे करीने जेगा कथन करेला  
एवा नागकुमारादि नवनिकायनी दक्षिण अने उत्तर दिशानी जातिनी  
अपेक्षाए बार इंद्राणीओना बार अग्निषेको, व्यंतरनी चार इंद्राणीठना  
चार अग्निषेको एवी रीते उयोतिषीनी चार इंद्राणीओना चार तथा  
प्रथमना बे देवलोकनी सोख इंद्राणीओना सोख, एम ठेंताखीस इंद्रा-  
णीठना ठेंताखीस अग्निषेको तथा सामानिकोनो एक, त्रायत्रिंशकदेवोनो  
एक, लोकपालोना चार, पर्षदाना देवोनो एक, अनीकाधिपतिनो एऊ  
अने प्रकीर्णक देवोनो एक एम दश, सर्व मळीने अढीसो अग्निषेको.  
ध्रुवर्षादि आठ जातिना कळशो तेमां एक एक जातिना आठ आठ  
हजार कळशो होत्राथी चोसठ हजार कळशो एक अग्निषेकमां होय  
ठे. ते चोसठ हजारने अढीसें गुणा करतां गाथामां कहेख एक करोड  
अने साठ लाख कळशोनी संख्या थाय एवी संज्ञावना ब्रुटक प-  
त्रमां देखाय ठे.

प्र०-१५९-चैत्र मासनी तथा आसो मासनी अस्वाध्यायमां तप करे ते वीसस्थानकमां, रोहिणीमां, आलोयणामां के वर्धमान-तपमां गणाय ?

उ०-चैत्र मासमां तथा आसो मासमां शुदी सातम आठम अने नौम आ त्रण दिवसमां करेलो तप आलोयणमां अथवा वीस-स्थानकतपमां गणाय नहि पण रोहिणी आदि तपमां तथा वर्धमान तपमां गणाय.

श्रीसेनसूरीश्वरजी महाराजे सेनप्रश्नना बीजा उल्लासमां लखेलढे के:-

“ आश्विनास्वाध्यायमध्ये कृततपसो दिनत्रयमथवा द्वादशदिनान्यु-पधानालोचनायामन्यालोचनार्यां वा समायाति ? इति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्-सप्तम्यादिदिनत्रयं गणनार्यां न यांतीति ॥ १२२ ॥ ”

सारांश:-आसो मासनी असजायना त्रण दिवस अथवा बार दिवसमां करेलो तप उपधाननी आलोयणामां अथवा बीजा आ-लोयणामां गणाय ? इति प्रश्न अत्र उत्तर-सातम आदि त्रण दिवस गणत्रीमां न आवे.

सेनप्रश्नना श्रीजा उल्लासमां कहेल ढे के:-

“ आश्विनचैत्रास्वाध्यायमध्ये उपवासः क्रियते स विंशतिस्थानकमध्ये पक्षेपुं शुध्यति न वा ? इति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्-आश्विनचैत्रास्वाध्यायमध्ये सप्त-म्यादिदिनत्रयकृतोपवासो विंशतिस्थानकमध्ये पक्षेपुं न शुध्यतीति ॥१२९॥”

“ चत्राश्विनास्वाध्यायदिनेषु यत्तपः कृतं स्यात्तत्तपो रोहिण्यालोचनादिषु सप्तेति न वा ? इति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्-सप्तम्यादिदिनत्रयकृतं तप आलोचनार्यां न गण्यते रोहिण्यादि तथाविधसंबद्धतपसि तु गण्यते नतु सर्वत्रेति ॥२००॥”

सारांश:-आसो मास अने चैत्र मासनी असजायमां उपवास करे ते वीसस्थानकमां गणाय के नहि ? इति प्रश्न अत्र उत्तर-

आसो तथा चैत्र मासनी असजायमां सातम आदि त्रण दिवसमा करेलो तप वीसस्थानक तपमां न गणाय.

चैत्र तथा आसो मासनी असजायमां जे-तप कर्यो होय ते तप रोहिणीमां तथा आलोयणामां गणाय के नहि ? इति प्रश्न अत्र उत्तर-सातम आदि त्रण दिवसमां करेलो तप आलोचनामां गणाय नहि रोहिणी आदि संवत्तपमां गणाय.

प्र०-२६०-आविकाठप शरीर (ऋतु) संबधी त्रण दिवसनी असजायमां करेलो तप रोहिणी, ज्ञानपंचमी, मौनपकादशी, अने आयंविष्व वर्धमान तप वीसस्थानक आदि तपनी गणतरीमां गणाय ? तथा आलोयणमां गणाय ?

उ०-शरीर संबधी त्रण दिवसनी असजायमां आविकाठप करेलो तप रोहिणी, ज्ञानपंचमी, अष्टमी, षुद्धदशी, मौनपकादशी, अने आयंविष्ववर्धमान आदि तपमां गणाय पण वीसस्थानक तपमां के आलोयणमां न गणाय.

जगद्गुरु श्रीविजयद्वारीश्वरजी महाराजे हीरप्रभना बीजा प्रकाशमां लखेल ठे के:-

“अस्वाध्यायदिनत्रयान्तऋतु उपवास आलोचनातपस्येति न वा ? इति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्-अस्वाध्यायदिनत्रयसत्कं तप आलोचनातपसि जायति ॥३॥”

सारांश:-ऋतुधर्मसंबधी त्रण दिवसनी असजायमां करेल उपास आलोयणना तपमां गणाय के नहि ? इति प्रश्न अत्र उत्तर-असजायना त्रण दिवसमां करेल तप आलोयणना तपमां न गणाय.

श्रीहीरसूरीश्वरजी महाराजना पहप्रजावक श्रीसेनसूरीश्वरजी महाराजे पण श्रीसेनप्रभना चोया उल्लासमां लखेल ठे के:-

“स्थानकतपोऽष्टकर्मसूरणातपभांबिलवर्धमानतपसां मध्येऽस्वाध्यायदि-  
नभ्रयं गण्यते न वा ? इति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्-स्थानकतपोऽष्टकर्मसूरणातपसो-  
मध्येऽस्वाध्यायदिनभ्रयं न गण्यते आंबिलवर्धमानतपसो मध्ये गण्यते इति  
परंपरास्तीति ॥ १५६ ॥ ”

सारांशः-वीसस्थानक तप, कर्मसूरण तप, आर्यंबिल वर्धमान  
तप मध्ये असजायना त्रण दिवस गणाय के नहि ? इति प्रश्न अत्र  
उत्तर-वीसस्थानक तपसां तथा कर्मसूरण तपसां श्राविकाने शरीर  
संबंधी असजायना त्रण दिवसन गणाय. आर्यंबिल वर्धमान तपनी  
अंदर गणाय एवी परंपरा ठे.

प्र०-३६१-पालक नामना देवे इंद्रनी आज्ञापी बनावेहुं पा-  
लक नामनुं विमान सचित्त होय के अचित्त ?

उ०-पालक नामनुं विमान सचित्त होय.

श्रीस्थानांगसूत्रना दशमा स्थाननी वृत्तिमां लखेल ठे के:-

“ आभियोगिकाश्चैते देवा विमानोभवन्तीति ”

सारांशः-पालकादि दश आजियोगिक देवताळ स्वयं विमान-  
रूपे बने ठे.

प्र०-३६३-पालक आदि दश विमान करनार देवोनां नाम ?

उ०-१ पालक २ पुष्पक आदि नामो ठे. श्रीजंबूद्वीपप्रज्ञप्तिना  
पांचमा वक्षस्कारमां लखेल ठे के:-

“ पालय पुष्के य सोमणसे, सिरिबच्छे अ नंदिभावत्ते ।

कामगमे पीहगमे, मणोरमे विमल सवभोमदे ॥ १ ॥ ”

सारांशः-पालक १, पुष्पक २, सौमनस ३, श्रीवत्स ४, नंदा-  
वर्ष ५, कामगम ६, प्रीतिगम ७, मनोरम ८, विमल ९, सर्वतोच्च १०

प्र०-३६३-चोसठ इंद्रो जे विमानोमां बेसीने अहीं आवे ठे



ते पाखकादि देवोप्य व्रनावेल पाखकादि विमानोनी खंवाइ पद्दोळाइ तथा उंचाइ, केटखी अने इंद्रोना महान् इंद्रध्वजोनी पण उंचाइ केटखी होय ?

उ०-त्रैमानिक सौधर्मादि दश इंद्रोना पाखकादि विमानोनी एक लाख योजन खंवाइ अने पद्दोळाइ ठे. अने तेती उंचाइ पोत्र पोताना विमान जेटखी अने तेमना सहेंद्रध्वजोनी उंचाइ एक हजार योजननी ठे. असुरकुमारना इंद्रोना विमानो पचास हजार योजन खांवां पद्दोळां अने तेमनो सहेंद्रध्वज पांचसो योजन उंचो ठे. सुवनपतिना वाकी रहेखा धरणेंद्र आदि अढार इंद्रोना विमानोनी खंवाइ पद्दोळाइ पन्नीस हजार योजननी अने तेमना सहेंद्रध्वजोनी उंचाइ अढीसो योजननी ठे. व्यंतरना तथा ज्योतिषीना इंद्रोना विमानोनी खंवाइ पद्दोळाइ एक हजार योजननी अने तेमना सहेंद्रध्वजोनी उंचाइ सवांसो योजननी होय ठे.

श्रीजंबूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्रमां स्पष्टपणे उल्लेख ठे के:-

“ जाणविमाणा सर्वेसि जोअणसपसहस्सविच्छिन्ना वच्चत्तेणं सुत्ति-  
माणप्पमाणा, महिंदच्चया सर्वेसि जोयणसाहस्सिमा ”

“ विमाणं पद्दासं जोअणसहस्साइं महिंदच्चओ पंच जोअणसयाइं ”  
“विमाणं पणवीसं जोयणसहस्साइं महिंदच्चओ अद्दाइज्जाइं जोयणसयाइं”

“ विमाणा सहस्सं महिंदच्चया पणवीसं जोअणसयं ”

सारांश:-त्रैमानिकता सौधर्मादि दश इंद्रोनां यात्र विमान एक लाख योजन खांवां पद्दोळा अने उंचां स्वस्वविमानो प्रमाणे अर्थात् सौधर्म अने ईशानना इंद्रोनां पांचसो योजन उंचां, सनत्कुमार अने सहेंद्रना इंद्रोना ठसो योजन उंचां, ब्रह्मदेवलोका अने खांत-कना इंद्रोनां यानविमान सातसो योजन उंचां, शुक्र अजे सहस्रा-

रना इंद्रोनां यानविमान आठसो योजनं उंचां, प्राणत अने अच्युतना इंद्रोनां यानविमान नवसी योजनं उंचां. सौधर्मादि दशे इंद्रोनी महेन्द्रध्वजाते एक हजारं योजनं उंची.

असुरकुमारना चमरेंद्रतुं यानविमान पचास हजार योजनं लांबुं अने पहीळुं, महेन्द्र ध्वजा पांचसो योजनं उंची. बलींद्रतुं पण चमरेंद्रनी जेम जाणवुं.

नांगकुमारादिकं नवनिकार्यना चूतानंदादिक अंठार इंद्रोनां यानविमान पचीस हजार योजनं लांबां अने पहीळां, इंद्रध्वजा अंठी-सीं योजनं उंची.

वीणव्यंतरं अने ज्योतिषीना इंद्रोनां यानविमाना एक हजार योजनं लांबा अने पहीळां, इंद्रध्वजा सवासो योजनं उंची.

शुक्लपति वाणव्यंतर अने ज्योतिषीना इंद्रोनां यानविमान धर्मोवनारं आग्नियोगिक देवतां सौधर्मादिकना पाखंकादिक देवोनी पेंठे नियतं नशी.

प्र०-३६४-श्रीकार्तिक शेंठे तापसिनी पराजवणी संसारथी विरक्त थइ एक हजार अने आठ वषिकपुत्रोनी साथे श्रीमुनिसुवतेस्वामी परमात्मा पासे दीक्षा अंगीकार करी वारं वर्ष चारित्र पावो. छाद-शांगी जणी सौधर्म इंद्र थयांनुं वषानं शांछोमां आवे ठे अने श्री सिंधवणीमां 'संतमि चउइसपुंविंस्तं' चउदपूर्वी जघन्यथी ठठा देवलोकांनी जाय आ प्रमाणे कथनं ठे तो चौद पूर्वी कार्तिकभेष्टी महर्षि सौधर्म इंद्र केम थया ?

उ०-श्रीकार्तिक शेंठे महर्षि थइ छादशांगी-चउदपूर्व जण्या बाद कंइक प्रमादथी विस्मरण थवाथी सौधर्मेंद्र थया एम संजवे ठे.

श्रीऋषिमंजल सूत्रनी वृत्तिमां कहेख ठे के:-

“ ननु चतुर्दशपूर्विणो जघन्यतो लांतकदेवलोकेऽवतारः स्यात् ‘लंतमि चउदसपुधिस्स’ इति वचनात् तत्कार्यं सौधर्मं सुरपतिजात इति ? उच्यते-चतुर्दशपूर्वाणां पठितानामपि प्रमादात् किंचित् किंचिद्विस्तृत्या ”

सारांशः-चउद पूर्विनी जघन्यथी पण लांतक देवलोकरां उत्पत्ति थाय एम श्रीसंप्रहृषी सूत्रनुं वचन होवाथी चौद पूर्वी सौधर्म देवलोकरा इंड्र थया ते केम ? उत्तर-चउद पूर्व ऋषेसा पण प्रमा-दथी कंइक विस्मरण थवाथी.

प्र०-२६५-कोइ जव्यात्मा नवकारमंत्रना आराधन माटे नव-कारमंत्रनी ठळी करे तेने केटखा उपवासो तथा केटहुं गणणुं ?

उ०-नवकारमंत्रना प्रथमना सातपदो पैकी प्रत्येक पदना जेटखा जेटखा अक्षरो ठे तेटखा तेटखा उपवासो साथेज करवा. जेसके प्रथमपदना सात अक्षरो ठे, बीजापदना पांच अक्षरो, त्रीजा पदनासात अक्षरो, चोथापदना सात अक्षरो, पाचमापदना नव अक्षरो, षष्ठा पदन आठ अक्षरो अने सातमा पदना आठ अक्षरो ठे.

आ प्रमाणे प्रत्येक पदना जेटखा जेटखा अक्षरो ठे तेटखा तेटखा उपवासो ते ते पदना करवा. आठमा नवमा पदना सत्तर अक्षरो ठे तेथी सत्तर उपवास करवानी शक्ति होय तो सत्तर उपवास जेगा करे. सत्तर उपवास जेगा करवानी शक्ति न होय तो आठमा पदना आठ उपवास जेगा करे अने नवमा पदना नव उपवास जेगा करे, ए प्रमाणे नव पदना अरुसठ उपवास करवा. गणणुं जेजे पदनो तप करे ते ते पदनुं सात पद सुधी जुडुं जुडुं गणणुं आठमां नवमा पदनो तप जेगो करे तो जेशुं गणे अने जुदो करे तो जुडुं गणे.

श्रीसेनप्रश्नना चोथा उल्लासमां कहेल ठे के:-

“ नमस्कारपदानामौलिकायां कियन्त उपवासाः कियन्ते ? तत्र च नमस्कारपदानि कथं गण्यते ? इति प्रश्नोऽत्रोत्तरम्-नमस्कारस्य नव पदानि सन्ति तत्र प्रथमसप्तपदेषु प्रत्येकस्य याचन्त्यक्षराणि तावन्त उपवासाः संबन्धाः कियन्ते, अष्टमनवमयोस्तु सप्तदशाक्षराणि सन्ति, तस्मान् शक्तौ सत्यां सप्तदशोपवासाः संबन्धाः कर्तव्यास्तदभावे चाष्टौ नव चोपवासाः कर्तव्याः, तथा गणनमाभित्याधुनिकप्रवृत्त्यनुसारेणैकान्तो न दृश्यते, यतः कश्चिद्गणयति कश्चिन्नेति, यो गणयति, स सप्तौलिकामध्ये यत्पदतपः करोति तत्पदं गणयति, तथाऽष्टमनवमपदतपः संबन्धं करोति तर्हि पदद्वयगणनमपि संबन्धं गणयति यदि पृथक् तपः करोति तर्हि पदद्वयगणनमपि पृथक् गणयति । गणनं तु प्रतिपदं लक्षमानं ज्ञेयमष्टमनवमपदयोः संबन्धगणनं लक्षद्वयमानं तयोः पृथक् तपसि पृथग्गणनं लक्षप्रमाणं । तथा कश्चिदपि यत्पदतपः करोति स तदा तत्पदगणनं द्विसहस्रमानं गणयति, तस्मात्स्य यादृशी शक्तिः स तादृग् गणनं विधत्ते इति ॥ ५० ॥ ”

सारांशः-नवकारमंत्रनी उंळीना केटळां उपवास करवा ? अने तेमां नवकारना पदो केबी रीते गणवा इति प्रश्न अत्र उत्तर-नवकारमंत्रना नव पदो ठे. तेमां प्रथमना सात पदोना दरेकना जेटळा अक्षरो ठे तेटळा उपवासाो एक साथे करवा आठमा नवमा पदना सत्तर अक्षरो ठे माटे जो शक्ति होय तो सत्तर उपवास साथे करवा. शक्ति न होय तो आठ अने नव उपवास पृथक् करवा. गणणुं गणवा आभित सांप्रत काळनी प्रवृत्तिने अनुसारे कोइक गणे ठे कोइक नथी गणता एकांत नथी जे गणे ठे ते सात उंळीमां जे पदोनो तप करे ते पदने गणे ठे तथा आठमा अने नवमा पदनो तप साथे करे तो बझे पदने साथे गणे जो जुदा तप करे तो बझे पदने जुदा गणे. दरेक पदनुं एक लाख गणणुं. आठमा अने नवमा पदने साथे गणे तो बे लाख अने आठमा नवमा पदने जुदा गणे तो एक एक

( २४६ ) पूज्य-आचार्य-श्रीमद्भिजयदानसूरी-पर-विरचित-

साख गणे. तथा कोइक जे पदनो तप करे ते पदने बे हुंजार गणे  
ठे ते माटे जेनी जेवो शक्ति होय ते प्रमाणे ते गणे.

विश्वोद्वारकश्रीवीरविजुशासनवियद्विजासनाहर्मणि—पांचाल  
देशोद्वारक—सुम्पकमतीहृदक—सुरिचक्रवैवर्ति—परमपूज्य—  
न्यायाम्नीनिधिजिनाचार्य श्रीमद्भिजयानंदसूरीश्वर(श्री  
आत्माराम मुनीश) पदपूर्वाचलसहस्रकारण—मि-  
थ्यामर्तमत्तमत्तगजगणघंटाविघटनपंचानन—आति-  
रमरणीय—सुविहितनामधेय—आचरियैवर्थ्य—  
श्रीमद्भिजयिकमंसूरीश्वर—चरणकमल-  
चरीक—विश्ववल्लभश्रीवीरजिनांगम-  
विशदीकरणकलस्य—वाच्यमशि-  
रोरत्नवाचकचंद्रश्रीवीरविजया-  
त्रिधगुरुमंत्रसेवाहेवाक-विज-  
यदानसुरि—प्रणीतं . वि-  
विधप्रभोत्तरात्रिधग्रंथ—  
पूर्वाह्न समाप्ति—  
मगमत्.

જેનધર્મના અરુપધર્મ અને અગમ્ય સિદ્ધાન્તોનો સ્પેષ કરી તે સિદ્ધાન્તોનેજ અનુસરી ચાલતું તથા જૈન સમાજના પ્રત્યેક ક્ષિત્રમાં શાસ્ત્રોદ્ધારે ભાગ લેતું, જોકેતું જોકે, નીકર અને સ્વતંત્ર, ઝઠવાડીક પત્ર-

# “ શ્રી વીરશાસન.”

આ પત્રમાં પૂ. આચાર્યશ્રી યુનિપ્રવરોના તથા ધર્મ મહાજી, સંસ્કારી લેખકોના મનનીય લેખો, સુંદર રસમય ચાહુ વાતા, દેશેદશાવરના જૈન સમાજોદ્ધારો, દુનિયાના જાણવાએ સમાચારો, ઉપરાન્ત તન્ત્રી સ્થાનેથી લખાતી ચાહુ વિષયની મેધા વિ. ઠું વાંચન દર શુક્રવારે આપવામાં આવે છે.

## આ પત્રની ખાસ વિશેષતાઓ.

- ૧ અષ્ટાદશી ઉદ્દેશ, નિઃસ્વાર્થપણે ધર્મમાં નિશ્ચલ રહી ધર્મ અને સમાજના ઉત્કરે સેવા કરવાનો છે.
  - ૨ દ્રવ્યપ્રાપ્તિ, જો અષ્ટાદ્ સાધ્યબિન્દુ નથીજ.
  - ૩ આ પત્રના તન્ત્રી જોનરરી કામ કરે છે.
  - ૪ દરવર્ષે મનનીય સાહિત્યના ક્રીતિસ્થ જો સમાજસમકે લેટ અપાય છે.
  - ૫ જોકે હજાર પુસ્તક દરવર્ષે લેટ અપાય છે.
  - ૬ “પીર્ષકપ્રકરણ”ની સાચી અને સત્તાવાર ખબરો મેળવી તે સંખંધી ખાસ વાંચન આપવામાં આવે છે.
  - ૭ આ પત્ર કેહી વ્યક્તિત્વું નહિ પરન્તુ જોકે જાહેર સંસ્થાતું છે કે જાહેરો ઉદ્દેશ માત્ર જાનપ્રવાર અને શાસનસેવાનોજ છે.
- આ સર્વેનો હાલ લેવા માટે આજેજ વીરશાસનના આહુકે થાયો.

સ્થાનિક....	રૂ. ૫-૦-૦
જહારગામ....	રૂ. ૫-૬-૦
પરદેશ....	રૂ. ૭-૮-૦
—પાલ ખર્ચ સાથે.—	

૧. ઝઠવાડીક નિયમિત જાહે.
૨. ખાસ નીકળતા વધારાજો.
૩. મનનીય સાહિત્ય જાહે.
૪. વાર્ષિકે હજાર લેટ શુક.

આહુકે થવા માટે લખો:—

૦૫૦ વીરશાસન.

હાલ પંચની પેળ-અમદાવાદ.

“ શેક નગીનશાહ મંજુલાઈ જૈન સાહિત્યોદ્ધાર ફંડ ”

અર્થાંક ૧-અભયકમાર ચરિત્ર ભાષાન્તર કિંમત રૂ. ૧-૦-૦

‘મળવાતું’ ઠેઠાણું—આસ્તર ગોરધનદાસ, ઠે. જ્ઞાનકલ્પવન ગોપીપુરા-સુરત.

